

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2625]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3466(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 606 (अ), तारीख 11 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 0.000 कि.मी. से 139.900 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 14 अप्रैल, 2013 को "दैनिक भास्कर" और "राजस्थान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 0.000 कि.मी. से 139.900 कि.मी. तक (निम्बीजोधा —जस्साखेड़ा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नागौर	1. लाडनू	(1) निम्बीजोधा	1075	निजी	बारानी अलीफ	0.1796	नानीदेवी पत्नी भीवाराम खिलेरी कौम जाट 106/540 व 12/180 श्रवणदास पुत्र चन्द्रदास कौम स्वामी बृजमोहन पुत्र मोतीराम कौम जाट हि. 20/180 सा. जसवन्तगढ़ हि. 12/180 लक्ष्मणराम नन्दकिशोर मुनाराम पि. रामपाल सुरजमल वल्द प्रताप कौम लखारा 1/3 सा. देह खातेदार
				1474	निजी	बारानी अलीफ	0.0272	जेठमल वल्द किस्तुरचन्द कौम दर्जी गजेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
				1489	निजी	बारानी अलीफ	0.0266	बजरंगसिंह वल्द पोकरसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
				1490	निजी	बारानी अलीफ	0.4941	नारायणसिंह वल्द पन्नेसिंह कौम दरोगा 7/10 बजरंगसिंह वल्द पोकरसिंह कौम दरोगा 3/10 सा. देह खातेदार
				1491	निजी	बारानी अलीफ	0.0728	बजरंगसिंह वल्द पोकरसिंह कौम दरोगा 3/10 सा. देह खातेदार
				1492	निजी	बारानी अलीफ	0.2052	पुखराज गिरधारी मूलचन्द मोहनलाल पि. तोलाराम व छोटी देवी पत्नी तोलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1518	निजी	बारानी अलीफ	0.1585	सोहनीदेवी पत्नी स्व. नरायणराम भवराराम मुनाराम रूपाराम हनुमानराम, हिरालाल, ओमप्रकाश, पि. नरायणराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1518/1	निजी	बारानी अलीफ	0.1060	चेनाराम पुत्र पूर्णाराम सा. देह खातेदार
				1520	निजी	बारानी अलीफ	0.1087	रेड्डाराम गंगाराम पि. भुगानाराम रामेश्वर पि. हरकाराम गंगा पत्नी हरकाराम रामकरण पि. बिरमाराम केसरदेवी पत्नी भुगानाराम भागूराम रामदेव बद्रीलाल पि. मिसराम कौम लवार सा. देह खातेदार
				1577	निजी	बारानी अलीफ	0.4978	भंवरलाल, छोटाराम, रामनिवास, पि. भागीरथराम मगनीदेवी पत्नी भागीरथराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1577/1	निजी	बारानी अलीफ	0.1758	भंवरलाल, छोटाराम, रामनिवास, पि. भागीरथराम मगनीदेवी पत्नी भागीरथराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1577/2	निजी	बारानी अलीफ	0.1316	भंवरलाल, छोटाराम, रामनिवास, पि. भागीरथराम मगनीदेवी पत्नी भागीरथराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1580	निजी	बारानी अलीफ	0.2182	राधेश्याम मदनगोपाल पि. नथमल महालचन्द पुत्र बक्षीराम कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार 15 बीघा जगदीशप्रसाद, सुभाषचन्द, हनुमान पुत्र रामनिवास 47 बीघा कौम लखारा सुरजमल पुत्र परताराम 61 बीघा 19 विस्वा कौम लखारा सा. देह खातेदार रहन सुरजमल का हिस्सा जे.एन.जी. बैंक निम्बीजोधा मुर्तहीन
				1583	निजी	बारानी अलीफ	0.1795	रामेश्वर गोद पुत्र गणपतराम व राधा पत्नी गणपतराम लिछमण रुगनाथ पि. सरदाराराम भंवरसिंह, श्यामसिंह, पि. हडमान रामीदेवी पत्नी हडमान कानाराम पुत्र गिलूराम कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार कानाराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई शाखा लाडनू मुर्तहीन
				1585	निजी	बारानी अलीफ	0.1480	रामेश्वर गोद पुत्र गणपतराम व राधा पत्नी गणपतराम लिछमण रुगनाथ पि. सरदाराराम

								भंवरसिंह, श्यामसिंह, पि. हड:मान रामीदेवी पत्नी हड:मान कानाराम पुत्र गिलूराम कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार कानाराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू मुर्तहीन
				1641	निजी	बारानी अलीफ	0.2496	घेवरराम हरीराम नेमीचन्द पि. गंगाराम कौम जांगीड ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1642	निजी	बारानी अलीफ	0.1319	सीताराम पुत्र मांगीलाल नानीदेवी पत्नी मांगीलाल कौम जांगीड ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1643	निजी	बारानी अलीफ	0.1765	बानीदेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट सा. देह खातेदार
				1644	निजी	बारानी अलीफ	0.1954	भंवरलाल श्रवण पि. मोहनराम कालूराम पि. दूलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1660	निजी	बारानी अलीफ	0.2106	ओमदास पुत्र जानकीदास कौम साद रहन हिस्सा ओमदास एस.बी.बी.जे. शाखा लाडनू
				1661	निजी	बारानी अलीफ	0.2159	शिवनाथ उमाराम डालाराम पि. नवलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1663	निजी	बारानी अलीफ	0.1764	राज सरकार ओमदास पुत्र जानकीदास कौम साद सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा लाडनू
				1664	निजी	बारानी अलीफ	0.2552	शिवनाथ उमाराम डालाराम पि. नवलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1667	निजी	बारानी अलीफ	0.2496	भानीदेवी पत्नी मोहनराम खीचड कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा लाडनू
				1670	निजी	बारानी अलीफ	0.1051	सीताराम पुत्र मांगीलाल नानीदेवी पत्नी मांगीलाल कौम जांगीड ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1671	निजी	बारानी अलीफ	0.2537	घेवरराम पुत्र गंगाराम कौम जांगीड ब्राह्मण
				1672	निजी	बारानी अलीफ	0.1742	रामेश्वर गोद पुत्र गणपतराम व राधा पत्नी गणपतराम लिछमण रुगनाथ पि. सरदाराराम कानाराम पुत्र गिलूराम श्यामसिंह पुत्र हड:मान रामीदेवी पत्नी हड:मान कौम रावणा राजपूत देवकरण पुत्र इन्द्रचन्द सारडा कौम महेश्वरी सा. देह खातेदार कानाराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा लाडनू मुर्तहीन
				1675	निजी	बारानी अलीफ	0.2425	रामेश्वर गोद पुत्र गणपतराम व राधा पत्नी गणपतराम लिछमण रुगनाथ पि. सरदाराराम भंवरसिंह, श्यामसिंह, पि. हड:मान रामीदेवी पत्नी हड:मान कानाराम पुत्र गिलूराम कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार कानाराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू मुर्तहीन
				1676	निजी	बारानी अलीफ	0.3038	जगदीशप्रसाद, सुभाषचन्द हनुमान पुत्र रामनिवास सुरजमल पि. परताराम कौम लखारा सा. देह खातेदार
				1679	निजी	बारानी अलीफ	0.8658	हनुमान 1/2 अन्नाराम 1/2 पि. दूलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहीन हनुमान का हिस्सा ख.न. 1679 एस.बी.बी.जे. शाखा लाडनू मुर्तहीन
				1682	निजी	बारानी अलीफ	0.1436	सोहनीदेवी पत्नी स्व. नरायणराम भवराराम मुनाराम रूपाराम हनूमानराम, ठिहरालाल, ओमप्रकाश, पि. नरायणराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1683	निजी	बारानी अलीफ	0.1748	पुखराज गिरधारी मूलचन्द मोहनलाल पि. तोलाराम व छोटी देवी पत्नी तोलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1684	निजी	बारानी अलीफ	0.2629	सुखाराम पुत्र दौलाराम कौम जाट सा. माल-गोव खातेदार रहन एस.बी.आई. बैंक लाडनू
				1690	निजी	बारानी अलीफ	0.0146	चूनाराम वल्द लिखमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				2209/1690	निजी	बारानी अलीफ	0.0353	नारायणराम वल्द बक्शाराम कौम जाट सा. देह खातेदार

				2210/1690	निजी	बारानी अलीफ	0.0224	रामधन वल्द चूनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				2310/1690	निजी	बारानी अलीफ	0.0296	श्रवणराम वल्द चूनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1691	निजी	बारानी 1	0.0679	बजरंगसिंह मातुसिंह पि. मोहनसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
				1693	निजी	बारानी 1	0.3048	बजरंगसिंह मातुसिंह पि. मोहनसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
				1694	निजी	बारानी 1	0.0071	सुखाराम पुत्र दौलाराम कौम जाट सा. मालगोव खातेदार रहन एस.बी.आई. बैंक, लाडनू
				1644/1811	निजी	बारानी अलीफ	0.0195	भंवरलाल, श्रवणराम पि. मोहनराम, कालूराम पि. दूलाराम कालूराम का हिस्सा राहिन एस. बी.आई. बैंक, शाखा लाडनू
						योग	7.6185	
		(2) गेनाणा		16	निजी	बारानी 1	0.3772	बगताराम पुत्र जैसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा लाडनू के मुर्तहीन
				17	निजी	बारानी 1	0.0985	भूराराम पि. शिवकरण कौम जाट सा. देह खातेदार
				17/1	निजी	बारानी 1	0.0051	गणपतराम पुत्र मेगाराम कौम जाट सा. देह
				613/17	निजी	बारानी 1	0.0985	राम चन्द्र पि. शिवकरण कौम जाट सा. देह
				18	निजी	बारानी 1	0.1912	सीताराम पुत्र रामजीवन कौम ब्राह्मण सा. खातेदार रहन सम्पूर्ण हि. जै.था.ग्रा.
				19	निजी	बारानी 1	0.0870	छोटाराम पुत्र खुमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				19/1	निजी	बारानी 1	0.0910	नत्थूराम पि0 किशनाराम जाट सा. देह
				19/2	निजी	बारानी 1	0.0040	मांगी पुत्र बक्शाराम जाट सा. देह रहन एस. बी.जे. शाखा लाडनू
				20	निजी	बारानी 1	0.2496	पुरखाराम पुत्र मोहनाराम जीवणीदेवी पत्नी मोहनाराम हनुमानाराम, राजूराम, नन्दकिशोर, हरजीराम पि. रामदेवाराम भंवरीदेवी पत्नी रामदेवाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पुरखाराम व जीवणी का हि. यूको बैंक, लाडनू
				21	निजी	बारानी 1	0.0671	पुरखाराम पुत्र मोहनाराम जीवणीदेवी पत्नी मोहनाराम हनुमानाराम, राजूराम, नन्दकिशोर, हरजीराम पि. रामदेवाराम भंवरीदेवी पत्नी रामदेवाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पुरखाराम व जीवणी का हि. यूको बैंक, लाडनू
				53	निजी	बारानी 1	0.2784	रामकरण, हीराराम, छोटाराम, पि. गोमाराम 3/4 चैनाराम, प्रभूराम, पि. सोहनाराम रामेश्वरी पुत्री सोहनाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार रहन छोटाराम का हि. जै.थार ग्रा. निम्बीजोधा
				54	निजी	बारानी 1	0.1263	श्रीकंवर शर्मा पत्नी शंकरलाल कौम ब्राह्मण सा. लाडनू खातेदार रहन दी बैंक ऑफ राज. लिमि. शाखा, जसवन्तगढ़ मुर्तहीन
				92	निजी	बारानी 1	0.2575	मांगीलाल पुत्र छोगाराम मूलाराम दत्तकपुत्र बालूराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू मुर्तहीन
				93	निजी	बारानी 1	0.1797	मांगीलाल पुत्र बिडदाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.ऑ.ग्रा. बैंक शाखा, निम्बीजोधा
				96	निजी	बारानी 1	0.2931	मंघाराम पि. लादूराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				97	निजी	बारानी 1	0.2293	मंघाराम पुत्र केसराराम कौम जाट सा. देह खातेदार ग्राम पंचायत गेनाणा
				127	निजी	बारानी 2	0.1802	घासीराम पुत्र हुंमाराम, शान्ति बेवा बालूराम, भंवराराम पुत्र बालूराम, मोहनी पत्नी जयराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				127/1	निजी	बारानी 2	0.0388	रामेश्वर पुत्र घासीराम जाट रहन जै.था.ग्रा. निम्बीजोधा

				595/127	निजी	बारानी 2	0.1110	उमाराम पुत्र घासीराम जाट सा. देह
				545/128	निजी	बारानी 2	0.1626	मालाराम थानाराम नत्थूराम जगनाथ पि. हिम्मताराम किशनी पत्नी हिम्मताराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				546/128	निजी	बारानी 2	0.1835	भोलाराम पुत्र नाराणाराम कौम मेघवंशी सा. देह
				132	निजी	बारानी 2	0.3623	रामेश्वर पुत्र डालूराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				134	निजी	बारानी 2	0.3078	मंघाराम नाथूराम पि. लादूराम बरजूड़ी पत्नी भोलूराम गिरधारी रामचन्द्र किसनाराम जेठा पि. भोलूराम बेगाराम आसाराम पि. बालूराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				136	निजी	बारानी 1	0.3827	बगताराम पुत्र जैसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा लाडनू के मुर्तहीन
				137	निजी	बारानी 1	0.1725	पुरखाराम पुत्र मोहनाराम जीवणीदेवी पत्नी मोहनाराम हनुमानाराम, राजूराम, नन्दकिशोर, हरजीराम पि. रामदेवाराम भंवरीदेवी पत्नी रामदेवाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				138	निजी	बारानी 1	0.2313	पूर्णाराम पुत्र रामजीवन कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				140	निजी	बारानी 1	0.1917	छोटाराम पुत्र खुमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				140/1	निजी	बारानी 1	0.1917	नत्थूराम पि0 किशनाराम जाट सा. देह
				141	निजी	बारानी 1	0.2389	रामेश्वर सुखाराम पि. रामकरण कौम जांगीड सा. देह खातेदार
				142	निजी	बारानी 1	0.0952	भूराराम पुत्र पूसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				228	निजी	बारानी 1	0.0327	सुखदेव पि. मोहनाराम कौम जाट सा. देह
				228/2	निजी	बारानी 1	0.1234	रेखाराम पुत्र गिरधारी लाल कौम जाट सा. देह
				610/228	निजी	बारानी 1	0.0334	भगवानाराम पुत्र मोहनाराम कौम जाट सा. देह
				611/228	निजी	बारानी 1	0.0353	सकरामाराम पुत्र मोहनाराम कौम जाट सा. देह
				364	निजी	बारानी 1	0.0976	मांगूराम रामदेवाराम पि. मगाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				365/1	निजी	बारानी 1	0.2301	माली देवी पत्नी जावणसिंह कौम जाट सा. देह
				366	निजी	बारानी 1	0.0970	भागीरथराम, रामधन पि. भगवानाराम कौम जाट सा. देह
				376	निजी	बारानी 1	0.0802	घासीराम पुत्र सदाराम दुर्गादेवी पत्नी भंवरलाल रामनिवास, दीपाराम, भुगानाराम, चतराराम, मनोज, प्रेमराम, पि. भंवरलाल ना0बा0 चतराराम, मनोज, प्रेमराम पि. भंवरलाल संरक्षिका माता दुर्गादेवी कानाराम कालूराम पि. आसूराम दुर्गादेवी पत्नी स्व. भंवरलाल 1/8 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				377	निजी	बारानी 1	0.1181	मंघाराम पुत्र केसराराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				379	निजी	बारानी 2	0.2767	मंघाराम नाथूराम पि. लादूराम बरजूड़ी पत्नी भोलूराम गिरधारी रामचन्द्र किसनाराम जेठा पि. भोलूराम बेगाराम आसाराम पि. बालूराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन आशाराम बेगाराम का हि. एस.बी.आई लाडनू
				402	निजी	बारानी 2	0.0426	मंघाराम नाथूराम पि. लादूराम बरजूड़ी पत्नी भोलूराम गिरधारी रामचन्द्र किसनाराम जेठा पि. भोलूराम बेगाराम आसाराम पि. बालूराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन आशाराम बेगाराम का हि. एस.बी.आई लाडनू
				403	निजी	बारानी 2	0.2506	मांगूराम पुत्र आसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				404	निजी	बारानी 2	0.3001	भोलाराम पुत्र नराणाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				405	निजी	बारानी 2	0.4474	जयरामाराम पुत्र चतराराम 400/986 कौम जाट सा. रताऊ घासीराम पुत्र हुक्माराम

							93/986 शान्तिदेवी पत्नी बालूराम भंवराराम पुत्र बालूराम मोहनी पत्नी जयराम 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार
					योग	7.6491	
		(3) रताऊ					
			397	निजी	बारानी 2	0.0281	मालचन्द, कन्हैयालाल, किशनलाल, मनोजकुमार पि. रामेश्वरलाल कमलादेवी पत्नी रामेश्वरलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			398	निजी	बारानी 2	0.0478	मांगीलाल पुत्र रामजीवण फसाराम कुनणमल पि. मोहनलाल बंशीलाल पुत्र राधाकिसन उर्फ बालूराम कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			399	निजी	बारानी 2	0.0754	रतनलाल पूनमचन्द पि. सदाराम सीता मूली पुत्रियों सदाराम कमलादेवी पत्नी सदाराम कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार
			400	निजी	बारानी 2	0.0598	मांगीलाल पुत्र रामजीवन कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन जे.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
			401	निजी	बारानी 2	0.0995	कौशलया पत्नी बजरंगलाल संपतकुमार पुत्र बजरंगलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			533	निजी	बारानी 2	0.3983	सत्यनारायण पि. गोस्वामिराम कौम ब्राह्मण सा. देह व खसरा नं0 1807/533 रकवा 1-03 में कौशलया पत्नी बजरंगलाल संपत कुमार पुत्र बजरंगलाल कौम ब्राह्मण सा. देह
			534	निजी	बारानी 2	0.1357	फूसाराम, कुनणमल पि. मोहनलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			535	निजी	बारानी 2	0.0596	बक्साराम पुत्र बोयताराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			537	निजी	बारानी 2	0.3350	तुलछाराम पुत्र कुम्भाराम कौम बावरी सा. देह व खसरा नं0 1838/537 रकवा 3-18 में गेनाराम पुत्र दूलाराम कौम बावरी सा.देह
			538	निजी	बारानी 2	0.6713	कानाराम पुत्र हनुमानराम नत्थीदेवी पत्नी हनुमानराम फेफाराम, जगराम, चतराराम, दानाराम, रामसुखराम रामनिवास पि. बीरदाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन कानाराम व नत्थीदेवी का हिस्सा जै.था.ग्रा बैंक रताऊ
			540	निजी	बारानी 1	0.0094	उम्मेद पुत्र भोलाराम, जशोदादेवी पत्नी भोलाराम रहन उम्मेद का हिस्सा जै.था.ग्रा. बैंक रताऊ
			541	निजी	बारानी 1	0.2929	भंवराराम, गणेशाराम, गोविन्दराम जयरामाराम पि. हनुमानराम व मु. कंवरी पत्नी हनुमानराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			851	निजी	बारानी 1	0.0119	पोकरराम, रामनिवास पि. परमानन्द कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पोकरराम का हिस्सा जै.था.ग्रा बैंक रताऊ
			863	निजी	बारानी 1	0.1183	मेकुडी पत्नी स्व. भागीरथराम प्रभुराम भीयाराम पुरखाराम रामूराम पि. भागीरथराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन मेकुडी, भीयाराम व पुरखाराम का हिस्सा जी.ए.बी शाखा रताऊ मुर्तहीन
			864	निजी	बारानी 1	0.0530	अणचीदेवी पत्नी स्व. नानूपुरी कैलाशपुरी पुत्र नानूपुरी पूर्णपुरी पुत्र भागीरथपुरी लिछमणपुरी नारायणपुरी पि. लादूपुरी गुंसाई सा. देह खातेदार
			865	निजी	बारानी 1	0.2601	अणचीदेवी पत्नी स्व. नानूपुरी कैलाशपुरी पुत्र नानूपुरी पूर्णपुरी पुत्र भागीरथपुरी लिछमणपुरी नारायणपुरी पि. लादूपुरी गुंसाई सा. देह खातेदार
			871	निजी	बारानी 1	0.0019	सालगराम, रामदीन पि. नाथूराम बायलीदेवी पत्नी स्व. नाथूराम, बोयताराम, जयराम, पि. चतराराम धापी पत्नी चतराराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन जी.ए.बी. शाखा रताऊ मुर्तहीन
			889	निजी	बारानी 1	0.2503	भंवराराम उर्फ भंवरलाल उर्फ जगदीश पुत्र हरदीनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन

							जे.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
			891	निजी	बारानी 1	0.1187	मेकुडी पत्नी स्व. भागीरथराम प्रभुराम भीयाराम पुरखाराम रामूराम पि. भागीरथराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन मैकुडी, भीयाराम व पुरखाराम का हिस्सा जी.ए.बी. शाखा रताऊ मुर्तहीन
			897	निजी	बारानी 1	0.2004	सालगराम, रामदीन पि. नाथूराम बायलीदेवी पत्नी स्व. नाथूराम, बोयताराम, जयराम, पि. चतराराम धापी पत्नी चतराराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन जी.ए.बी. शाखा रताऊ मुर्तहीन
			898	निजी	बारानी 1	0.2937	भंवराराम उर्फ भंवरलाल उर्फ जगदीश पुत्र हरदीनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन जे.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
			901	निजी	बारानी 1	0.2415	पोकरराम, रामनिवास पि. परमानन्द कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पोकरराम का हिस्सा जे.था.ग्रा बैंक रताऊ
			903	निजी	बारानी 1	0.2049	भंवरसिंह पुत्र जालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमि. शाखा जयपुर मुर्तहीन
			904	निजी	बारानी 1	0.2644	भंवरसिंह पुत्र जालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमि. शाखा जयपुर मुर्तहीन
			906	निजी	बारानी 1	0.5944	मगनीदेवी पत्नी गोविन्दराम कौम जाट 4/5 घासीराम, तुलछीराम, रामकरणराम, कानाराम पि. नाथूराम कौम कुम्हार 1/5 सा. देह खातेदार
			912	निजी	बारानी 1	0.1733	पुरखाराम, भोपालाराम पि. गोरधनराम राजाराम, पपूराम, प्रेमराम, मुकेश पि. जैरामाराम चनकी पत्नी जैराम पूर्णाराम, लालाराम, लोडूराम, कुम्भाराम, पि. दूलाराम फूली पुत्री दूलाराम चूकीदेवी पत्नी दूलाराम, दुर्गाराम पुत्र सुगनाराम कौम नायक सा. कोलिया तह. डीडवाना रहन हिस्सा दूलाराम भोपालाराम जयपुर नागौर ऑचलिक बैंक रताऊ
			913	निजी	बारानी 1	0.2398	द्वारकाप्रसाद पुत्र रामानन्द महावीर प्रसाद पुत्र बाबूलाल गंगाबिसन पि. गणेशाराम जगदीशप्रसाद सत्यनारायण पि. धनराज गंगादेवी पत्नी धनराज भंवरलाल पुत्र लच्छीराम कौम महाजन सा. देह खातेदार
			914	निजी	बारानी 2	0.2991	खनिज संभावित क्षेत्र राज. सरकार खातेदार खसरा न. 914/1 रकवा 10-00 में बुद्धाराम देवाराम खुम्बाराम राजूराम पि. सुरजाराम कौम मेघवंशी सा. देह, खसरा सं. 914/2 रकवा 5-00 में पूर्णाराम पुत्र दयालाराम कौम मेघवंशी सा. देह, खसरा सं. 914/3 रकवा 5-00 में प्रभूलाल हि.28/100 लूणाराम हि. 28/100 श्रवणराम पि. करणाराम हि. 22/100 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
			1020	निजी	बारानी 1	0.1331	द्वारकाप्रसाद पुत्र रामानन्द महावीर प्रसाद पुत्र बाबूलाल गंगाबिसन पि. गणेशाराम जगदीशप्रसाद सत्यनारायण पि. धनराज गंगादेवी पत्नी धनराज भंवरलाल पुत्र लच्छीराम कौम महाजन सा. देह खातेदार
			1021	निजी	बारानी 2	0.0761	पुरखाराम, भोपालाराम पि. गोरधनराम राजाराम, पपूराम, प्रेमराम, मुकेश पि. जैरामाराम चनकी पत्नी जैराम पूर्णाराम, लालाराम, लोडूराम, कुम्भाराम, पि. दूलाराम फूली पुत्री दूलाराम चूकीदेवी पत्नी दूलाराम, दुर्गाराम पुत्र सुगनाराम कौम नायक सा. कोलिया तह. डीडवाना रहन हिस्सा दूलाराम भोपालाराम जयपुर नागौर ऑचलिक बैंक रताऊ
			1022	निजी	बारानी 2	0.1479	मदनलाल पुत्र बंशीलाल कौम ब्राह्मण सा. देह

								खातेदार व खसरा न० 1866/1022 रकवा 0-17 में भंवरराम, रामनिवास, पि. हरदीनाराम केसर पत्नी ओमप्रकाश कौम जाट सा. देह खातेदार
				1038	निजी	बारानी 2	0.0612	राजूराम पुत्र कुशालाराम कुम्हार, सुखाराम पुत्र चौथाराम दीनाराम पुत्र अरजाराम कौम मेघवाल अमराराम पुत्र जेठाराम रामी पुत्री चन्द्राराम कौम कुम्हार सादे 7 विस्वा मदनलाल पुत्र बंशालील कौम ब्राह्मण 3 बीघा सादे 4 बिस्वा सा. देह खातेदार
				1039	निजी	बारानी 2	0.2353	रतनाराम पुत्र गिरधारीराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1040	निजी	बारानी 1	0.3460	घासीराम, तुलछीराम, रामकरण राम, कानाराम पि. नाथूराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
				1049	निजी	बारानी 1	0.1336	सुखदेवाराम पुत्र रामधन कौम जाट सा. देह खातेदार
				1057	निजी	बारानी 1	0.1971	भंवरसिंह पुत्र जालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमि. शाखा जयपुर मुर्तहीन
				1058	निजी	बारानी 1	0.2036	भंवरसिंह पुत्र जालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमि. शाखा जयपुर मुर्तहीन
				1060	निजी	बारानी 1	0.3185	सदाकंवर पत्नी दलीपसिंह कौम राजपूत सा. डाबडी 2/57 पोकरराम पुत्र परमानन्द 53/114 रामनिवास पुत्र परमानन्द 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार
				1062	निजी	बारानी 1	0.1983	केसर पुत्री बोदूराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/2 केसर पुत्री बोदूराम का जयपुर नागौर ऑचलिक ग्रामीण बैंक शाखा रताऊ
				1125	निजी	बारानी 1	0.0576	मेकुडी पत्नी स्व. भागीरथराम प्रभुराम भीयाराम पुरखाराम रामूराम पि. भागीरथराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन मैकुडी, भीयाराम व पुरखाराम का हिस्सा जी.ए.बी शाखा रताऊ मुर्तहीन
				1126	निजी	बारानी 1	0.2800	रामूराम उर्फ रामकरण पुत्र पेमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
				1126/2	निजी	बारानी 1	0.2800	छोटूराम पुत्र पेमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन जै.था.ग्रा. रताऊ
				1126/3	निजी	बारानी 1	0.2800	गोविन्दराम पुत्र पेमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन जै.था.ग्रा. रताऊ
				1487	निजी	बारानी 1	0.2431	भंवराराम, गणेशाराम, गोविन्दराम जयरामाराम पि. हनुमानराम व मु. कंवरी पत्नी हनुमानराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1488	निजी	बारानी 1	0.0322	शिवनाथराम पुत्र छोगाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1489	निजी	बारानी 2	0.2048	रामदेव पुत्र पुरखाराम मु. झमकूडी पत्नी पुरखाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1500	निजी	बारानी 2	0.0227	कानाराम पुत्र हनुमानराम नत्थीदेवी पत्नी हनुमानराम फेफाराम, जगराम, चतराराम, दानाराम, रामसुखराम रामनिवास पि. बीरदाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन कानाराम व नत्थीदेवी का हिस्सा जै.था.ग्रा बैंक रताऊ
				1501	निजी	बारानी 2	0.1548	तुलछाराम पि. कुम्भाराम, व खसरा संख्या 1839/1501 रकवा 7-03 में दूलाराम, पि. बिरदाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार
				1502	निजी	बारानी 2	0.0850	तुलछाराम पुत्र भारमल कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ
				1503	निजी	बारानी 2	0.0758	रतनलाल पूनमचन्द पि. सदाराम सीता मूणी पुत्रियों सदाराम कमलादेवी पत्नी सदाराम कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार
				1504	निजी	बारानी 2	0.1889	बुलाराम पुत्र दीपाराम जाट सा. देह, व खसरा

							नं० 1880/1504 रकवा 1-10 में राधाकिशन पुत्र बेगाराम जाट, खसरा संख्या 1909/1504 रकवा 5-00 में राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रामूराम जाट सा. कसून्दी सांखला भोलाराम पुत्र सुरजाराम कौम जाट सा. देह, खसरा स. 1913/1504 रकवा 1-10 में छोटूराम पुत्र भोगाराम जाट सा. देह, खसरा नं० 1914/1504 रकवा 2-16 में शकरराम पुत्र झूमरराम जाट सा. देह
			1506	निजी	बारानी 2	0.0635	मालचन्द, कन्हैयालाल, किशनलाल, मनोजकुमार पि. रामेश्वरलाल कमलादेवी पत्नी रामेश्वरलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			1507	निजी	बारानी 2	0.0392	मांगीलाल पुत्र रामजीवण फसाराम कुणमल पि. मोहनलाल बंशीलाल पुत्र राधाकिसन उर्फ बालूराम कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			1508	निजी	बारानी 2	0.0775	महिपालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह (ना.बा. संरक्षक माता पिरागकवर पत्नी पृथ्वीसिंह) 1/2 कौम राजपूत सा. देह खातेदार
					योग	9.6741	
		(4) धुडीला	334	निजी	बारानी 2	0.1828	परसाराम पुत्र बालूराम कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			805/334	निजी	बारानी 2	0.1828	नन्दाराम पुत्र माधूराम सा. देह
			335	निजी	बारानी 2	0.2794	गिरधारीलाल हरदीन पि. हीरा हणमानाराम भगवानाराम केशाराम पि. भैराराम मु. बिदामी पत्नी स्व. भैराराम कौम लखारा सा. देह खातेदार
			336	निजी	बारानी 2	0.1179	बेगाराम, नानूराम, टीकूराम, भीयाराम, पि. रतनाराम, रामचन्द्र कैलाशचन्द्र जग्गूराम पि. मोटाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
			337	निजी	बारानी 2	0.0210	पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			338	निजी	बारानी 2	0.3367	नानूराम पुत्र किशनाराम कौम नायक सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू
			339	निजी	बारानी 2	0.5726	हेमसिंह पुत्र बदनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन जे.टी.जी. बैंक शाखा रताऊ
			340	निजी	बारानी 2	0.2635	नरपतसिंह, रामसिंह, हेमसिंह, हणमानसिंह पि. बदनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन हेमसिंह पुत्र बदनसिंह व रामसिंह पुत्र बदनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन जे.टी.जी. बैंक शाखा रताऊ
			349	निजी	बारानी 2	0.1043	चौथाराम पुत्र मियालाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ना.स. भूमि विकास बैंक शाखा डीडवाना
			593/349	निजी	बारानी 2	0.1042	रूपाराम मियालाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
			357	निजी	बारानी 2	0.2548	मोहनाराम, बालूराम, पूर्णाराम, पि. किसनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन जे.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ
			798/357	निजी	बारानी 2	0.0773	हरदेवाराम पुत्र चुनाराम सा. देह
			610/357	निजी	बारानी 2	0.0177	मोहनाराम पुत्र किशनाराम सा. देह
			359	निजी	बारानी 2	0.0674	पुरखाराम पुत्र चेलाराम कौम जाट सा. नोजला की ढाणी तहसील डीडवाना खातेदार रहन जे. टी.जी. बैंक शाखा रताऊ
			361	निजी	बारानी 2	0.1177	गिरधारीलाल हरदीन पि. हीरा हणमानाराम भगवानाराम केशाराम पि. भैराराम मु. बिदामी पत्नी स्व. भैराराम कौम लखारा सा. देह खातेदार
			362	निजी	बारानी 2	0.0590	बेगाराम, नानूराम, टीकूराम, भीयाराम, पि. रतनाराम, रामचन्द्र कैलाशचन्द्र जग्गूराम पि. मोटाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
			363	निजी	बारानी 2	0.0920	पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			364	निजी	बारानी 2	0.1131	किशनी पत्नी धोकलाराम नायक सा. देह

							खातेदार
			365	निजी	बारानी 2	0.3408	नरपतसिंह पि. बदनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन जे.टी.जी. बैंक शाखा रताऊ
			820/365	निजी	बारानी 2	0.1824	रामसिंह पुत्र बदनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			368	निजी	बारानी 2	0.0906	चोथाराम पुत्र मियालाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ना.स. भूमि विकास बैंक शाखा डीडवाना
			594/368	निजी	बारानी 2	0.0453	हरचंदराम पुत्र रामधन कौम जाट सा. रताऊ
			780/368	निजी	बारानी 2	0.0453	भैरुराम पुत्र लादूराम जाट सा. बडी खाटू तह0 जायल खातेदार
			369	निजी	बारानी 2	0.3374	मोहनाराम बालूराम पूर्णाराम पि. किशनाराम जाट सा. देह खातेदार रहन जे.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ
			370	निजी	बारानी 2	0.1245	पुरखाराम पुत्र चेलाराम कौम जाट सा. नोजला की ढाणी तहसील डीडवाना खातेदार रहन जे. टी.जी. बैंक शाखा रताऊ
			390	निजी	बारानी 2	0.2498	लादुराम पुत्र भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
			443	निजी	बारानी 1	0.1060	हनुमानसिंह पुत्र गोरूसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
			444	निजी	बारानी 1	0.0004	रामनिवास पुत्र छोटूराम नाबालिग संरक्षक डूंगाराम जाट सा. देह रकवा 22 बिघा 18 विस्वा भागीरथ पुत्र पूर्णाराम कौम जाट सा. रताऊ रकवा 22 बिघा 19 बिस्वा खातेदार
			455	निजी	बारानी 1	0.1270	रघुवीरसिंह, शम्भूसिंह, इन्द्रसिंह, सज्जनसिंह, पि. चावन्डसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			457	निजी	बारानी 1	0.0624	भंवराराम पि. कुम्भाराम सा. देह खातेदार, सुमन पत्नी रामकिशोर रेगर सा. खाटूकलां
			739/457	निजी	बारानी 1	0.3720	खेताराम पि. कुम्भाराम सा. देह खातेदार
			740/457	निजी	बारानी 1	0.0335	सुन्दरदेवी पत्नी रामेश्वरलाल मेघवाल सा. रताऊ खातेदार
			460	निजी	बारानी 1	0.3971	छोटूराम पुत्र डूंगाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			461	निजी	बारानी 1	0.0728	जेठाराम दत्तक पुत्र बिडदाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			462	निजी	बारानी 1	0.1784	हनुमानसिंह पुत्र गोरूसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
			464	निजी	बारानी 1	0.1029	नरपतसिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			466	निजी	बारानी 1	0.4035	मोहनाराम पुत्र कानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
			467	निजी	बारानी 1	0.1308	छोटूराम पुत्र डूंगाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			469	निजी	बारानी 1	0.1692	जेठाराम दत्तक पुत्र बिडदाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			470	निजी	बारानी 1	0.3232	हनुमानसिंह पुत्र गोरूसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
			489	निजी	बारानी 1	0.0088	नरपतसिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			503	निजी	बारानी 1	0.1469	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, धन्नी पत्नी स्व. जेठाराम पप्पू पुत्र हणमान बुधा पि. जेठाराम कौम मेघवंशी सा. देह 1/3, सुगनी बेवा मोहनाराम, किसान सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार का सम्पूर्ण खाता रहन ज.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ, रहन सुगनी लिखमण का हि.एस.बी.आई लाडनू
			504	निजी	बारानी 1	0.0182	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, धन्नी पत्नी स्व. जेठाराम पप्पू

								पुत्र हणमान बुधा पि. जेटाराम कौम मेघवंशी सा. देह 1/3, सुगनी बेवा मोहनराम, किसना सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार का सम्पूर्ण खाता रहन ज.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ, रहन सुगनी लिक्ष्मण का हि.एस.बी.आई. लाडनू
				506	निजी	बारानी 1	0.0205	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, धन्नी पत्नी स्व. जेटाराम पप्पू पुत्र हणमान बुधा पि. जेटाराम कौम मेघवंशी सा. देह 1/3, सुगनी बेवा मोहनराम, किसना सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार का सम्पूर्ण खाता रहन ज.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ, रहन सुगनी लिक्ष्मण का हि.एस.बी.आई. लाडनू
				508	निजी	बारानी 1	0.0625	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, धन्नी पत्नी स्व. जेटाराम पप्पू पुत्र हणमान बुधा पि. जेटाराम कौम मेघवंशी सा. देह 1/3, सुगनी बेवा मोहनराम, किसना सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार का सम्पूर्ण खाता रहन ज.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ, रहन सुगनी लिक्ष्मण का हि.एस.बी.आई. लाडनू
				510	निजी	बारानी 1	0.0828	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, (पूर्णाराम पुत्र लालाराम मेघवंशी सा. देह रकवा 5) बिस्वा, मदनलाल पुत्र बाबरी सा. हुडास रकवा 1 विद्या 3 बिस्वा 1/3 सुगनी पत्नी स्व. मोहनराम किसना सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3, कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				541	निजी	बारानी 1	0.0244	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, धन्नी पत्नी स्व. जेटाराम पप्पू पुत्र हणमान बुधा पि. जेटाराम कौम मेघवंशी सा. देह 1/3, सुगनी बेवा मोहनराम, किसना सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार का सम्पूर्ण खाता रहन ज.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ, रहन सुगनी लिक्ष्मण का हि.एस.बी.आई. लाडनू
				548	निजी	बारानी 1	0.1958	भागीरथराम पुत्र लोडिया कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा लाडनू, सुण्डाराम पुत्र किशनाराम मेघवंशी सा. देह
				549	निजी	बारानी 1	0.1613	नरपतसिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				557	निजी	बारानी 1	0.0110	रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार 1/3, धन्नी पत्नी स्व. जेटाराम पप्पू पुत्र हणमान बुधा पि. जेटाराम कौम मेघवंशी सा. देह 1/3, सुगनी बेवा मोहनराम, किसना सांवरमल लिछमण पि. मोहन 1/3 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रतनाराम पुत्र दानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार का सम्पूर्ण खाता रहन ज.एन.ए.जी. बैंक शाखा रताऊ, रहन सुगनी लिक्ष्मण का हि.एस.बी.आई. लाडनू
				558	निजी	बारानी 1	0.0859	छोटाराम पुत्र नानूराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				559	निजी	बारानी 1	0.0616	भागीरथराम पुत्र लोडिया कौम मेघवंशी सा.

							देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे बैंक शाखा लाडनू
			560	निजी	बारानी 1	0.1745	हनुमानसिंह पुत्र गोरुसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
			563	निजी	बारानी 2	0.0941	चोथाराम पुत्र पाँचीया कौम बाबरी सा. देह खातेदार
					योग	8.0078	
(5) खामियाद			133	निजी	बारानी 2	0.1239	नाथूराम पुत्र चुनाराम कौम जाट सा. धुडीला
			134	निजी	बारानी 2	0.1104	भंवरसिंह, हुनमानसिंह, भागिरथसिंह, गोविन्दसिंह, देवीसिंह पि. नथूसिंह रतनकंवर बेवा नथूसिंह कल्याणसिंह विजेसिंह कुशालसिंह दौलतसिंह पि. सज्जनसिंह अजीतसिंह पुत्र फतेसिंह कौम राजपूत सा. मामडोदा खातेदार
			135	निजी	बारानी 2	0.2381	मोहनाराम लालूराम पि. पेमाराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार
			136	निजी	बारानी 2	0.1927	जोराराम पुत्र मंगलाराम कौम कुम्हार सा. मामडोदा खातेदार
			137	निजी	बारानी 1	0.1355	मोहनाराम पूर्णाराम पि. किशनाराम जाट सा. देह खातेदार ओमप्रकाश पुत्र बालूराम कमलादेवी पत्नी बालूराम, ना.बा. तेजू कुमारी पुत्री बालूराम सं० माता कमलादेवी पत्नी बालूराम सा. धुडीला
			145	निजी	बारानी 1	0.5018	नाथूराम पेमाराम परसाराम रतनाराम भजनाराम पि. हीराराम सोहनाराम पुत्र सांवराराम नानूडी पत्नी ईसराराम लादूराम, शंकरराम, गुलाबराम, हरिकिशन, मेगाराम पि. भैरूराम मोहनीदेवी पत्नी भैरूराम कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन पेमाराम, परसाराम पि. हीराराम व लादूराम वगैरहा का हिस्सा रहन दी नोगौर सेण्ट्रल कॉ ऑपरेटिव बैंक लिमि. नागौर शाखा लाडनू
			146	निजी	बारानी 1	0.0282	मोती लिखमा पि. जसाराम भागूराम पुत्र सूखा अमराराम रामनिवास बिरमाराम पि. मोहना कौम बाबरी सा. देह खातेदार
			148	निजी	बारानी 1	0.0594	कानाराम, रामकरण, हरदेवाराम पि. किसना रहन हरदेवाराम पुत्र किशना कौम नायक सा. देह का हिस्सा रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू
			675/179	निजी	बारानी 1	0.0381	मगनीराम पुत्र लिखमाराम जाति खाती सा. देह खातेदार
			180	निजी	बारानी 1	0.1847	अमराराम रामनिवास बीरमाराम पि. मोहना बावरी 6 बीघा 3 विस्वा मोहना पुत्र बुद्धा नायक 1 बीघा सा. देह खातेदार
			181	निजी	बारानी 1	0.0568	सोहनीदेवी पत्नी हजारी मोहनलाल जगदीशप्रसाद शंकरलाल पि. हजारीराम जाति खाती सा. देह खातेदार,
			182	निजी	बारानी 1	0.0200	मगनकंवर पत्नी हनुमानसिंह, ओमकंवर पत्नी रणजीतसिंह, दुर्गाकंवर ज्योतिकंवर, पुष्पाकंवर, ललिताकंवर, पुत्रियाँ रणजीतसिंह कौम राजपूत सा. देह
			183	निजी	बारानी 1	0.0729	कानाराम, सालगाराम रामूराम रामकरण पि. दोलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			184	निजी	बारानी 1	0.2113	पूसाराम पुत्र धुडाराम कौम राईका सा. देह खातेदार
			185	निजी	बारानी 1	0.1477	सज्जनकंवर पत्नी भंवरसिंह दयालसिंह पुत्र रेवतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन शाखा रताऊ मुर्तहीन
		186	निजी	बारानी 1	0.0841	मगनकंवर पत्नी हनुमानसिंह, ओमकंवर पत्नी रणजीतसिंह, दुर्गाकंवर ज्योतिकंवर, पुष्पाकंवर, ललिताकंवर, पुत्रियाँ रणजीतसिंह कौम राजपूत सा. देह	
		187	निजी	बारानी 1	0.2149	रामूराम गोपीराम पि. हरलाल मोहनाराम अणदाराम पि. हरलाल नाबालिग जरिये	

					कुदरती वलिया माता चूकी देवी बैवा हरलाल भंवरलाल कानाराम उगाराम पि. लिछमणराम भागीरथराम पुत्र मोटाराम कौम गूजर सा. देह खातेदार रहन भंवरलाल, कानाराम, पि. लिछमणराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा छोटी खाटू
188	निजी	बारानी 1	0.1935		समुडी पत्नी सांवताराम कौम राईका सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू
189	निजी	बारानी 1	0.2311		बीरमाराम देवाराम भुगानाराम गोरधनराम पि. नराणाराम कौम जाट सा. जोचीणा त. जायल खातेदार रहन भुगानाराम का हिस्सा ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ व बीरमाराम का हिस्सा एस. बी.आई. लाडनू
191	निजी	बारानी 1	0.0729		मालूराम बदरीराम पि. नेनूडा देवाराम मनोहरराम पि. भैरूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार, रहन मालूराम, मनोहरराम का हिस्सा एस.बी.आई. लाडनू
197	निजी	बारानी 1	0.1133		मोहनाराम पूर्णाराम पि. किशनाराम जाट सा. देह खातेदार ओमप्रकाश पुत्र बालूराम कमलादेवी पत्नी बालूराम, ना.बा. तेजू कुमारी पुत्री बालूराम सं० माता कमलादेवी पत्नी बालूराम सा. धुडीला
199	निजी	बारानी 2	0.0643		जोराराम पुत्र मंगलाराम कौम कुम्हार सा. मामडोदा खातेदार
200	निजी	बारानी 2	0.0840		मोहनाराम लालूराम पि. पेमाराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार
201	निजी	बारानी 2	0.0875		भंवरसिंह, हुनमानसिंह, भागिरथसिंह, गोविन्दसिंह, देवीसिंह पि. नथूसिंह रतनकंवर बेवा नथूसिंह कल्याणसिंह विजैसिंह कुशालसिंह दौलतसिंह पि. सज्जनसिंह अजीतसिंह पुत्र फतेसिंह कौम राजपूत सा. मामडोदा खातेदार
229	निजी	बारानी 1	0.0097		पाबूदान नेमा सोहना बीरबल महावीर इन्द्रा पि. गंगाराम सुवटी पत्नी गंगाराम पेमाराम पुत्र चन्द्राराम गीगाराम पुर्णाराम गिरधारी पप्पूराम पि. कानाराम परमेश्वर श्रीरामाराम पि. मूलाराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
233	निजी	बारानी 1	0.0345		नाथूराम पेमाराम परसाराम रतनाराम भजनाराम पि. हीराराम सोहनराम पुत्र सांवराराम नानूडी पत्नी ईसराराम लादूराम, शंकरराम, गुलाबराम, हरिकिशन, मेगाराम पि. भैरूराम मोहनीदेवी पत्नी भैरूराम कौम बावरी सा. देह खातेदार रहन पेमाराम, परसाराम पि. हीरराम व लादूराम वगैरहा का हिस्सा दी नागौर सेण्ट्रल कॉ ऑपरेटिव बैंक लि.मि. नागौर
236	निजी	बारानी 1	0.2503		मोती लिखमा पि. जसाराम भागूराम पुत्र सूखा अमराराम रामनिवास बिरमाराम पि. मोहना कौम बाबरी सा. देह खातेदार
238	निजी	बारानी 1	0.0212		भागीरथ पुत्र मोटाराम कौम गुजर सा. देह खातेदार रहन बैंक शाखा एस.बी.आई लाडनू मूर्तहीन
390	निजी	बारानी 1	0.0763		प्रभूराम रामनाथ हीराराम पि. मोहन व हीरकी बेवा मोहन कौम नायक सा. देह खातेदार प्रभूराम रामनाथ का हिस्सा रहन एस.बी.आई. लाडनू
392	निजी	बारानी 1	0.0788		भंवराराम, श्रीराम, रूपाराम, रामेश्वरराम पि. हुक्माराम सायरी पत्नी हुक्माराम शैतानराम, अर्जनराम पि. जयरामाराम बाबडी पत्नी जयरामाराम 1 बीघा 5 बिस्वा, मालाराम पुत्र नानूराम 15 बिस्वा कौम बावरी सा. देह खातेदार
394	निजी	बारानी 1	0.0632		सोहनीदेवी पत्नी हजारी मोहनलाल, जगदीश, शंकरलाल पि. हजारी, उगमा पेमा पि. लिखमा कौम खाती सा. देह खातेदार

				397	निजी	बारानी 1	0.0655	मगनकंवर पत्नी हनुमानसिंह, ओमकंवर पत्नी रणजीतसिंह, दुर्गाकंवर ज्योतिकंवर, पुष्पाकंवर, ललिताकंवर, पुत्रियाँ रणजीतसिंह कौम राजपूत सा. देह
				398	निजी	बारानी 1	0.0518	कानाराम सालगाराम रामूराम रामकरण पि. दोलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				402	निजी	बारानी 1	0.0667	मूनाराम पि. थानाराम कौम राईका सा. देह खातेदार
				678/402	निजी	बारानी 1	0.0667	मूलाराम पुत्र मोतीराम पि. हडमानराम भंवरीदेवी पत्नी हडमान राम कौम राईका सा. देह खातेदार
				403	निजी	बारानी 1	0.0647	सज्जनकंवर पत्नी भंवरसिंह दयालसिंह दत्तक पुत्र रेवतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन शाखा रताऊ मुर्तहीन
				404	निजी	बारानी 1	0.2916	रामूराम गोपीराम पि. हरलाल मोहनराम अणदाराम पि. हरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चूकी देवी बैवा हरलाल चूकीदेवी बैवा हरलाल भंवरलाल कानाराम उगाराम पि. लिछमणराम भागीरथराम पुत्र मोटाराम कौम गूजर सा. देह खातेदार रहन भंवरलाल, कानाराम, पि. लिछमणराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा छोटी खाटू
				405	निजी	बारानी 1	0.1729	सवाईराम मेगाराम किशनाराम बागाराम पि. जसाराम पुसी बैवा जसाराम कौम राईका सा. देह खातेदार
				406	निजी	बारानी 1	0.0255	घासीराम पुत्र शिवकरण लुहार रामकरण पुत्र किशना कौम नायक सा. देह खातेदार
				407	निजी	बारानी 1	0.0021	बीरमाराम देवाराम भुगानाराम गोरधनराम पि. नराणाराम कौम जाट सा. जोचीणा त. जायल खातेदार रहन भुगानाराम का हिस्सा ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ व बीरमाराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई लाडनू
				409	निजी	बारानी 1	0.0411	बीरमाराम देवाराम भुगानाराम गोरधनराम पि. नराणाराम कौम जाट सा. जोचीणा त. जायल खातेदार रहन भुगानाराम का हिस्सा ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ व बीरमाराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई लाडनू
				410	निजी	बारानी 1	0.0610	पुकी पत्नी मालूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. लाडनू
				682/410	निजी	बारानी 1	0.0692	मनोहरराम पुत्र भैरूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. लाडनू
				683/410	निजी	बारानी 1	0.0693	देवाराम पुत्र भैरूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
				684/410	निजी	बारानी 1	0.0580	बदरीराम पुत्र नानूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
						योग	4.9070	
	(6) तितरी			70	निजी	बारानी अलीफ	0.1415	मनोहरसिंह पुत्र हरनाथसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा एस.बी.बी.जे शाखा लाडनू
				71	निजी	बारानी अलीफ	0.1479	श्रवणपुरी, अमरपुरी पि. गणेशपुरी धन्नी पत्नी गणेशपुरी कौम गुसाई सा. देह खातेदार
				72	निजी	बारानी अलीफ	0.2124	ईचुराम पुत्र मूलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. छोटीखाटू मुर्तहीन
				74	निजी	बारानी अलीफ	0.1312	ईचुराम पुत्र मूलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. छोटीखाटू मुर्तहीन
				83	निजी	बारानी अलीफ	0.0334	श्रवणपुरी, अमरपुरी पि. गणेशपुरी धन्नी पत्नी गणेशपुरी कौम गुसाई सा. देह खातेदार
				84	निजी	बारानी अलीफ	0.1591	मनोहरसिंह पुत्र हरनाथसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा एस.बी.बी.जे शाखा लाडनू
				85	निजी	बारानी अलीफ	0.0315	मोडाराम चैनाराम पि. जीया कौम जाट सा. देह खातेदार
				104	निजी	बारानी	0.3520	रामदेवाराम मलाराम हनुमानाराम पि. खूमाराम

				अलीफ		पूसी पत्नी खूमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			105	निजी बारानी अलीफ	0.2730	रामदेव मोहनराम बंशीलाल पि. जेठा फूलकी पत्नी जेठा कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
			106	निजी बारानी अलीफ	0.3624	भीयाराम पि. नाथाराम, बुधाराम पुत्र रामदीन कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन भीयाराम व बुधाराम का हिस्सा एस.बी.आई शाखा छोटीखाटू मुर्तहीन
			110	निजी बारानी अलीफ	0.1367	बदरी सरूपा पि. हीराराम मेगवंशी सा. देह खातेदार
			117	निजी बारानी अलीफ	0.1786	मोहना पुत्र उमाराम जाट सा. देह खातेदार
			148	निजी बारानी अलीफ	0.0301	लोहडाराम पुत्र कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
			149	निजी बारानी अलीफ	0.0616	भीयाराम पुत्र शिवजीराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			150	निजी गै. मु. आबादी	0.1236	अशोककुमार पुत्र दुर्गाराम कौम जांगीड सा. देह खातेदार
			268	निजी बारानी अलीफ	0.1411	बदरी सरूपा पि. हीराराम मेगवंशी सा. देह खातेदार
			269	निजी बारानी अलीफ	0.0698	नाथुराम दत्तक पुत्र सांवता कौम जाट सा. देह खातेदार
			270	निजी बारानी अलीफ	0.3155	लोहडाराम पुत्र कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
			271	निजी बारानी अलीफ	0.0299	भोपालाराम पुत्र खंगाराम कौम राईका सा. देह खातेदार
			462/271	निजी बारानी अलीफ	0.0512	जडादेवी पत्नी भंवराराम सा. देह खातेदार
			276	निजी बारानी अलीफ	0.3047	बदरी सरूपा पि. हीराराम मेगवंशी सा. देह खातेदार
			277	निजी बारानी अलीफ	0.0404	बदरी सरूपा पि. हीराराम मेगवंशी सा. देह खातेदार
			320	निजी बारानी अलीफ	0.2708	प्रेम पत्नी देवाराम जाट सा. देह खातेदार
			321	निजी बारानी अलीफ	0.3306	लोहडाराम पुत्र कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा रताऊ मुर्तहीन
			328/425	निजी बारानी अलीफ	0.0178	शिवसिंह देवीसिंह भरतसिंह पि. नथूसिंह भगोती, संजू पुत्रियों नथूसिंह सरजूकंवर पत्नी नथूसिंह कौम दरोगा सा. देह खातेदार
			328/426	निजी बारानी अलीफ	0.1365	जगदीश पुत्र तेजाराम कौम दरोगा सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई छोटी खाटू
			328/427	निजी बारानी अलीफ	0.1360	जीतूराम पुत्र तेजाराम सा. देह रहन एस.बी.आई छोटी खाटू
			328/428	निजी बारानी अलीफ	0.1360	सोहनलाल पुत्र तेजाराम कौम दरोगा सा. देह खातेदार
			332	निजी बारानी अलीफ	0.2617	रामसुख देवा पि. मियाला भगवानाराम पुत्र रामदीन मनीराम पुत्र प्रभुराम राधादेवी पत्नी प्रभुराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			335	निजी बारानी अलीफ	0.7336	प्रभुराम पुत्र अर्जनराम कौम जाट सा. बांठडी त. डीडवाना खातेदार
			336	निजी बारानी अलीफ	0.0172	मोडाराम चैनाराम पि. जीया कौम जाट सा. देह खातेदार ग्राम पंचायत खामियाद
			361	निजी बारानी अलीफ	0.3983	रामसुख देवा पि. मियाला भगवानाराम पुत्र रामदीन मनीराम पुत्र प्रभुराम राधादेवी पत्नी प्रभुराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			362	निजी बारानी अलीफ	0.0731	जयराम पुत्र जवानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई बैंक छोटीखाटू
					योग	5.8394
2. डीडवाना	(1) बांठडी	7	निजी	बारानी 1	0.0476	कानाराम मगनाराम पि. बलून्ताराम कालूराम चैनाराम पि. चन्द्राराम कौम गुजर सा. देह खातेदार

					खातेदार रहन मगनाराम का हिस्सा एस.बी. आई. छोटी खादू
60	निजी	बारानी 1	0.0545		गोविन्दसिंह पुत्र धनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा केराप
61	निजी	बारानी 1	0.3351		सफीखॉ पुत्र जबरदीनखॉ कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
62	निजी	बारानी 1	0.0297		गुला भागीरथ निम्बा पि. आसूराम नाथूराम पुत्र डालूराम कौम गुजर सा. देह खातेदार राहिन गुला पुत्र आसू का हिस्सा ज.थार.ग्रा. बैंक शाखा केराप मूर्तहीन
63	निजी	बारानी 1	0.1195		रामकुंवार प्रहलाद पि. मोहनदास कौम साद सा. देह खातेदार राहिन रामकुंवार का हिस्सा ज. थार ग्रा. बैंक शाखा केराप
64	निजी	बारानी 1	0.2028		कानाराम मगनाराम पि. बलून्ताराम कालूराम चेनाराम पि. चन्द्राराम कौम गुजर सा. देह खातेदार रहन मगनाराम का हिस्सा एस.बी. आई. छोटी खादू
65	निजी	बारानी 1	0.2057		कानाराम पुत्र बलून्ताराम कौम गुजर सा. देह खातेदार
66	निजी	बारानी 1	0.2016		हनुमानराम लिछमणराम तेजाराम पि. किशना जीया बेवा किशना रामनाथ सोहन पि. लादू कौम गुजर सा. देह खातेदार राहिन लिछमणराम का हि.ज.थार ग्राम बैंक शाखा केराप
68	निजी	बारानी 1	0.3799		हनुमानराम लिछमणराम तेजाराम पि. किशना जीया बेवा किशना रामनाथ सोहन पि. लादू कौम गुजर सा. देह खातेदार राहिन लिछमणराम का हि.ज.थार ग्राम बैंक शाखा केराप
69	निजी	बारानी 1	0.2832		कानाराम पुत्र बलून्ताराम कौम गुजर सा. देह खातेदार
70	निजी	बारानी 1	0.3438		गुला भागीरथ निम्बा पि. आसू कौम गुजर सा. देह खातेदार राहिन गुला पुत्र आसू का हिस्सा
72	निजी	बारानी 1	0.2747		शेरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन ज.ना.आ.ग्रा बैंक शाखा केराप
73	निजी	बारानी 1	0.5255		सफीदा पुत्र जबरदीनखॉ कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
82	निजी	बारानी 1	0.6477		गोविन्दसिंह पुत्र धनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा केराप
83	निजी	बारानी 1	0.4767		आईदान पुत्र भागीरथ प्रेमराम हरदेवाराम राजूराम पि. मदनलाल चन्दादेवी पत्नी स्व. मदनलाल कौम नाई सा. देह खातेदार
84	निजी	बारानी 1	0.7657		समदर खॉ, रोशनखॉ, कालूखॉ पिता जमाल खॉ, सालमखॉ सिकन्दरखॉ सुल्तानखॉ लालखॉ पि. जोरूखॉ भंवरी पुत्र जोरूखॉ बिदामी पत्नी जोरूखॉ कौम मुसलमान, भंवरी पत्नी हबीबखॉ शम्भुखॉ गनीखॉ पि. हबीबखॉ बाबूखॉ हुसैनखॉ रमजानखॉ पि. लोडूखॉ जुबेदा बेवा लोडूखॉ कौम मुसलमान सा. देह ब.हि.ब खातेदार
85	निजी	बारानी 1	0.4369		बाबूखॉ हुसैनखॉ रमजानखॉ पि. लोडूखॉ जुबेदा बेवा लोडूखॉ कौम सिपाही (मोगल) सा. देह खातेदार
97	निजी	बारानी 1	0.0350		रामचन्द्र बीरमाराम मेघाराम पि. किस्तूरराम पन्नीदेवी बेवा किस्तूरराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार रहन मेघाराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा छोटीखादू
98	निजी	बारानी 1	0.4482		फरीदखॉ पुत्र अलफूखॉ कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन ज.थार.ग्रा बैंक शाखा केराप
99	निजी	बारानी 1	0.5693		लक्ष्मणसिंह पुत्र बालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
137	निजी	बारानी 1	0.1878		रुकमणीदेवी पत्नी रामनिवास कौम जाट सा. रणसीसर भागीरथ पुत्र आसू कौम गुजर सन्तोषकंवर पत्नी मुकनसिंह कौम रावणा

					राजपूत सा. देह खातेदार
138	निजी	बारानी 1	0.0024		चोखाराम पुत्र हीराराम जाट सा. बाठणी खातेदार
139	निजी	बारानी 1	0.8198		रामचन्द्र बीरमाराम मेघाराम पि. किस्तूरराम पन्नीदेवी बेवा किस्तूरराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार रहन मेघाराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा छोटीखाटू
140	निजी	बारानी 1	0.4493		बाली बेवा मोटाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीडवाना
617/157	निजी	आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु	0.0639		जैराम पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण सा. भदलिया, सन्तोषदेवी पत्नी गिरधारीलाल ब्राह्मण सा. बाठडी, महावीरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह कौम रावणा राजपूत, घनश्याम पुत्र खेताराम कुम्हार सा. रघुनाथपुरा, घासीराम दत्तक पुत्र अर्जुनराम जाट सा. देह
148	निजी	बारानी 1	0.0493		हजारीराम गोपालराम तुलछाराम पि. डालूराम सुगनी सुवटी पुत्रियाँ डालूराम रामचन्द्र बीरमाराम मेघाराम पि. किस्तूर पन्नीदेवी बेवा किस्तूर कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
151	निजी	बारानी 1	0.2462		रामचन्द्र वीरेन्द्र पि. अर्जुनराम कौम जाट सा. बिचावा खातेदार
158	निजी	बारानी 1	0.0469		अनिल रामनिवास पि. छोटूराम किस्तूरी बेवा छोटूराम पूसाराम गुरमाराम हडमानराम राजूराम पि. गणेशा प्रेमराम कालूराम पि. मोहनाराम सुवटी पत्नी मोहनाराम कौम मेघवंशी श्रीराम लिछमणराम पि. अरजन सांवता कालू पि. मांगीया कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
159	निजी	बारानी 1	0.0869		सावन्ता, कालू पि. मांगीया पूसाराम गुरमाराम हडमानराम राजूराम पि. गणेशा अनिल रामनिवास पि. लोडूराम किस्तूरी बेवा लोडूराम प्रेमराम, कालूराम पिता मोहनाराम सुवटी पत्नी मोहनाराम श्रीराम लिछमणराम पि. अर्जुन कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
522/159	निजी	गै.मु. आबादी	0.0462		सावन्ता, कालू पि. मांगीया पूसाराम गुरमाराम हडमानराम राजूराम पि. गणेशा अनिल रामनिवास पि. लोडूराम किस्तूरी बेवा लोडूराम प्रेमराम, कालूराम पिता मोहनाराम सुवटी पत्नी मोहनाराम श्रीराम लिछमणराम पि. अर्जुन कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
198	निजी	बारानी 2 गै.मु. आबादी	0.1753		शेरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन ज.ना.आ.ग्रा बैंक शाखा केराप गै.मु. आबादी
203	निजी	बारानी 2	0.1403		अनिल रामनिवास पि. छोटूराम किस्तूरी बेवा छोटूराम पूसाराम गुरमाराम हडमानराम राजूराम पि. गणेशा प्रेमराम कालूराम पि. मोहनाराम सुवटी पत्नी मोहनाराम कौम मेघवंशी श्रीराम लिछमणराम पि. अरजन सांवता कालू पि. मांगीया कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
306	निजी	बारानी 2	0.1129		गुलाब अमरा पि. गिरधारी चुकीदेवी पत्नी रिछपाल प्रेमसिंह जीतूसिंह, प्रतापसिंह पि. रिछपाल कौम रावणाराजपूत 1/2 गणपत नाथू मनोहरसिंह पुत्र जसू उर्फ जसवन्तसिंह 1/2 कौम रावणाराजपूत सा. देह खातेदार
360	निजी	बारानी 2	0.1378		गफारखाँ सतारखाँ रजाकखाँ खलीलखाँ शरीफखाँ पि. लोडूखाँ हलीमा बेवा लोडूखाँ कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
361	निजी	बारानी 2	0.0353		हणुन्ताराम पि. चन्द्राराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार रहन हणुन्ताराम व मांगी का हिस्सा एस.बी.बी.जे शाखा डीडवाना
642/361	निजी	बारानी 2	0.0353		रूपाराम पुत्र चन्द्राराम कौम बाबरी सा. देह
362	निजी	बारानी 2	0.3083		आईदान पुत्र भागीरथ कौम नाई सा. देह खातेदार

				363	निजी	बारानी 2	0.3903	गिरधारीलाल पुत्र नन्दलाल कौम ब्राह्मण खण्डेलवाल सा. देह खातेदार
				364	निजी	बारानी 2	0.0764	गिरधारीलाल पुत्र नन्दलाल कौम ब्राह्मण खण्डेलवाल सा. देह खातेदार
				365	निजी	बारानी 2	0.0258	गोविन्दसिंह पुत्र धनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा केराप
				367	निजी	बारानी 2	0.1501	अनिल रामनिवास पि. छोटूराम किस्तूरी बेवा छोटूराम पूसाराम गुरमाराम हडमानराम राजूराम पि. गणेशा कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				368	निजी	बारानी 2	0.2128	नाथूराम पुत्र चूनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा केराप
				376	निजी	बारानी 2	0.3848	शिवराम मेहराम पि. नन्दाराम शान्ती पत्नी स्व. नन्दाराम रामनिवास हेमाराम पि. हरदीनराम झूमराम पुत्र शिवकरण रेखाराम जेताराम चैनाराम पि. रामदीन झूमी बेवा रामदीन कौम जाट सा. देह खातेदार रहन रामनिवास पुत्र हरदीनराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई. शाखा लाडनू मूर्तहीन
				381	निजी	बारानी 2	0.1026	हणुन्ताराम पि. चन्द्राराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
				643/381	निजी	बारानी 2	0.1025	रूपाराम पि. चन्द्राराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
				404	निजी	बारानी 2	0.9727	प्रहलाद पि. चन्द्राराम कौम ब्राह्मण खण्डेलवाल सा. देह खातेदार, व खसरा सं. रकवा 16-02 में गिरधारीलाल पुत्र नन्दलाल
				405	निजी	बारानी 2	0.0933	अनिल रामनिवास पि. छोटूराम किस्तूरी बेवा छोटूराम पूसाराम गुरमाराम हडमानराम राजूराम पि. गणेशा कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार
				406	निजी	बारानी 2	0.0770	गजेन्द्रसिंह चन्द्रसिंह पि. उम्मेदसिंह केशरकंवर पत्नी उम्मेदसिंह, सुमनकंवर, दशरथकंवर पुत्रियां उम्मेदसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				407	निजी	बारानी 2	0.2182	श्रीराम पुत्र भोलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक केराप मूर्तहीन
				414	निजी	बारानी 2	0.0020	बीरमाराम राजूराम पि. गोरधनराम जसूदेवी पत्नी गोरधनराम लोहडी बाउडी सुखी पुत्रियां गोरधनराम किसनाराम पुत्र पूर्णाराम विमला पुत्री पूर्णाराम पूर्णादेवी पत्नी पूर्णाराम सालगराम पुत्र रामरखराम पूसाराम हणमानराम डूंगाराम पि. रामूराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				415	निजी	बारानी 2	0.0112	गणपत पुत्र नारायण कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार
				413 / 475	निजी	बारानी 2	0.0010	शिवराज मेहराम पि. नन्दाराम शान्ती पत्नी स्व. नन्दाराम रामनिवास हेमाराम पि. हरदीनराम झूमराम पुत्र शिवकरण रेखाराम जेताराम चैनाराम पि. रामदीन झूमी बेवा रामदीन कौम जाट सा. देह खातेदार
						योग	12.1477	
	(2) बिचावा			65	निजी	बारानी 1	0.1103	रामनिवास पुत्र मगनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				66	निजी	बारानी 1	0.2283	रामचन्द्र विरेन्द्र पि. अर्जुनराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				67	निजी	बारानी 1	0.2244	जैसराजसिंह पुत्र मूलसिंह रावणाराजपूत सा. देह
				687/67	निजी	बारानी 1	0.0441	लिछमणसिंह पुत्र मूलसिंह रावणाराजपूत सा. देह खातेदार
				689/67	निजी	बारानी 1	0.1340	हरिसिंह पुत्र मूलसिंह रावणाराजपूत सा. देह
				70	निजी	बारानी 1	0.1512	इन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				71	निजी	बारानी 1	0.1140	भंवरलाल पुत्र भैरूराम हीरादेवी पत्नी भैरूराम कौम जाट सा. देह खातेदार

				73	निजी	बारानी 1	0.0872	रामचन्द्र विरेन्द्र पि. अर्जुनराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				74	निजी	बारानी 1	0.1437	सुखाराम चान्दराम पि. भंवरलाल रामनिवास सालगराम हरलाल पि. मेगाराम सुवटी बेवा मेगाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार
				84	निजी	बारानी 1	0.1868	लिछमणसिंह पुत्र मूलसिंह रावणाराजपूत सा. देह खातेदार
				690/84	निजी	बारानी 1	0.1019	हरिसिंह पुत्र मूलसिंह रावणाराजपूत सा. देह खातेदार
				85	निजी	बारानी 1	0.3047	भंवरलाल रामकरण हनुमान पुरखाराम राजूराम श्रवणलाल पि. नारायणराम धनीदेवी बेवा नारायणराम 1/3 पेमाराम पुत्र भैराराम 1/3 पुरखाराम पुत्र नारायणराम 1/3 कौम जाट सा. देह खातेदार
				87	निजी	बारानी 1	0.2354	भंवरलाल पुत्र भैराराम हीरादेवी पत्नी भैराराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				257	निजी	गै. मु. बाड़ा	0.0121	मदनराम पुत्र पूर्णाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				258	निजी	बारानी अलीफ	0.0789	बदराराम पुत्र बालूराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				259	निजी	बारानी अलीफ	0.1934	मदनराम पुत्र पूर्णाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				265	निजी	बारानी अलीफ	0.0440	मदनराम पुत्र पूर्णाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				267	निजी	बारानी अलीफ	0.0895	मंगला पुत्र पूसा 1/3 बिरमा पुत्र उदा लूणा खोले बालू 2/3 कौम नायक सा. देह खातेदार
				268	निजी	बारानी 1	0.0915	घनश्याम अर्जुनराम शोभाराम पि. बीरमाराम सोनकी बेवा बीरमाराम बस्तीराम पूनियां दत्तक पुत्र बजरंगलाल ओमप्रकाश सीताराम जगराम पि. हरजीराम चुकलीदेवी पत्नी हरजीराम जीवणी बेवा चेनाराम कौम जाट सा. देह ब.हि. ब. खातेदार
				335	निजी	बारानी अलीफ	0.0602	धूंकलाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन ज. थार ग्रा. बैंक शाखा केराप मूर्तहीन
				336	निजी	बारानी अलीफ	0.1300	मोतीराम रामपाल रतनाराम लालाराम पि. टीकूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार ब.हि.ब
				337	निजी	बारानी अलीफ	0.0062	किशोरसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				338	निजी	बारानी अलीफ	0.1139	प्रेमसिंह पुत्र तेजसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				351	निजी	बारानी अलीफ	0.0082	सूरजकरण पुत्र धूंकलराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				644/351	निजी	बारानी अलीफ	0.0082	गंगाराम पुत्र धूंकलराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				352	निजी	बारानी अलीफ	0.0322	मोतीराम रामपाल रतनाराम लालाराम पि. टीकूराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार ब.हि.ब
				353	निजी	बारानी अलीफ	0.0351	प्रेमसिंह पुत्र तेजसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				214/559	निजी	बारानी अलीफ	0.1789	मदनराम पुत्र पूर्णाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				65/557	निजी	बारानी 1	0.2199	सुखाराम चान्दराम पि. भंवरलाल रामनिवास सालगराम हरलाल पि. मेगाराम सुवटी बेवा मेगाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार
				65/558	निजी	बारानी 1	0.2419	बदराराम पुत्र बालूराम कौम जाट सा. देह खातेदार
						योग	3.6097	
		(3) डाबगाँव		47	निजी	बारानी 1	0.4666	परसाराम पुत्र भागीरथ कौम जाट सा. देह खातेदार
				49	निजी	बारानी 1	0.0187	इलमूखां लोडूखां महमदअली खां अब्दुलखां पि. मोहीदीनखां सकीना बेवा मोहीदीनखां कौम मु. शेरांनी सा. शेरांनी आबाद खातेदार राहिन इलमूखां अब्दुलखां का हिस्सा एस.बी.आई.

					शाखा डीडवाना मूर्तहीन		
			65	निजी	बारानी 1	0.2359	कुम्भा पुत्र चुना कौम जाट सा. देह खातेदार
			68	निजी	बारानी 1	0.2134	दानाराम पुत्र बिडदाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			69	निजी	बारानी 1	0.1211	1. मनीराम पुत्र शिवराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा खाटूखुर्द 2. लाल मोहम्मद पुत्र दाउदखों इकबालखों पुत्र मनोहरखों कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद खातेदार
			71	निजी	बारानी 1	0.0885	मनीराम पुत्र शिवराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			73	निजी	बारानी 1	0.1613	मेराम पुत्र गिरधारी कौम जाट सा. देह खातेदार
			80	निजी	बारानी 1	0.1812	मनीराम पुत्र शिवराम मेहराम पुत्र गिरधारी कौम जाट सा. देह खातेदार
			84	निजी	बारानी 1	0.1868	रामनिवास पुत्र नानगराम कौम जाट सा.देह खातेदार
			85	निजी	बारानी 1	0.0646	पोंचाराम हरीराम पि. सीताराम कौम नाई सा देह
			97	निजी	बारानी 1	0.1423	परसाराम पुत्र भागीरथ कौम जाट सा. देह खातेदार
			98	निजी	बारानी 1	0.0838	बदरूदीन सदरूदीन कमरूदीन पि. उमरखों कौम मु. शेरानी सा. शेरानी आबाद खातेदार ब.हि.बराबर
					योग	1.9643	
(4) शेरानी आबाद			270	निजी	बारानी अलीफ	0.0180	लियाकतअली पत्नी लालखों नदीम अख्तर नईमअख्तर पि. लियाकतअली अंजूनखानम नाहिद परवीरबानू नरगिसबानू पुत्रियों लियाकतअली नईम अख्तर व नरगिसबानू नाबा. संरक्षक पिता लियाकतअली कौम शेरानी सा. देह खातेदार
			274	निजी	बारानी अलीफ	0.0358	गुलाम मोहम्मद पुत्र कमरूदीनखों शेरानी 22/563 नसीरअहमद पुत्र जलालूदीन कोम लीलगर सा. बडीखाटू हि. 22/563 लियाकतअली पुत्र लालखों शेरानी सा. देह सुफिया मोहल्ला हि. 10/563 जैतुनबेगम पत्नी इब्राहीमखों हि. 30/563 शेरानी नूरी मोहल्ला नानूखों पुत्र दीनारखों शेरानी 43/563, जैतुनबेगम पत्नी इब्राहीमखों हि. 45/563 कौम शेरानी सा. देह व जफर अहमद पुत्र लालमोहम्मद हि. 1392/2815 कौम शेरानी सा. देह, मोहम्मदअयुब पुत्र निजामुद्दीन हि. 80/563 जफरअहमद पुत्र लालमोहम्मद हि. 992/2815 कौम शेरानी सा. देह खातेदार, बदरूद्दीन पुत्र मुमताजखों सगीर अहमद पि. शबीर अहमद
			1139/274	निजी	बारानी अलीफ	0.0548	मदनलाल पुत्र पेमाराम कौम नायक सा. कुचामन सिटी
			1142/274	निजी	बारानी अलीफ	0.0354	गोकुलराम पुत्र पुरखाराम नायक सा. खाटूखुर्द गैर खातेदार
			1143/274	निजी	बारानी अलीफ	0.0664	रमजान अब्दुल रसूल पि. जोमरदी
			1144/274	निजी	बारानी अलीफ	0.0641	मरियमबानो पत्नी शबीर अहमद
			276	निजी	बारानी अलीफ	0.0647	इब्राहीमखों पुत्र उमरखों कौम शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी छापडा राहिन ना.स.भू.वि.बैंक
			1184/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0209	मो0 अली पि. उमरखों सा. देह
			1185/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0647	मो0 अली पि. उमरखों सा. देह
			1186/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0647	शौकतअली पि. उमरखों सा. देह
			1187/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0209	शौकतअली पि. उमरखों सा. देह

			1188/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0647	अब्दुल गफफूर पि. उमरखॉ सा. देह
			1189/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0209	अब्दुल गफफूर पि. उमरखॉ सा. देह
			1190/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0647	मो. हनीफ पि. उमर खॉ सा. देह
			1192/276	निजी	बारानी अलीफ	0.0647	खलील अहमद पि. उमर खॉ सा. देह
			277	निजी	बारानी अलीफ	0.1158	अलाउद्दीन पुत्र लालखॉ कौम शेरानी सा. ढाणी छापड़ा खातेदार
			324	निजी	बारानी अलीफ	0.0195	अलाबक्ष पि. बादर खॉ कौम शेरानी सा. देह ढाणी ऊचली खातेदार
			325	निजी	बारानी अलीफ	0.2012	रमजानखॉ अ. रहमान अलीमो. लालमो जाकिर हुसैन लियाकतअली पि. सरवर खॉ ऐमना बेवा सरवर खॉ कौम शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी ऊचली
			326	निजी	बारानी अलीफ	0.3623	कमरुद्दीन पुत्र अलाबक्ष खॉ 18/74 लाल मोहम्मद पुत्र दाउद खॉ 20/222 मोहोदीन पुत्र गुलाब खॉ 1/3 उमर फारुख पुत्र सराजू 1/3 कौम शेरानी सा. देह खातेदार
			328	निजी	बारानी अलीफ	0.0583	मनोहरदीन हासमखॉ नूरमोहम्मद इकबालखॉ इस्माईलदीन फकरुद्दीन कमरुद्दीन पि. उमरदीन रईसाबानू मेहमूदा पुत्रियां उमरदीन रहमतबानू पत्नी उमरदीन, मोहम्मदबगस पि. पीरखॉ कौम शेरानी सा. देह खातेदार
			1272/329	निजी	बारानी अलीफ	0.0382	अलाबक्ष पुत्र बादरखॉ कौम शेरानी सा. देह खातेदार
			1275/329	निजी	बारानी अलीफ	0.0426	मोहम्मदवक्ष पुत्र बादरखॉ सकीला पत्नी जमालुद्दीन, मो. हसन मो. हुसैन अब्दुल्ला मो. अशरफ मो. इरशान शाहदतअली पि. चांदखॉ ऐमना पत्नी चांदखॉ कौम शेरानी सां. देह खातेदार,
			1276/329	निजी	बारानी अलीफ	0.0389	मोहम्मदवक्ष पुत्र बादरखॉ सकीला पत्नी जमालुद्दीन सा. देह खातेदार
			335	निजी	बारानी अलीफ	0.0675	अबुलालखॉ इकबालखॉ उस्मानखॉ गुलाबखॉ पि. जोमरदीखॉ अमराव बेवा जोमरदीखॉ इल्मुदीन मन्सूरअहमद पि. जलालखॉ हुरमत बेवा जलालखॉ हलीमा बेवा जाबदीखॉ कौम शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी ऊचली
			336	निजी	बारानी अलीफ	0.0134	आसिया पत्नी अलाउद्दीन अमीरदीन मो. हुसैन अ. सत्तार पि. सायखॉ 1/2 जोमरदीन जफरुद्दीन मोहीदीन लालखॉ गनीखॉ पि. इजाजखॉ 1/2 कौम शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी ऊचली राहिन जोमरदीन का हिस्सा यूको बैंक छोटीखाटू मुर्तहीन
			341	निजी	बारानी अलीफ	0.0139	अमतु पुत्री दाऊदखॉ कौम शेरानी सा. देह खातेदार
			342	निजी	बारानी अलीफ	0.1102	फकरुद्दीन कमरुद्दीन बाबूखॉ बजरुद्दीन पि. इलमूदीन जैतून बेवा इलमूदीन कौम शेरानी सा. देह खातेदार
			344	निजी	बारानी अलीफ	0.0728	आसिया पत्नी अलाउद्दीन अमीरदीन मो. हुसैन अ. सत्तार पि. सायखॉ 1/2 जोमरदीन जफरुद्दीन मोहीदीन लालखॉ गनीखा पि. इजाजखॉ 1/2 कौम शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी ऊचली राहिन जोमरदीन का हिस्सा यूको बैंक छोटीखाटू मुर्तहीन
			345	निजी	बारानी अलीफ	0.3555	अबुलालखॉ इकबालखॉ उस्मानखॉ गुलाबखॉ पि. जोमरदीखॉ अमराव बेवा जोमरदीखॉ इल्मुदीन मन्सूरअहमद पि. जलालखॉ हुरमत बेवा जलालखॉ 12 विस्वा हलीमा बेवा जाबदीखॉ 1 विघा 3 विस्वा निजामुद्दीन पुत्र छीतरखॉ बरकतबानो पत्नी मेहमूद कौम शेरानी हि 5785/121968

				346	निजी	बारानी अलीफ	0.4696	सराजूखों पुत्र लालखों शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी छापडा
				353	निजी	बारानी 1	0.0746	मो० हुसैन मो० शरीफ पि. अमीरखों मुन्नी सूफियां पुत्रियां अमीरखों जोरा बानो पत्नी अमीरखां इंसराईलखां दीन मोहम्मद पि. उमरखों जेतुन बेवा उमरखों छोटूखां इजाजखां पि. हबीबखां 1/2 मौला दाऊदखां हमीदखां रमजानी पि. मुमताज खों 1/4, बशीरबानो पत्नी मुनीरखों लुकमान दत्तकपुत्र मुनीरखों हि. 1/16, बरकतबानो पत्नी मेहमूद हि. 16/220 कौम शेरानी सा. देह, निजाम पि. छीतरखों, हलीमा पत्नी नियायखां कौम शेरानी सा. देह खातेदार
				354	निजी	बारानी 1	0.0363	मो० हुसैन मो० शरीफ पि. अमीरखों मुन्नी सूफियां पुत्रियां अमीरखों जोरा बानो पत्नी अमीरखां इंसराईलखां दीन मोहम्मद पि. उमरखों जेतुन बेवा उमरखों छोटूखां इजाजखां पि. हबीबखां 1/2 मौला दाऊदखां हमीदखां रमजानी पि. मुमताज खों 1/4, बशीरबानो पत्नी मुनीरखों लुकमान दत्तकपुत्र मुनीरखों हि. 1/16, बरकतबानो पत्नी मेहमूद हि. 16/220 कौम शेरानी सा. देह, निजाम पि. छीतरखों, हलीमा पत्नी नियायखां कौम शेरानी सा. देह खातेदार
				1013	निजी	बारानी अलीफ	0.0813	अलीमोहम्मद पुत्र मनीरखां कौम शेरानी सा. देह खातेदार
				1014	निजी	बारानी अलीफ	0.0349	जमीरदीन सबीरअहमद पि. कालूखां आसयिां बेवा कालूखां कौम शेरानी सा.देह खातेदार ढाणी कमराव
				1015	निजी	बारानी अलीफ	0.1073	मोहम्मद पुत्र नानूखों कौम शेरानी सा. देह खातेदार ढाणी कुमराव
				1023	निजी	बारानी अलीफ	0.3643	सयदअहमद वल्द नजीर अहमद कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
				1025	निजी	बारानी अलीफ	0.1428	जफरआलम वल्द खीजरहयातखां कौम शेरानी सा. देह खातेदार
				1027	निजी	बारानी अलीफ	0.5084	सुलेमान पुत्र अलाबक्ष कौम शेरानी सा. देह खातेदार
				1039	निजी	बारानी अलीफ	0.1732	साकिर मोहम्मद सफी मोहम्मद मोहम्मदखां युसुफअली मेहमूद खों मन्ससूर अहमद मोहम्मदसरीफ पि. मुख्तारखां हिस्सा 1/4 कौम शेरानी, सरफूदीन फारुक अजीज मजीद हुसैन पि. कमरुदीन 1/4 जीवणखां वल्द सराजूखां लाल मोहम्मद वल्द लोडूखां 1/2 कौम शेरानी सा. देह खातेदार
						योग	4.2283	
	(5) खादूखुर्द			983	निजी	बारानी 1	0.0024	गुलामफरीदखों पुत्र हासमखों कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद खातेदार
				984	निजी	बारानी 1	0.0912	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम कौम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार
				985	निजी	बारानी 1	0.0121	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम काम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार
				986	निजी	बारानी 1	0.0011	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम कौम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार

				988	निजी	बारानी 1	0.0010	लालमोहमद वल्द अलादीन मुसलमान सा. शेरानी आबाद ढाणी आधूणी 1/2 गुलाम रसूल कमरुदीन नबीबगस खाजूबगस पि. रहीमबगस कौम शेख सा. देह खातेदार
				989	निजी	बारानी 1	0.0364	गोपाल हणमानमल जगदीश सोहनलाल जुगलकिशोर पि. रामचन्द्र कौम महेश्वरी सा. देह खातेदार
				990	निजी	बारानी 1	0.0022	ईनायतखॉ पुत्र दीनदारखॉ कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद ढाणी छापडा खातेदार
				991	निजी	बारानी 1	0.0355	रुकमादेवी पत्नी मांगीलाल जाट सा. मन्डूकरा, सा. शेरानी आबाद खातेदार
				1854/991	निजी	बारानी 1	0.0244	मो. अली पुत्र अ. शकूर कौम मुसलमान लोहार सा. देह
				1011	निजी	बारानी 1	0.0015	इब्राहीमखॉ कमरुदीन अजीजखॉ इसराईलखॉ पि. जमालुदीन हलीमा पत्नी जमालुदीन कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद ढाणी छापडा खातेदार
				1012	निजी	बारानी 1	0.0021	देवकरण रामकिशन पि. लिछमण खाती सा. देह खातेदार
				1028	निजी	बारानी 1	0.4536	देवकरण रामकिशन पि. लिछमण खाती सा. देह खातेदार
				1029	निजी	बारानी 1	0.2210	इब्राहीमखॉ 4/5 कमरुदीन पि. जमालुदीन कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद ढाणी छापडा खातेदार
				1030	निजी	बारानी 1	0.2683	ईनायतखॉ पुत्र दीनदारखॉ कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद ढाणी छापडा खातेदार
				1031	निजी	बारानी 1	0.0896	रुकमादेवी पत्नी मांगीलाल जाट सा. मन्डूकरा, सा. शेरानी आबाद खातेदार
				1855/1031	निजी	बारानी 1	0.0585	गुलशन पत्नी मकबूल अहमद सा. शेरानी आबाद
				1949/1031	निजी	बारानी 1	0.0266	जेतुनबानो पत्नी जलालखॉ कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद खातेदार
				1032	निजी	बारानी 1	0.0240	गोपाल हणमानमल जगदीश सोहनलाल जुगलकिशोर पि. रामचन्द्र कौम महेश्वरी सा. देह खातेदार
				1033	निजी	बारानी 1	0.1994	लालमोहमद वल्द अलादीन मुसलमान सा. शेरानी आबाद ढाणी आधूणी 1/2 गुलाम रसूल कमरुदीन नबीबगस खाजूबगस पि. रहीमबगस कौम शेख सा. देह खातेदार
				1034	निजी	बारानी 1	0.2121	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम कौम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार
				1035	निजी	बारानी 1	0.1905	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम कौम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार
				1036	निजी	बारानी 1	0.1942	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम कौम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार
				1071	निजी	बारानी 1	0.0065	अणचीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम कौम जाट 1/2 खीयाराम जोधाराम मेघाराम बीरमाराम झूमरराम पि. गंगाराम अणचीदेवी बेवा गंगाराम 1/4 मेघाराम पुत्र गंगाराम 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार
				1073	निजी	बारानी 1	0.4131	गुलामफरीदखॉ पुत्र हासमखॉ, अफसर बानो पत्नी मो. सफी कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद खातेदार
				1074	निजी	बारानी 1	0.0511	गुलामफरीदखॉ पुत्र हासमखॉ कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद खातेदार

			1819/1074	निजी	बारानी 1	0.6143	महावीरप्रसाद पुत्र लूणकरण सोनी सा. देह
			1075	निजी	बारानी 1	0.1117	कालूराम पुत्र जडावमल ओसवाल धारीवाल कोठीयारी सा. देह खातेदार
			1076	निजी	बारानी 1	0.6469	उदयकंवर पत्नी छोटूसिंह रघवीरसिंह प्रेमसिंह पि. छोटूसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			1140	निजी	बारानी 1	0.7032	जगदीशप्रसाद भंवरलाल पि. रामूराम किसनाराम नानाराम पि. भंवरलाल, भंवरलाल पुत्र छोटूराम कौम जाट 1/2 भंवरलाल छगनालाल लालाराम पप्पूराम पि. छोटू कानी बेवा छोटू 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार
			1141	निजी	बारानी 1	0.7084	जगदीशप्रसाद भंवरलाल पि. रामूराम किसनाराम नानाराम पि. भंवरलाल, भंवरलाल पुत्र छोटूराम कौम जाट 1/2 भंवरलाल छगनालाल लालाराम पप्पूराम पि. छोटू कानी बेवा छोटू 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार
			1181	निजी	बारानी 1	0.2764	देवाराम पेमाराम परसाराम हरकरणराम पाँचूराम थानाराम राजेन्द्रसिंह पि. निम्बाराम कुन्नीदेवी पत्नी निम्बाराम धन्नीदेवी पत्नी हरजीराम जितेन्द्र अशोक पि. हरजीराम मन्जू राधा रेखा विमला पुत्रियाँ हरजीराम मनीराम तेजाराम पि. रामदीन सुगनादेवी पत्नी रामदीन बुगादेवी रामेश्वरीदेवी पुत्रियाँ रामदीन कौम जाट सां. देह खातेदार
			1182	निजी	बारानी 1	0.2921	हरिराम प्रभूराम बनवारी पि. घासीराम मोहनी पत्नी स्व. घासीराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1185	निजी	बारानी 1	0.8385	हरिराम प्रभूराम बनवारी पि. घासीराम मोहनी पत्नी स्व. घासीराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1193	निजी	बारानी 1	0.6036	पूर्णाराम दत्तक पुत्र सेवाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1888/1225	निजी	बारानी 1	0.8257	सुखाराम कालूराम पि. कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1233	निजी	बारानी 1	0.0034	देवाराम पेमाराम परसाराम हरकरणराम पाँचूराम थानाराम राजेन्द्रसिंह पि. निम्बाराम कुन्नीदेवी पत्नी निम्बाराम धन्नीदेवी पत्नी हरजीराम जितेन्द्र अशोक पि. हरजीराम मन्जू राधा रेखा विमला पुत्रियाँ हरजीराम मनीराम तेजाराम पि. रामदीन सुगनादेवी पत्नी रामदीन बुगादेवी रामेश्वरीदेवी पुत्रियाँ रामदीन कौम जाट सां. देह खातेदार
			1234	निजी	बारानी 1	0.9344	हरिराम प्रभूराम बनवारी पि. घासीराम मोहनी पत्नी स्व. घासीराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1237	निजी	बारानी अलीफ	0.5952	सुखाराम कालूराम पि. कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1238	निजी	बारानी अलीफ	0.0385	सुरेन्द्रसिंह प्रतापसिंह पि. जोरसिंह राजपूत 34 बीघा 4 बिस्वा मदनलाल पुत्र रामदीन कौम जाट हि. 55/804 सा. देह, जयनारायण पुत्र रामपाल बजाज महेश्वरी, राकेशकंवर पत्नी शंकरसिंह कौम राजपूत सा. दीपनगर इन्दोखा) तह. मकराना हि. 55/804 खातेदार।
			1239	निजी	बारानी अलीफ	0.2103	सुरेन्द्रसिंह प्रतापसिंह पि. जोरसिंह राजपूत सा. देह खातेदार
			1240	निजी	बारानी अलीफ	0.4184	प्रेमाराम हेमाराम पि. रामनिवास कौम जाट सा. देह खातेदार हि. 12.16 बीघा
			1897/1240	निजी	बारानी अलीफ	0.7495	बजरंगसिंह पुत्र रणजीतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार हि. 12.16 बीघा
			1241	निजी	बारानी 1	0.3837	सुखाराम कालूराम देवाराम पि. कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			1958/1245	निजी	बारानी अलीफ	0.1747	गिरधारीसिंह पुत्र अर्जुनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार

				1246	निजी	बारानी अलीफ	0.1869	महावीरप्रसाद पुत्र लुणकरण कौम सुनार सा. देह खातेदार
				1262	निजी	बारानी अलीफ	0.4654	देवाराम दत्तक पुत्र भूराराम कौम जाट, सारिका पुत्री स्थिकरण कुडी कौम जाट सा. नागौर
				1264	निजी	बारानी अलीफ	0.0264	सुरजाराम पुत्र जेठाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1268	निजी	बारानी अलीफ	0.1977	जगदीशप्रसाद भंवरलाल पि. रामूराम कौम जाट सा. देह सीमा पत्नी सजित घारीवाल कौम जैन रकवा 1.00 बीघा सा. देह, गनी मोहम्मद पुत्र अलीबक्ष कौम मुसलमान शेरानी सा. शेरानी आबाद 1 बीघा, दरियाबकंवर पत्नी देवीसिंह कौम राजपूत सा. बडाबरा 1 बीघा, रुघनाथराम पुत्र तिलोकाराम कौम जाट सा. बिचावा 1 बीघा खातेदार, पूसाराम पुत्र चौथाराम कौम जाट सा. पिडियारा तहसील जायल खातेदार
				1662/1271	निजी	बारानी अलीफ	0.0255	फतेहकंवर पत्नी गिरधारीसिंह कौम राजपूत सा. देह
				1468	निजी	बारानी अलीफ	0.0619	जगदीशप्रसाद भंवरलाल पि. रामूराम गुमानाराम पुत्र सांवलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				1469	निजी	बारानी अलीफ	0.9788	गिरधारीसिंह आसूसिंह पि. अर्जुनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				1509	निजी	बारानी 1	0.3842	हीरा बेवा जगदीस भीवरराज राधाकिशन रामाकिशन ओमप्रकाश विजयराज गौरीशंकर पि. जगदीश ब्राह्मण शान्तीदेवी पत्नी ओमप्रकाश कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1510	निजी	बारानी 1	0.0010	हीरा बेवा जगदीस भीवरराज राधाकिशन रामाकिशन ओमप्रकाश विजयराज गौरीशंकर पि. जगदीश ब्राह्मण शान्तीदेवी पत्नी ओमप्रकाश कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1656/1246	निजी	बारानी अलीफ	0.0766	देवाराम 1/8 पेमाराम 1/8 परसाराम 1/8 हरकरणराम 1/8 पौचूराम 1/8 थानाराम 1/8 राजेन्द्रसिंह 1/8 पि. निम्बाराम कुन्नीदेवी पत्नी निम्बाराम 1/8 कौम जाट सा. देह खातेदार
				1658/1262	निजी	बारानी अलीफ	0.0561	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. जोधपुर जरिये मैनेजर (सेल्स), 117/2 पी. डब्ल्यू. डी कॉलोनी जोधपुर
				1820/1264	निजी	बारानी अलीफ	0.0637	किस्तूरीदेवी पत्नी चौथाराम कौम जाट सा. पिडियारा तह. जायल खातेदार
				1823/1264	निजी	बारानी अलीफ	0.0565	पुसाराम पुत्र चौथाराम कौम जाट सा. पिडियारा तह. जायल खातेदार
						योग	14.3284	
		3. जायल	(1) खाटूकलां	942	निजी	बारानी 2	2.0701	1. गोरधन पुत्र कानाराम कौम भाम्बी सा. देह रकवा 12.10 बीघा 2. रणजीत पुत्र कानाराम कौम भाम्बी सा. देह रकवा 12.11 बीघा, 3. लोडूराम पुत्र कानाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार रकवा 12.11 बीघा
				1168	निजी	बारानी 2	0.0028	मोहनराम पुत्र पीथाराम कौम रेगर सा. देह खातेदार
				1134	निजी	बारानी 2	0.1467	रजाक खों पुत्र मुमताज खों कौम शेरानी मुसलमान हि. 1-18 बीघा सा. फिरोजपुरा, ईजाजमोहम्मद पुत्र निसरुखों कौम मु0 सा. भिणियाद अमीनअली पुत्र लालखों कौम मु0 सा. बरनेल हि. 3 बीघा धाराराम पुत्र लिछमणराम कौम जाट सा. मिठडिया तह. डेगाना शब्बीरअहमद पुत्र मोहम्मद हुसैन कौम खत्री मु0 हि. 3 बीघा सा. देह तेजाराम पुत्र माधूराम कौम गुर्जर सा. देह हि. 2 बीघा मोहम्मद हुसैन पुत्र मुमताज खों कौम मु0 हि. 1-02 बीघा सा. फिरोजपुरा खातेदार, भेराराम पुत्र स्वरूपराम कौम जाट हि. रकवा 0-11

					बीघा सा. पावा तह. डीडवाना खातेदार
1135	निजी	बारानी 2	0.2731		रामनारायन पुत्र तुलछाराम जाट सा. धीजपुरा, मैनादेवी पत्नी छोटूराम, कैलाश, नरसिंह, पि. छोटूराम राजू नानी पुत्रियाँ छोटूराम, नानी ना. बा. वलिया माता मैना देवी जाति गूजर सा. देह खातेदार, शान्ताराम मादेराम कौम माली सा. छोटी खाटू खातेदार
1138	निजी	बारानी 2	0.3549		पूर्णराम भैरूराम गूजर सा. देह, शंकरसिंह प्रेमसिंह राजपूत सा. छोटी खाटू, जितेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह कौम राजपूत सा. छोटी खाटू, रफीकअहमद पुत्र सदीकखों कौम शेरानी सा. बोंटटी, हाजरा पत्नी सराजू खों कौम शेरानी सा. शेरानी आबाद, मो. अली पुत्र नूरे खों कौम शेरानी सा. बोंटटी, रामनिवास पि. चूनाराम जाट सा. कठौती, रशीदा बेगम पत्नी फारुख खों व शेर मुहम्मद पुत्र फारुख खों सा. शेरानी आबाद, जमीर अहमद पुत्र रमजानी कौम मु० सिलावट सा. देह खातेदार, बाबुखों पुत्र फजरुखों कौम कायमखानी सा. फागली तह. व जिला नागौर खातेदार
1139	निजी	गै. मु. आबादी	0.1858		तिलोकराम पुत्र पदमाराम रकवा 0.16 बीघा कौम जाट सा. बिंचावा तह डीडवाना, शंकरराम पुत्र नाथूराम कौम विशनोई सा. जेतपुराकलां तह. डेगाना रकवा 0.16 बीघा खातेदार, सरफूद्दीन पुत्र कमालुद्दीन कौम मु० गहलोत, इग्यारसी पत्नी सोहनलाल कौम ब्राह्मण सा. कठौती, मन्जुदेवी पत्नी घनश्याम कौम ब्राह्मण सा. कठौती खातेदार
1142	निजी	बारानी 2	0.6283		भूराराम पुत्र जुझाराम कौम हरिजन सा. देह खातेदार, निरुपा मो. पत्नी नदीमअख्तर कौम मूसलमान सिलावट, अख्तर हुसैन पि. जमीर अहमद सा. देह खातेदार
1189	निजी	बारानी 2	0.0490		अमराराम पुत्र मोतीराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
1190	निजी	बारानी 2	0.9894		नर्बदा बेवा भंवरदास नरेश सुरजीत पि. भंवरदास कौम साद सा. देह खातेदार
1191	निजी	बारानी 2	0.0652		नर्बदा बेवा भंवरदास नरेश सुरजीत पि. भंवरदास कौम साद सा. देह खातेदार
1192	निजी	बारानी 2	0.1166		मोहम्मद आरीफ पुत्र कालु मोहम्मद कौम लीलगर मुसलमान सा. देह खातेदार
1193	निजी	बारानी 2	0.8359		सीताराम पि. बिरमाराम जाति रैगर सा. देह, हरकरन पि. बिरमाराम जाति रैगर सा. देह
1194	निजी	बारानी 2	0.5709		अल्लानूर अब्दुलहमीर शबीर अहमद जुल्फकारअली जाकीरहुसैन पि. फरीद कौम सिलावट मुसलमान सा. देह खातेदार, रकवा 2-05, मईनुद्दीन पुत्र बिलालुद्दीन जैबूनिसा पत्नी विलादुद्दीन तुफेल अहमद शाबीरहुसैन पि. खलील अहमद सूफिया पत्नी खलीलअहमद नसीरअहमद जमीर अहमद पि. सरादू कौम सिलावट मुसलमान सा. देह खातेदार
1195	निजी	बारानी 2	0.2948		मोहनराम पुत्र पीथाराम कौम रेगर सा. देह खातेदार
1219	निजी	बारानी 2	0.5637		अमराराम पुत्र मोतीराम कौम बाबरी सा. देह खातेदार
1507	निजी	बारानी 2	0.6849		पूर्णदास पुत्र सरजूदास कौम साद सा. देह खातेदार
1551	निजी	बारानी 2	0.1818		गजानन्द कमल प्रवीण पि. मदनलाल मंजू बेवा मदनलाल कौम रेगर सा. देह खातेदार रहन गजानन्द प्रवीण मन्जू का 3/4 हिस्सा जयपुर थार ग्रा. बैंक शाखा खाटूकलां मुर्तहीन
1552	निजी	बारानी 2	0.3009		गोविन्दलाल मुन्नीलाल छोटुलाल पि. रघुवरदास अमरीदेवी पत्नी रघुवरदास कौम साद सा. देह खातेदार

				1555	निजी	बारानी 2	0.0108	ज्ञानाराम पुत्र भँवरलाल कौम खटीक सा. देह , खातेदार हि. 1-00 बीघा, बाउडी पत्नी गोपालराम कौम मेघवाल सा. छोटूखाटू तह. डीडवाना खातेदार, हि0 1-00 बीघा भँवरलाल पुत्र किसनलाल कोम मेघवाल सा. देह हि. 1-11 बीघा, सम्पतराम पुत्र झुमरराम कौम ढोली सा. देह खातेदार हि. 1-10 बीघा, फातमाबानो पत्नी फयाजखां कौम शेरानी मुसलमान सा. शेरानी आबाद तह. डीडवाना
				1556	निजी	बारानी 2	0.0650	सफीक अहमद खिंची पुत्र नूर मोहम्मद खिंची जाति मुसलमान सा. देह खातेदार
				1557	निजी	बारानी 2	0.3648	सलीमबेगम पत्नी फकरुद्दीन कौम मुसलमान सिलावट सा. देह मोहम्मदसलीम पुत्र मोहम्मद कौम छीपा मुसलमान सा. डेगाना स्टेशन तह. डेगाना खातेदार
				1558	निजी	बारानी 2	0.3044	सुल्तानखां पुत्र लोडूखां कौम शेरानी मुसलमान सा. शेरानी आबाद बजरुद्दीन पुत्र जलालखां कौम शेरानी मुसलमान सा. बांठडी दीन मोहम्मद पुत्र लोडूखां कौम शेरानी मुसलमान सा. शेरानी आबाद तह. डीडवाना खातेदार
				1560	निजी	बारानी 2	0.7902	गजानन्द कमल प्रवीण पि. मदनलाल मंजूदेवी बेवा मदनलाल कौम रेगर सा. देह खातेदार रहन गजानन्द प्रवीण मन्जू का 3/4 हिस्सा जयपुर थार ग्रा. बैक शाखा खाटूकलां मुर्तहीन
				1561	निजी	बारानी 2	0.0059	कानाराम पुत्र धरमाराम पन्नालाल गजानन्द पि. मोहनराम सोहनी पत्नी स्व. मोहनराम नेमीचन्द पुत्र रामूराम रामी बेवा बंशीराम मांगीलाल परसाराम रिखुराम पि. बंशीराम हडमान पप्पू इन्द्राराम पि. गंगाराम आयचुकी बेवा गंगाराम शंकरलाल हडमान पि. पूर्णाराम जंगली बेवा पूर्णाराम कौम रेगर सा. देह खातेदार
				1568	निजी	बारानी 2	0.0066	रतनलाल पुत्र गुलाबचन्द कौम ब्राह्मण हि. 1/2, जुम्मा उर्फ जुंजा पुत्र गणेश, जुम्मा मिठूराम बाबूलाल पि. मोहनराम कौम मेहतर सा. देह रामू लाबू ओम पि. अर्जुन दुर्गाराम बुधाराम तेजाराम ईशर पपियों पि. पोपला पूर्णाराम हेमाराम मुन्नाराम नेनूराम जय चन्द जुगल पि. मूला कौम हरिजन हि. 1/2 सा. देह खातेदार
				1571	निजी	बारानी 2	0.9713	शिशपाल ताराचन्द कैलाशराम रामनिवासी पि. घेवर बालुडी बेवा घेवर सम्पतराम बीजाराम टीकूराम दशरथ पि. कालू सीता बेवा कालू बीजाराम टीकूराम दशरथ पि. कालू नाबा. जरिये वली माता सीता बेवा कालू कमला पत्नी खुमाराम निर्मलकुमार मोनू पि. खुमाराम किरण सरोज कान्ता पिन्दू ग्यारसी पुत्रियां खुमाराम कौम हरीजन सा. देह खातेदार, गोमदा पुत्र सुजा कौम हरिजन सा. देह पाबूराम पुत्र देवाराम कौम मेघवाल सा. नौदोली मेडतिया तह. मकराना हि. 1.02 बीघा खातेदार
				1572	निजी	बारानी 2	0.2147	मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद कासम कौम मुसलमान रंगरेज सा. 142 रंगरेज मोहल्ला वार्ड न. 16 डीडवाना तह. डीडवाना खातेदार
				1578	निजी	बारानी 2	0.8589	अब्दुल हमीद जहाँगीर पि. रमजानी अब्दुल करीम पुत्र अली कौम मुसलमान सिलावट सा. देह खातेदार
				1579	निजी	बारानी 2	0.0658	हमीदुद्दीन सराफूद्दीन जीयाऊद्दीन पि. हाजीअमरुद्दीन रसीदाबेगम व हमीदाबेगम बेवा हाजी अमरुद्दीन, अबरार अहमद असफाक अहमद निसार अहमद जीमल अहमद अफसार अहमद पि. इकबाल अहमद शकूरन पत्नी स्व. इकबाल अहमद कौम मुसलमान शेख सा. देह

					खातेदार, हाजी असरफअली गयासुदीन मोहम्मद असगर पि. हाजी जमालदीन कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार
1584	निजी	बारानी 2	0.6447		अलीमोहम्मद पुत्र चान्दखॉ कौम चौपदार मुसलमान सा. सुजानगढ घीसूखॉ पुत्र सफीखॉ कौम लीलगर मुसलमान सा. झिल्ली तह. सुजानगढ जिला चूरु
1585	निजी	बारानी 2	0.0317		हमीदुदीन सराफूदीन जीयाऊदीन पि. हाजीअमरुदीन रसीदाबेगम व हमीदाबेगम बेवा हाजी अमरुदीन, अबरार अहमद असफाक अहमद निसार अहमद जीमल अहमद अफसार अहमद पि. इकबाल अहमद शकूरन पत्नी स्व. इकबाल अहमद कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार, हाजी असरफअली गयासुदीन मोहम्मद असगर पि. हाजी जमालदीन कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार
1586	निजी	बारानी 2	0.3809		अब्दुलमजीद पुत्र सफीमोहम्मद कौम लीलगर मुसलमान ईफतकार अहमद पुत्र सबीरअहमद कौम सिलावट मुसलमान सा. देह ब.हि.ब. खातेदार,
1587	निजी	बारानी 2	0.3674		गुलामनबी पुत्र मरहुम हाजी जमालुदीन कौम मुसलमान (चौहान) सा. देह खातेदार
1588	निजी	बारानी 2	0.5245		अनीसुररहमान पुत्र फेजूल रहमान हि. 1/5 सैफुररहमान पुत्र फेजुलरहमान हि. 1/20 अब्दुलअजीत खलीलुरहमान सुफीफुररहमान पि. हफीजुलरहमान हि. 1/4, शैयद जहूद अली पुत्र मुंशी मोहम्मद इब्राहिम जाति मुसलमान (शैयद) सा. खाटूकलां हाल मुकान सुजानगढ तह. सुजानगढ जिला चूरु खातेदार, जहूरअली जमीरअली पि. मोहम्मद इब्राहिम खुर्शिदा परवीन पुत्री मोहम्मद इब्राहिम आसिया बेगम पत्नी याकुबअली रमजान आरिफ इस्तकार इरफान साजिद पि. याकुबअली रजिया सायबा मेमुदा पुत्रियों याकुबअली हि. 1/2 कौम मुसलमान सेयद सा. देह खातेदार
1589	निजी	बारानी 2	0.1475		हमीदुदीन सराफूदीन जीयाऊदीन पि. हाजीअमरुदीन रसीदाबेगम व हमीदाबेगम बेवा हाजी अमरुदीन, अबरार अहमद असफाक अहमद निसार अहमद जीमल अहमद अफसार अहमद पि. इकबाल अहमद शकूरन पत्नी स्व. इकबाल अहमद कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार, हाजी असरफअली गयासुदीन मोहम्मद असगर पि. हाजी जमालदीन कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार
1590	निजी	बारानी 2	0.2834		हमीदुदीन सराफूदीन जीयाऊदीन पि. हाजीअमरुदीन रसीदाबेगम व हमीदाबेगम बेवा हाजी अमरुदीन, अबरार अहमद असफाक अहमद निसार अहमद जीमल अहमद अफसार अहमद पि. इकबाल अहमद शकूरन पत्नी स्व. इकबाल अहमद कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार, हाजी असरफअली गयासुदीन मोहम्मद असगर पि. हाजी जमालदीन कौम मुसलमान शेख सा. देह खातेदार
1591	निजी	बारानी 2	0.2226		भैवरलाल पुत्र भैरु कौम खटीक सा. देह खातेदार
1592	निजी	बारानी 2	0.0453		राजूराम पुत्र घेवरराम कौम गिंवारिया सा. छोटीखाटू खातेदार, धर्मराम पुत्र हेमाराम कौम गिंवारिया सा. छोटीखाटू खातेदार, नोरतमल पुत्र श्रवणराम कौम बावरी सा. चौकीदारों की ढाणी खातेदार, ललीता पत्नी नोरतमल कौम बावरी सा. चौकीदारों की ढाणी कोनीयाडा तह. डीडवाना खातेदार, रूपाराम पुत्र तुलछाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया तह. डीडवाना खातेदार, बीरबल पुत्र मदनलाल कौम बावरी

					सा. चौकीदारों की ढाणी कोनीयाडा तह. डीडवाना खातेदार, मदनलाल पुत्र किशनलाल कौम बावरी सा. चौकीदारों की ढाणी कोनीयाडा तह. डीडवाना खातेदार, हरजीराम पुत्र जीवणराम कौम मेघवाल सा. खुडी तह. डीडवाना खातेदार, कालूराम पुत्र मंगाराम कौम सरगरा सा. छोटीखाटू तह. डीडवाना खातेदार, डालाराम पुत्र बनाराम कौम मेघवाल सा. खुडी तह. डीडवाना खातेदार
1593	निजी	बारानी 2	0.1257		नानूराम पुत्र भेरूराम कौम गूजर सा. देह खातेदार, रामचन्द्र पुत्र कानाराम कौम जाट सा. खंगार तह. लाडनू रकवा 0-10 बीघा खातेदार, अन्नीदेवी पत्नी तेजाराम कौम जाट हि. 0-10 बीघा सा. हिरासनी कमलादेवी पत्नी रामदेव सुगनादेवी पत्नी देवकरण कौम जाट सा. कचरास खातेदार, सुरताराम पुत्र चिमनाराम कौम जाट (चोयल) सा. राजापुरा तहसील डेगाना खातेदार, जलालखॉ पुत्र हबीबखॉ कौम शेरानी मुसलमान सा. शेरानी आबाद तह. डीडवाना खातेदार, मोहम्मद हुसैन पुत्र जलालखॉ कौम शेरानी मुसलमान सा. शेरानी आबाद तह. डीडवाना खातेदार
1617	निजी	बारानी 2	0.4541		रामस्वरूप चौधरी पुत्र महादेव कौम जाट सा. रिजनल कालेज के सामने पुष्कर रोड कोटडा अजमेर खातेदार, मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद कासम कौम मुसलमान रंगरेज सा. 142 रंगरेज मोहल्ला वार्ड न. 16 डीडवाना तह. डीडवाना खातेदार,
1618	निजी	बारानी 2	0.0393		लक्ष्मण पुत्र परसा कौम मेघवाल सा. कोटडा अजमेर तह. व जिला अजमेर खातेदार
1619	निजी	बारानी 2	0.0485		सलीमबेगम पत्नी फकरुद्दीन कौम मुसलमान सिलावट सा. देह मोहम्मदसलीम पुत्र मोहम्मद कौम छीपा मुसलमान सा. डेगाना स्टेशन तह. डेगाना खातेदार
1620	निजी	बारानी 2	0.3829		रयाज अहम्मद खलील अहमद पि. जमीर अहमद नाबा. जरिये वलि पिता जमीरअहमद पुत्र रमजानी कौम मुसलमान खत्री सा. देह खातेदार
1622	निजी	बारानी 2	0.0511		जमीरअहमद पुत्र रमजान कौम मुसलमान सिलावट सा. देह खातेदार, जमीरअहमद पुत्र मुनी कौम मुसलमान सिलावट सा. देह खातेदार
1684	निजी	बारानी 2	0.2822		कानाराम पुत्र नारायणराम कौम गुजर सा. देह खातेदार
1685	निजी	बारानी 2	0.2630		हजारीराम पुत्र कालू भेंवरलाल छोटूराम पूसाराम पि. कानाराम चान्दमल कालूराम पि. गोविन्दराम कालूराम ना.बा. जरिये वलिया माता बाऊदेवी पत्नी गोविन्दराम बुधाराम पुत्र आसुराम हजारीराम मेधाराम सेठेराम कालूराम तेजाराम पि. माधु भेंवरी पत्नी स्व. माधु कौम गूजर सा. देह खातेदार,
1686	निजी	बारानी 2	0.0275		काना पुत्र नारायण हि. 1/2 हजारी पुत्र बालूराम कौम गुजर सा. देह सलामत बानो पत्नी गनीखां कौम मुसलमान शेरानी सा. शेरानी आबाद तह. डीडवाना हि. 1/2 बीघा खातेदार
1688	निजी	बारानी 2	0.8507		काना पुत्र नारायण हि. 1/2 हजारी पुत्र बालूराम कौम गुजर सा. देह खातेदार
1622/1	निजी	बारानी 2	0.0511		मोहम्मद हुसैन पुत्र मुमताज खां कौम मुसलमान सा. फिरोजपुरा खातेदार, ईजाज मोहम्मद पुत्र निसरुद्दीन कौम मुसलमान सा. भिणियाद खातेदार, शंकरलाल पुत्र जयराम कौम जाट सा. धीजपुरा खातेदार
		योग	17.1972		

(2) उबासी	339	निजी	बारानी 2	0.0983	तेजाराम पुत्र राधाकिशन कौम जाट सा. देह खातेदार
	372/1	निजी	बारानी 2	0.0982	नानीदेवी रुघाराम भीयाराम कैलाश पुत्र रुघाराम देवकरण पुत्र भागीरथ कौम जाट सा. देह खातेदार
	373	निजी	बारानी 2	0.1447	तेजाराम पुत्र मूलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
	388	निजी	बारानी 2	0.1632	पीताराम पुत्र हेमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पीताराम पुत्र हेमाराम का खाता एस.बी.आई शाखा छोटीखाटू मूर्तहीन
	389	निजी	बारानी 1	0.3294	जयराम पुत्र नारायणराम कौम जाट सा. देह खातेदार
	390	निजी	बारानी 1	0.3479	जोराराम पुत्र देवाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
	391	निजी	बारानी 2	0.6739	प्रेमाराम पुत्र मेहराम रामनिवास बद्रीराम कलाराम पि. अन्नाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, रहन बद्रीराम का 1/4 हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा छोटीखाटू मूर्तहीन, कलाराम पुत्र अन्नाराम का हिस्सा एस.बी.आई. बैंक शाखा छोटीखाटू मूर्तहीन, रहन रामनिवास पुत्र अन्नाराम का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा छोटीखाटू मूर्तहीन
	392	निजी	बारानी 2	0.1887	रेखाराम पुत्र जवानराम रामदीन पुत्र भेराराम कौम जाट सा. देह खातेदार
	416	निजी	बारानी 2	0.3085	फतेसिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा 1/2 रतनाराम पुत्र चोथाराम कौम जाट सा. डबोली मिठी तह. डेगाना रकवा 11.09 बीघा भीवसिंह भूरसिंह नारायणसिंह समन्दरसिंह गंगासिंह पि. मदनसिंह राजपूत हि. 1/4 चैनसिंह गोदपुत्र लादुसिंह हि. 1/4 कौम राजपूत सा. देह खातेदार
	430	निजी	बारानी 2	0.0222	रामनिवास बद्रीराम हणुताराम कलाराम पि. अन्नाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, रहन बद्रीराम का 1/4 हि. व रामनिवास का हि. एस.बी.आई. छोटी खाटू कलाराम का हि. एस. बी.आई छोटी खाटू
	439	निजी	बारानी 1	0.0906	भेराराम जयराम पि. नारायणराम कौम जाट सा. बरासर खातेदार
	441	निजी	बारानी 2	0.0337	पीताराम पुत्र हेमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पीताराम पुत्र हेमाराम का खाता एस.बी.आई शाखा छोटीखाटू मूर्तहीन
	443	निजी	बारानी 2	0.0428	तेजाराम पुत्र मूलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
	444	निजी	बारानी 2	0.0250	सन्तोषदेवी गोदाणी पत्नी मनोजकुमार गोदाणी सा. सांजू तह. डेगाना खातेदार, सन्तोषदेवी पत्नी छागूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण सा. सांजू तह. डेगाना खातेदार
	459	निजी	बारानी 2	0.3138	रुगनाथ पुत्र चुनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक तरनाऊ मूर्तहीन, ज्यानकीदेवी बेवा केसाराम सुरजाराम चन्दाराम जगदीश पि. केसाराम पुसाराम पुत्र भुराराम ताराराम पुत्र शिम्भुराम मु. आचुकी बेवा शिम्भूराम नाथूराम पुत्र चेलाराम पतासीदेवी पत्नी चेलाराम कौम जाट सा. देह, खातेदार राहिन ज्यानकी सुरजाराम का हि. भा.स्टेट.बैंक शाखा छोटी खाटू मूर्तहीन व ताराराम आचुकी का हि. राहिन जयपुर थार ग्रा. बैंक शाखा रताऊ, रहन नाथूराम पुत्र चेलाराम व पतासी पत्नी चेलाराम का हि. जयपुर थार ग्रा. बैंक शाखा खाटूकलां मूर्तहीन
			योग	2.8810	

		(3) बेरासर	131	निजी	बारानी 1	0.2077	हरकरणराम धन्नाराम पि. गिरधारी कौम जाट सा. उबासी खातेदार रहन एस.बी.बी.जे शाखा कसनाऊ मूर्तहीन
			132	निजी	बारानी 1	0.0055	श्रीमती मोहनी देवी पत्नी पन्नालाल कौम जाट सा. उबासी खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा छोटीखाटू मूर्तहीन
			489/133	निजी	बारानी 2	0.0304	भैरुराम पुत्र रामकरण कौम जाट सा. देह
			134	निजी	बारानी 1	0.2701	रविकुमार पुत्र रिखबचन्द धारीवाल कौम महाजन सा. छोटीखाटु तह. डीडवाना खातेदार
			136	निजी	बारानी 1	0.0201	रविकुमार पुत्र रिखबचन्द धारीवाल कौम महाजन सा. छोटीखाटु तह. डीडवाना खातेदार
			137	निजी	बारानी 1	0.0125	जितेन्द्र पुत्र तेजाराम, कैलाश पुत्र सुरजकरण कौम जाट सा. खैरवा तह. डेगाना खातेदार
			138	निजी	बारानी 1	0.0390	मनाराम पुत्र जोराराम, राधाकिशन पुत्र जेताराम, देवाराम पुत्र चन्द्राराम छोटीदेवी पत्नी चन्द्राराम, मनुदेवी पत्नी गणेशाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, जितेन्द्र पुत्र तेजाराम कैलाश पुत्र सुरजकरण कौम जाट सा. खैरवा तह. डेगाना खातेदार
			147	निजी	बारानी 1	0.0034	महेन्द्रसिंह उर्फ मेहराम उगमाराम पि. किस्तूरराम कौम जाट सा. उबासी खातेदार, चन्द्राराम पुत्र नानूराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			148	निजी	गै. मु. बाड़ा	0.0011	किस्तूरराम चन्द्राराम पि. नानूराम कौम जाट सा. उबासी खातेदार
			149	निजी	बारानी 1	0.0680	जिवली बेवा पेमाराम, गंगा पत्नी भागीरथराम, चनणी पत्नी पुर्णाराम, छोटीदेवी पत्नी बलदेवराम, लूणाराम बस्तीराम तेजाराम पि. मूलाराम कैलादेवी मांगूदेवी पुत्रियां मूलाराम, हुणताराम पुत्र आसाराम, हेमाराम पुत्र धनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
			150	निजी	बारानी 1	0.1337	गोविन्ददास पुत्र परसादास कौम साद सा. उबासी खातेदार रहन एस.बी.आई.शाखा छोटीखाटू मुर्तहीन
			447	निजी	बारानी 1	0.0236	गोविन्ददास पुत्र परसादास कौम साद सा. उबासी खातेदार रहन एस.बी.आई.शाखा छोटीखाटू मुर्तहीन
			464/447	निजी	बारानी 1	0.0078	गोविन्ददास पुत्र परसादास कौम साद सा. उबासी खातेदार रहन एस.बी.आई.शाखा छोटीखाटू मुर्तहीन
					योग	0.8230	
	4. डेगाना	(1) खीवताना	9	निजी	बारानी 1	0.1447	इग्यासीराम पुत्र आसूराम कौम जाट सा. सांजू खातेदार
			659/50	निजी	बारानी 1	0.1811	आशाराम, कानाराम, पि. नानूराम पि. रामूराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन दुर्गाराम ताराचन्द्र पि. रामूराम व पांचाराम, आशाराम पि. नानूराम का हिस्सा ऑचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सांजू
			51	निजी	बारानी 2 +	0.0476	अमरसिंह पुत्र शेरसिंह मनोहरकंवर पत्नी शेरसिंह सोनूकंवर पुत्री शेरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार, रहन एस.बी.आई. शाखा छोटीखाटु मुर्तहीन
			54	निजी	बारानी 2 +	0.8636	रामदेव पुत्र रामूराम कौम भांबी सा. देह खातेदार रहन सै.को.बैंक शाखा डेगाना
			55	निजी	बारानी 2 +	0.2861	भंवूरराम बस्तराम पि. पोकरराम भगनुडी पत्नी पोकरराम मिसाराम, भागीरथ हरकरण पि. श्रीराम कौम लवार सा. देह खातेदार
			57	निजी	बारानी 1	0.2602	हीराराम पुत्र पांचाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा सांजू
			68	निजी	बारानी 1 +	0.4204	मोहनाराम जोरुराम पि. तुलछाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाख संजू

				78	निजी	बारानी 1 +	0.1461	राजेशचन्द भण्डारी पुत्र श्रीपालचन्द भण्डारी ललितचन्द भण्डारी पुत्र श्रीपालचन्द भण्डारी जाति जैन (महाजन) सा. छोटीखाटु तह. डीडवाना भैरुराम पि. आसूराम कौम जाट सा. सांजू खातेदार
				79	निजी	बारानी 1 +	0.3619	खिवसिंह पुत्र चेलाराम कौम जाट सा. सांजू खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा सांजू मूर्तहीन
				85	निजी	बारानी 1	0.0050	प्रेमसिंह पुत्र चौकसिंह कौम राजपूत सा. सांजू खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा सांजू के मूर्तहीन
				86	निजी	बारानी 1	0.3765	मंगतूराम पुत्र नथमलदास 3/4 हनुमानप्रसाद धनराज ईचरच पत्नी हरिप्रसाद विशाल पुनीत पुत्र हरिप्रसाद कोमल पुत्री हरिप्रसाद पुगेकी बेवा शोभाराम कौम साद सा. सांजू खातेदार
				178	निजी	बारानी 1 +	0.7258	रामदेव पुत्र किसनाराम हनुमान पुत्र हीराराम सायरी बेवा हीराराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन हडमान के हिस्से की भूमि ज. ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा सांजू के मूर्तहीन
				179	निजी	बारानी 1 —	0.4237	जयराम भैरुराम पि. नारायणराम कौम जाट सा. बेरासर खातेदार
				182	निजी	बारानी 1	0.1310	जोराराम पुत्र नारायणराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा छोटीखाटु
				293/84	निजी	बारानी 1	0.2170	मोटूराम पुत्र निम्बाराम कौम भांवी सा. सांजू हि. 1/2, इग्यारसीराम पुत्र आशाराम जाट हि. 1/2 सा. देह खातेदार
				365/178	निजी	बारानी 1 +	0.4131	जगदीश किसनाराम पि. जीवणराम गेकीदेवी पत्नी स्व. जीवणराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा सांजू के मूर्तहीन
				440/74	निजी	बारानी 1 +	0.0299	राधादेवी पत्नी चेनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				56/3	निजी	बारानी 1	0.3859	मगाराम पुत्र नारायणराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				56/4	निजी	बारानी 1	0.0609	हीराराम पुत्र पांचाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				56/5	निजी	बारानी 1	0.2923	कानीदेवी पत्नी किशनाराम रूपादेवी पुत्री किशनाराम मोहनीदेवी पत्नी किस्तूरराम बुद्धाराम राजेन्द्र पि. किस्तूरराम सुमन सरोज पुत्रियों किस्तूरराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				57/1	निजी	बारानी 1	0.2123	कानीदेवी पत्नी किशनाराम रूपादेवी पुत्री किशनाराम मोहनीदेवी पत्नी किस्तूरराम बुद्धाराम राजेन्द्र पि. किस्तूरराम सुमन सरोज पुत्रियों किस्तूरराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				57/2	निजी	बारानी 1	0.0245	लालाराम पुत्र भैरुराम कौम जाट (बैन्दा) सा. देह खातेदार
				584/74	निजी	बारानी 1 +	0.0747	सालगराम पुत्र बुधाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				627/295	निजी	बारानी 2 +	0.0840	आसाराम प्रभुराम छोटुराम पि. रामकरण कमला पुत्री रामकरण कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन सी.बी.आई. शाखा डेगाना
				628/295	निजी	बारानी 1 +	0.1196	किसनाराम पुत्र सुखदेवाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक सांजू
				68/1	निजी	बारानी 1 +	0.0401	नरसीराम पुत्र हीराराम कौम जाट सा. देह खातेदार
						योग	6.3279	
		(2) सांजू	283	निजी	बारानी 2 —		0.7014	सुजाराम पुत्र झूगराम 3/4 हि. भैराराम पुत्र नाथूराम कौम मेघवंशी (भाम्बी) सा. पीपलून रोड सिवाणा जिला बाडमेर व हीराराम पुत्र मूलाराम हि. 1/4 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन हीराराम पुत्र मूलाराम का

					हिस्सा ज.था.ग्रा. बैंक शाखा सांजू
	284	निजी	बारानी 2 —	0.0513	भेराराम पुत्र नाथूराम कौम मेघवंशी (भांबी) सा. पीपलून रोड तह. सीवाणा जिला बाडमेर हीराराम पुत्र मूलाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार, रहन हीराराम पुत्र मूलाराम का हिस्सा ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा सांजू
	285	निजी	बारानी 2 —	0.3609	जगदेव पुत्र गोपालसिंह कौम राजपूत सा. बागोली तहसील उदयपुर जिला झून्झनू खातेदार, चेनाराम कालूराम ओमप्रकाश पप्पू राजू पिता मांगीलाल कौम साद सा. देह खातेदार राहिन ओमप्रकाश का हिस्सा नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डेगाना
	291	निजी	बारानी 2 —	0.7467	जोराराम पुत्र भोमाराम मु. मांगीदेवी बैवा भोमाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार राहिन नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डेगाना मुर्तहीन , भंवरीदेवी पत्नी लूणाराम 1/2 कमलादेवी पत्नी चनणाराम 1/2 कौम मेघवाल सा. देह, बीरमाराम पुत्र सुखाराम कौम मेघवंशी सा. देह, शैतानराम पुत्र चेलाराम कौम मेघवाल सा. मातासुख तह0 जायल सार्वजनिक निर्माण विभाग
	300	निजी	बारानी 1	0.9891	अमराराम पुत्र जोराराम भोलीदेवी पत्नी स्व. जोराराम कौम जाट सा. देह रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा सांजू , प्रेमदेवी पत्नी हरदीनराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा सांजू के मूर्तहीन
	301	निजी	बारानी 1	0.0868	पापूदेवी पत्नी छोटमल कौम सुनार सा. देह, मदनलाल दामोदर तुलसीराम घेवरचन्द्र पि. श्रीकिशन मु. मालीदेवी पत्नी श्रीकिशन व मु. पापूदेवी पत्नी छोटमल कौम सुनार 6 बीघा पापूदेवी पत्नी छोटमल कौम सुनार 4 बीघा सा. देह खातेदार
	302	निजी	बारानी 1	0.0147	पवनकुमार दिनेशकुमार पि. भगवतीप्रसाद कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार, रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा सांजू
	304	निजी	बारानी 1	0.4683	प्रेमदेवी पत्नी हरदीनराम कौम जाट सा. देह खातेदार, अमराराम पुत्र जोराराम, भोलीदेवी पत्नी जोराराम सा. देह रहन जे.आई.जी.बी. बैंक शाखा सांजू
	305	निजी	बारानी 1	0.4402	रतनलाल पुत्र रामूराम कौम माली सा. देह रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा सांजू , श्यामलाल पुत्र दुलाराम सा. गढसूर्या तह. बिलाडा जिला जोधपुर, उंकारराम बलदेवराम पि. सिरदाराम, मोहनराम पि. पूराराम कौम जाट सा. सोमराडो की ढाणी रावनियाना तह. बिलाडा जिला जोधपुर खातेदार
	307	निजी	बारानी 1	0.5767	बलवन्तसिंह पुत्र उगमसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा सांजू
	308	निजी	बारानी 1	0.4594	महेन्द्रसिंह रामसिंह श्यामसिंह पि. हडमानसिंह दीपकवर पत्नी हडमानसिंह कौम राजपूत सा. देह
	382	निजी	बारानी 2	0.9808	जडाव बैवा बंशीराम, भंवरलाल, सीताराम पि. बंशीराम, जगदीश पुत्र छगनाराम, भाइराम पि. मंगलाराम, चन्डी बैवा मंगलाराम कौम मेघवाल, बाया पत्नी कालुराम कौम नायक सा. देह, हनुमान पुत्र भादूडा सा. श्यामपुरा तह. मेडता कौम मेघवाल, जीताराम पुत्र रामपाल कौम रेगर सा. ईडवा तह. डेगाना रहन— जडाव बैवा बंशीराम, भंवरलाल, सीताराम पि. बंशीराम, जगदीश पुत्र छगनाराम, भाइराम पि. मंगलाराम, चन्डी बैवा मंगलाराम कौम मेघवाल सा. देह ज.था.ग्रा. बैंक सांजू

				409	निजी	बारानी 2	0.6421	हडमान नाथ पुत्र डेवनाथ, अमृतनाथ पुत्र रुगनाथ कौम नाथ सा. देह
				410	निजी	बारानी 2	0.2530	किसनाराम पुत्र भोलाराम कौम मेघवाल सा. देह रहन ज.था.ग्रा. बैंक सांजू
				452	निजी	बारानी 2	0.9211	बबलीदेवी पत्नी कानाराम, हिम्मताराम पुत्र गिरधारीलाल कौम मेघवाल सा. देह
				465	निजी	बारानी 2 —	1.0108	भंवरलाल पि. रणजीत, अणदाराम इमरतराम पि. बनाराम सिंवरी पत्नी बनाराम कौम बावरी सा. देह, रामनिवास पुत्र नारायणराम मेघवाल सा. देह व कुनाराम पि. नारायणराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार
				401/1	निजी	बारानी 2	0.2035	शिवदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम महाजन सा. देह
				401/2	निजी	बारानी 2	0.4108	पुसाराम उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम महाजन सा. देह
						योग	9.3176	
	(3) चौसली			224/62	निजी	बारानी 2	0.0259	प्रेमदेवी पत्नी मदाराम मेघवाल सा. देह खातेदार
				123	निजी	बारानी 2 +	0.1440	हरजीराम पुत्र तेजाराम कौम भोंबी सा. देह खातेदार, खाता रहन सी.बी.आई शाखा डेगाना मूर्तहीन
				128	निजी	बारानी 2	0.1735	सुखदेव रामसुख रामनिवास हडमान पि. मोतीराम कौम भोंबी सा. देह खातेदार राहीन सुखदेव का हि. ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा सान्जू मूर्तहीन, रहन रामसुख का हिस्सा सी.बी.आई. शाखा डेगाना मूर्तहीन
				129	निजी	बारानी 2 +	0.2197	अर्जनराम पुत्र बलदेवराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार, रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा डेगाना
				130	निजी	बारानी 2	0.5337	हरलाल पुत्र पांचाराम कौम मेघवाल, कैलाश पुत्र चेलाराम मधु पुत्री चेलाराम नाथी पत्नी चेलाराम मेघवाल, जीवणराम पुत्र गंगाराम मेघवाल सा. बामणाखुर्द रहन— हरलाल पुत्र पांचाराम का हि. ओ.बी.सी. डेगाना
				131	निजी	बारानी 2	0.0164	प्रहलादराम गणेशराम बोदुराम पि. उमाराम हाबूदेवी पुत्री उमाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार
				137	निजी	बारानी 2 —	0.6221	जवानाराम, चेलाराम, पुत्र भागूराम, जालाराम पुत्र भागू मेघवाल, गलकूदेवी पत्नी छगनाराम मेघवाल सा. उबासी तहसील जायेल रहन— जालाराम पुत्र भागू का हि. ओ.बी.सी. डेगाना
				138	निजी	बारानी 2	0.6283	बिदसी पत्नी बीरम, विनोद पुत्र बीरम जसोदा पत्नी विनोद मेघवाल सा. देह, मोनूराम पुत्र मोडूराम गंवारिया सा. सांजू, मदनराम गोदपुत्र मांगूराम मेघवाल रहन —ओ.बी.सी. डेगाना
				139	निजी	बारानी 2	0.3697	श्रवणराम पुत्र सांवताराम, तुलच्छाराम पुत्र घीसाराम भोंबी 1/2 तुलच्छाराम पुत्र घीसाराम शिवराम पुत्र घीसाराम 1/2 भोंबी सा. सांजू खातेदार, श्रवणराम पुत्र सांवताराम के हिस्से की भूमि रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा सांजू के मूर्तहीन
				141	निजी	बारानी 2 बारानी 2—	0.6081	गोदूराम पुत्र जयराम सोनकी कौम मेघवाल सा. देह रहन ओ.बी.सी. डेगाना सोनकी पत्नी शोभाराम, सुरेश पुत्र शोभाराम छोदूडी पुत्री शोभाराम कौम मेघवाल सा. देह रहन ओ.बी.सी. डेगाना मूर्तहीन
				166	निजी	बारानी 2 +	0.1589	हडमानदास पुत्र आसूदास कौम साद सा. देह खातेदार
				174	निजी	बारानी 2 +	0.6076	तुलच्छाराम भैरुराम पि. जीवणराम कौम जाट सा. देह खातेदार
				175	निजी	बारानी 2 +	0.1490	मोतीराम पुत्र भैरुराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन मोतीराम के खाते की भूमि रहन ज.था.ग्रा. बैंक शाखा संजू
				189/2	निजी	बारानी 2	0.1949	रामनिवास हरीराम पि. भैरुराम जाति कुम्हार

						सा. देह खातेदार रहन रामनिवास का हि. ओ. बी.सी. शाखा डेगाना मूर्तहीन
		190	निजी	बारानी 2	0.6004	नारायणराम पुत्र चौथाराम कौम जाट सा. डावोलीमीठी खातेदार
		195	निजी	बारानी 2	0.0023	अर्जुनसिंह पुत्र विजयराजसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
		196	निजी	बारानी 2	0.1571	सवाई मोहनसिंह हुकमसिंह मनोहरसिंह पि. मगनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				योग	5.2115	
(4) बामणाखुर्द	183/63	निजी	बारानी 2 —	0.0822	सुजाराम पुत्र महाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	
	185/64	निजी	बारानी 2 —	0.7805	चन्द्रकला पुत्री देवाराम द्रोपदी पत्नी हरकरणराम कौम जाट सा. देह खातेदार	
	187/65	निजी	बारानी 2 —	0.4200	भवरलाल गोबिन्दलाल रामेश्वरलाल श्रवणलाल पि. शकरदास बिरजादेवी भवरलाल गोबिन्दलाल रामेश्वर लाल श्रवणलाल पि. शकरदास बिरजादेवी पत्नी शकरदास मिसूदास पि.रामसूरबदास बीडदीचन्द पुत्र गंगादास कौम सा. देह खातेदार	
	193/67	निजी	बारानी 2 —	0.1945	सुजाराम पुत्र महाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	
	215/63	निजी	बारानी 2 —	0.2048	नाथूराम पुत्र फतेहसिंह तोपकंवर बेबा फतेहसिंह मानसिंह शिवसिंह पि. भवरसिंह अनोपकंवर पत्नी भंवरसिंह केशरकंवर पुत्री भंवरसिंह उच्छबकंवर पत्नी गणपतसिंह भैरुसिंह पुत्र गणपतसिंह रेवन्तसिंह मोतीसिंह विजयसिंह हनुमानसिंह मदनसिंह पि. लखसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	
				योग	1.6819	
(5) बामणाकलां	28	निजी	बारानी 1 +	0.2125	मांगूडी बेवा जीवनराम रामदीन पुत्र जीवनराम कौम गुर्जर सा.देह खातेदार रहन ज.था.ग्रा.बैंक सांजू मूर्तहीन	
	45	निजी	बारानी 2 —	1.7761	भंवरी धापूडी भोलकी छोडूडी मलूडी पि. बोदूराम पूसाराम पि.चूनाराम लुहार सा.देह खातेदार	
	62	निजी	बारानी 2 +	0.1915	दुर्गासिंह टीकमसिंह पिता लालसिंह मोहनकंवर पत्नि लालसिंह सा.देह नरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह पिता बन्नेसिंह कौम राजपूत सा.देह प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत सा.देह	
	63	निजी	बारानी 2 +	0.0832	रुकमनी पत्नि शिवराज रामनिवास करनाराम किशनाराम बाबूलाल रेखाराम पिता शिवराज जोराराम पुत्र नाथाराम भंवरलाल पुत्र लोदूराम निम्बाराम गिरधारी मंगाराम किस्तुरराम लालाराम पुत्र जवानाराम ज्यानादेवी पत्नि शिम्भुराम गणपतराम धर्माराम पिता शिम्भुराम मैनादेवी पुत्री शिम्भुराम कौम जाट सा.देह भेवरलाल पुत्र लोडूराम जाति जाट सा. गुणसली, जोराराम का हिस्सा रहन ओ.बी.सी शाखा डेगाना	
	65	निजी	बारानी 2 +	0.4371	श्रवणसिंह भवानीसिंह पि. नरपतसिंह मंगेजकंवर पत्नि नरपतसिंह प्रेमसिंह बख्तावरसिंह पि.भंवरसिंह दुर्गासिंह टीकमसिंह पि.लालसिंह मोहनकंवर पत्नि लालसिंह नरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह पिता बन्नेसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन श्रवणसिंह भवानीसिंह मंगेजकंवर का हिस्सा ओ.बी.सी. शाखा डेगाना मूर्तहीन	
	66	निजी	बारानी 2 +	0.6660	रुकमनी पत्नि शिवराज रामनिवास करनाराम किशनाराम बाबूलाल रेखाराम पिता शिवराज जोराराम पुत्र नाथाराम भंवरलाल पुत्र लोदूराम निम्बाराम गिरधारी मंगाराम किस्तुरराम लालाराम पुत्र जवानाराम चेनादेवी पत्नि शिम्भुराम गणपतराम धर्माराम पिता शिम्भुराम	

							मैनादेवी पुत्री शिम्भुराम कौम जाट सा.देह भवरलाल पुत्र लोदूराम जाति जाट सा. गुणसली, जोराराम का हिस्सा रहन ओ.बी.सी शाखा डेगाना
			67	निजी	चाही 3	0.1910	कानसिंह पुत्र पाबूदानसिंह राजपूत सा.देह रहन ओ.बी.सी. शाखा डेगाना
			68	निजी	बारानी 2	0.0250	तिलोकराम दुर्गराम पिता मांगूराम गेनादेवी पत्नि मांगूराम प्रेमादेवी सोनीदेवी रूपादेवी मुन्नीदेवी पुत्रियां मांगूराम सुगनाराम पुत्र सुरजाराम बालूराम प्रेमराम पिता हणुताराम नारायणीदेवी पत्नि हणुताराम सन्तुदेवी पुत्र हणुताराम सगराम पुत्र आशाराम कौम जाट सा.देह
			98	निजी	बारानी 2 —	0.3399	नाहरसिंह गोदपुत्र रामसिंह जाति राजपूत सा. देह, हरीराम पुत्र धनाराम कोम जाट सा. देह खातेदार
			101	निजी	बारानी 2	0.0475	श्रीमती कमलकंवर पत्नि खींवसिंह कौम राजपूत सा. पाल जिला जोधपूर हाल निवासी बामणाकलां खातेदार
			103	निजी	बारानी 2	0.2874	परसाराम पुत्र पुरखाराम कौम खाती सा.देह खातेदार
			104	निजी	बारानी 2 —	0.6306	चन्द्राराम पुत्र महराम कौम जाट सा.देह
			106	निजी	बारानी 2 —	0.1037	चन्द्राराम पुत्र महराम कौम जाट सा.देह
			107	निजी	बारानी 2	0.0229	नाथूराम पि. मांगूराम कौम भाम्बी सा.देह खातेदार
					योग	5.0143	
	(6) गुन्दीसर		28	निजी	चाही 3	0.1111	हेमादास पुत्र सेवादास साद 1/4 रामदीन, तेजाराम, चौथाराम, जीवणराम, पि. कुंभला कौम नायक 1/4 किशनाराम पूनाराम पि. उमाराम कानीदेवी पत्नी स्व. उमाराम, 1/8 चन्द्रा पुत्र अमरा 1/8 जवाना पुत्र धारू 1/8 घीसा पुत्र भैरू 1/8 कौम भांबी सा. चान्दनी खातेदार रहन— हेमादास पुत्र सेवादास के हिस्से की भूमि ओ.बी.सी. शाखा डेगाना
			173	निजी	बारानी 2	0.1867	मोवनाराम, सांवताराम पि. कालुराम भांबी सा. बायणा खातेदार
			199	निजी	बारानी 2	0.3043	कालूराम बिरमाराम किस्तूराम छोटूराम गेनाराम पि. बालाराम फेफादेवी बेवा बालाराम केसूडी बेवा घीसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, रामूराम पि. किस्तूराम सायरी देवी बेवा किस्तूराम कौम जाट सा. हबचर खातेदार
			207	निजी	बारानी 2	0.0215	हरीसिंह पुत्र समदरसिंह कौम राजपूत सा. चान्दनी खातेदार
			228	निजी	बारानी 2	0.0634	बिहारीदान उमरदान पि. बिसनदास कौम चारण सा. देह खातेदार, प्रभूदान प्रहलाददान पि. मंगदान, रविराज शेखदान पि. उमरदान कोम चारण सा. देह खातेदार
			250	निजी	बारानी 2	0.0096	मंगलाराम गोद पुत्र जयराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार, मांगूराम पुत्र बुधाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार, शोभाराम जयचन्द पपूराम पि. उमाराम पौंजीदेवी पत्नी स्व. उमाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार, पाँचाराम पुत्र बुधाराम कौम भाम्बी सा. देह खातेदार रहन— पाँचाराम का हि. ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा डेगाना व शौभाराम जयचन्द पि. उमाराम पांचीदेवी पत्नी स्व. उमाराम के हिस्से की भूमि ज.था.ग्रा.बैंक शाखा डेगाना के मूर्तहीन व मंगलाराम गोद पुत्र जयराम के हिस्से की भूमि एस.बी.बी.जे शाखा डेगाना मूर्तहीन
			328	निजी	बारानी 2	0.1174	बीजाराम पुत्र गणेशराम भांबी सा. देह मु.

						बाजूडी बेवा हरकाराम किशनाराम चेलाराम बदरीराम पि. हरकाराम कौम भांभी सा. देह, बीजाराम पुत्र गणेशराम का हि. ज.ना.आ.ग्रा. बैंक शाखा डेगाना मूर्तहीन
		329	निजी	बारानी 2	0.1145	देवाराम मोतीराम हरीराम चेलाराम पि.महराम नाबालिग वली माता छोटूडी बेवा महराम कौम जाट सा. देह
				योग	0.9285	
(7) लंगौड		222	निजी	बारानी 1 / आबादी	0.2903	मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
		275	निजी	बारानी 1 / आबादी	0.0449	टिकूराम पुत्र हरलालराम सा. भीयांकला, हेमाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल नि. भीयांकला, रामनिवास पुत्र खेताराम सा. भीयांकला खातेदार
		289	निजी	बारानी 1 / आबादी	0.3871	गोपाल लड़ड़ा पुत्र सोहनलाल लड़ड़ा कौम महाजन सा. गच्छीपुरा तह. मकराना, भंवरीदेवी पत्नी पांचाराम जाति जाट सा. गोरडीचाचा, हर्षा चौधरी पुत्री लालाराम कुलरिया जाति जाट सा. देह सुनीता चौधरी पत्नी संजीतप्रकाश जाति जाट सा. पालियास, अनोपकंवर पत्नी रामसिंह जाट सा. गोरडीचाचा, किरण लखारा पत्नी धर्मेन्द्रकुमार जाति लखारा खातेदार सरजू देवी पत्नी उगमाराम जाट सा. कितलसर
				योग	0.7222	
(8) गोरडीचाचा		2	निजी	बारानी 1 / आबादी / गै.मु. सड़क	0.6679	पुरखाराम पुत्र धन्नाराम जगाराम रामलाल कैलाश पि. पुरखाराम बाजूदेवी पत्नी पुरखाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार, तुलसीराम पुत्र पूसाराम कौम जाट (गोदारा) सा. तामडोली खातेदार 3200 वर्गफुट पुरखाराम पुत्र धन्नाराम कौम मेघवाल 8125.60 वर्गफुट सा. देह खातेदार, सम्पतीदेवी पत्नी रामकिशोर कौम खटीक सा. झगड़वास खातेदार, राधाकिशन पुत्र रुघनाथ कौम जाट महावीर शर्मा पुत्र रामनारायण कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				योग	0.6679	
(9) रेवन्त		305	निजी	बारानी 2	0.1263	अमरसिंह पुत्र चांदसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन— ओ.बी.सी. शाखा डेगाना
				योग	0.1263	
(10) तामडोली		207	निजी	बारानी 2	0.1326	किशोर नोरत पि. किशनाराम सन्तोष रेखा पुत्रियां किशनाराम सुमित्रा पत्नि किशनाराम 4/5 जाति रेगर सा.देह खातेदार, संजयसागर पि. हरिराम गीतादेवी पत्नि हरिराम 1/5 जाति रेगर सा.देह
		208	निजी	बारानी 1	0.1002	रामकिशन पुत्र नैनूराम कौम ब्राम्हण सा.देह
		220	निजी	बारानी 2	0.0222	बाबूलाल रूपचन्द सत्यनारायण लालचन्द पि. मिश्रीलाल जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार
		227	निजी	बारानी 2	0.0284	कुम्भाराम पुत्र कालूराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार
		228	निजी	बारानी 2 / गैर मुमकिन आवासीय	0.3780	अमराराम बद्रीलाल पि.हरजीराम जिमनादेवी पत्नि हरजीराम कौम मेघवाल सा.देह भंवरी पत्नि रामपाल कौम खाती सा.गोरडीचाचा रामेश्वरी पत्नि रामनिवास कौम जाट सा. झगड़वास शान्तिदेवी पत्नि भंवरलाल भंवरलाल पुत्र रामप्रसाद तापडिया महाजन सा. गोरडीचाचा खातेदार मधुदेवी पत्नि प्रकाशचन्द करवा कौम महाजन सा.गोरडीचाचा वन्दनादेवी पत्नि पुरुषोत्तम करवा कौम महाजन सा. गोरडीचाचा खातेदार
		231	निजी	बारानी 2	0.0166	रामनिवास दिनेशकुमार पि. शिवनारायण शर्मा निवासी गोरडीचाचा खातेदार
		233	निजी	बारानी 2	0.0252	श्रीमती कमलादेवी पत्नि पुरखाराम जाति

					मेघवाल सा.देह खातेदार
					भंवरलाल रामकरण रुपाराम देबूराम बाबूलाल हीरालाल पप्पुलाल पि. सुखला जाति हरिजन सा.देह मुन्नी पत्नि खीयाराम दिनेश सुनिल रवि पि. खीयाराम हरिजन सा.देह भंवरदेवी पत्नि रुपाराम जाति मेघवाल सा.चारणावास खातेदार खीयाराम पुत्र नारायणराम मेघवाल सा.देह
					राजूराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल सा. रावलियावास खातेदार, कैलाशराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल सा.गोरडीचाचा खातेदार उगमाराम पूनाराम पि. जेठाराम रुकमा पत्नि जेठाराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार
					श्रीमती घेवरीदेवी पत्नि जेठाराम श्रीमती मीरा पत्नि गोपीराम श्रीमती केसर पत्नि हरजीराम श्रीमती मधूदेवी पत्नि आदूराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार, भंवरदेवी पत्नी नरसाराम, पुरखाराम, उमाराम, श्यामलाल पुत्रगण मुगनाराम, कौम मेघवाल सा. देह खातेदार
					राजेन्द्र पुत्र भागूराम पांचा पि. पूसाराम बंशीराम पि. कानाराम भंवर धर्मपत्नि स्व. कानाराम जाट सा.देह खातेदार
					सुगना देवी छोटीदेवी पुत्रियां मंगाराम पांचाराम पुत्र पुसाराम हरिराम बंशीराम पि.कानाराम भंवर पत्नि कानाराम राजेन्द्र पुत्र भागूराम कौम जाट खातेदार
					हनुमान सत्यनारायण पि. मदनलाल कौम धोबी सा.डेगाना खसरा नं० 494/212 में हि. 3-10 बीघा, सीमा पत्नि लक्ष्मणकुमार कौम धोबी सा. झगडवास खसरा नं० 571/494 में हि. 1-15 बीघा
					योग 4.9253
	(11) हिम्मतनगर				पूनाराम पुत्र खीवराम जाट निवासी जालसूनानक खातेदार
					सायरराम मोहनराम पि. इशरराम ईमरती बेवा ईशरराम कौम भाम्बी सा.देह रहन ओ.बी.सी. बैंक शाखा डेगाना, झूमरराम पुत्र नारायणराम कौम नायक सा.बामणाकलां खातेदार
					शंकरलाल पुत्र रामलाल कौम ब्राम्हण सा.देह खातेदार
					योग 1.5980
	(12) तिलानेस				रतनसिंह नरपतसिंह पि. गिरवरसिंह राजपूत सा.देह खातेदार
					सुखाराम पुत्र मिश्रीलाल कौम खाती सा.देह खातेदार
					भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह दरियावकंवर पत्नि रुगनाथसिंह महेन्द्रसिंह इन्दरसिंह पि. रुगनाथसिंह सदाकंवर शिमलाकंवर मुन्नीकंवर कमोदकंवर ज्योतिकंवर पुत्रियां रुगनाथसिंह कौम राजपूत, कानसिंह मांगूसिंह लादूसिंह पि. भीमसिंह ओमकंवर पत्नि गिरधारीसिंह कौम राजपूत रहन रुगनाथसिंह व मांगूसिंह का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
					भंवरकंवर पुत्री भागूसिंह दरियावकंवर पत्नि रुगनाथसिंह महेन्द्रसिंह इन्दरसिंह पि. रुगनाथसिंह सदाकंवर शिमलाकंवर मुन्नीकंवर कमोदकंवर ज्योतिकंवर पुत्रियां रुगनाथसिंह कानसिंह मांगूसिंह लादूसिंह पि. भीमसिंह कौम राजपूत, रहन रुगनाथसिंह मांगूसिंह का हिस्सा ओ.बी.सी. शाखा डेगाना
					दरियावकंवर पत्नि रुगनाथसिंह महेन्द्रसिंह इन्दरसिंह पि. रुगनाथसिंह सदाकंवर

					शिमलाकवर मुन्नीकंवर कमोदकंवर ज्योतिकंवर पुत्रियां रूगनाथसिंह कानसिंह पि.भीमसिंह कौम राजपूत सा.देह, गोविन्दसिंह पुत्र केकसिंह राजपूत, गोपालसिंह पुत्र चतुर्भुजसिंह, जनकसिंह पुत्र आनन्दसिंह कौम राजपूत सा. हिम्मतनगर, नीतुसिंह पुत्र शिवसिंह कौम राजपूत सा.देह
157	निजी	बारानी 1	0.2924		रामपाल गोद हरलाल सा.देह खातेदार रहन ज.था.आ.ग्रा.बैंक डेगाना
158	निजी	बारानी 1	0.4581		रामनिवास पुत्र पीथाराम चूका पत्नि पीथाराम कौम जाट सा.देह रहन ओ.बी.सी. डेगाना
159	निजी	बारानी 1	0.6978		मीरा पत्नि स्व.सुखराम जाट सा.देह, नारायणसिंह पुत्र छोगसिंह रावणा राजपूत सा. देह, गोरादेवी बेवा दीपाराम हेमाराम सुरेशराम पिता दीपाराम कौम जाट सा.देह गेनाराम रामरघुनाथ राजूराम नन्दाराम पि. जयराम जडावली पत्नि जयराम कौम जाट सा.देह, भंवराराम पुत्र धूलाराम कौम जाट सा.देह
162	निजी	बारानी 1 +	0.3350		दाखुदेवी पत्नि रामाकिशन जाट सा.देह खातेदार
164	निजी	बारानी 1	0.1009		घासीराम लिछमनराम परसाराम पि. केशराराम कौम जाट सा.देह रहन परसाराम की भूमि ओ. बी.सी. शाखा डेगाना
165	निजी	बारानी 1 +	0.1579		शंकरसिंह पुत्र गिरवरसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार
166	निजी	बारानी 1 +	0.0161		रामनिवास पुत्र पीथाराम चूका पत्नि स्व. पीथाराम मीरा पत्नि स्व.सुखाराम कौम जाट सा.देह
167	निजी	बारानी 1 +	0.3434		हाबूराम बाबूलाल पि. शंकरराम मु.पेमा बेवा शंकरराम कौम जाट सा.देह खातेदार
168	निजी	बारानी 1 +	0.0089		मेघाराम पुत्र मंगलाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
169	निजी	बारानी 1 +	0.3076		मेघाराम पुत्र मंगलाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
170	निजी	बारानी 1 +	0.1346		राजेशकुमार पुत्र मदनमोहन शकुन्तला पत्नि स्व.मदनमोहन अनिलकुमार पुत्र रामजीवन मु. सरजूदेवी बेवा रामजीवन रामअवतार दीनदयाल बृजमोहन पि. गंगाविशन कौम ब्राम्हण सा.देह खातेदार
174	निजी	गै. मु. नाडी	0.0793		ओमकंवर पत्नि गिरधारीसिंह भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह सा.देह
175	निजी	गै. मु. नाडी	0.0120		ओमकंवर पत्नि गिरधारीसिंह भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह सा.देह
338	निजी	बारानी 1 +	0.3414		रामकिशन पुत्र मूलाराम जाट सा.देह
339	निजी	बारानी 1 +	0.0086		भंवरसिंह गणेशसिंह बहादूरसिंह दिलीपसिंह पि. नारसिंह सा.देह
343	निजी	बारानी 1 +	0.3268		रामनिवास पुत्र पीथाराम जाट सा.देह
344	निजी	बारानी 1 +	0.8948		मोडूलाल पुत्र जगदीशप्रसाद कौम ब्राम्हण सा. देह रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक ईडवा
345	निजी	बारानी 1 +	0.1489		भंवरसिंह गणेशसिंह बहादूरसिंह दिलीपसिंह पि. नारसिंह सा.देह
346	निजी	बारानी 1 +	0.2594		जबरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपूत सा.देह
347	निजी	बारानी 1 +	0.1769		रामसिंह पुत्र भंवरसिंह, भंवरसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत सा.देह
361	निजी	बारानी 1	0.2311		बस्तीराम पुत्र धनाराम ब्राम्हण सा.देह
368	निजी	बारानी 1	0.2454		पूराराम खेमराम सत्यनारायण पि. मोतीराम कोम कुम्हार सा.देह नेमीचन्द सुखाराम शिवराम रामनिवास पि. हीराराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार
375	निजी	बारानी 1	0.1366		बाबूदीन पुत्र जहूरखां झुमरी पत्नि स्व. जहूरखां

					पीरुदीन सत्तार मोहम्मद सरजूदीन मुस्ताफि पि. मांगूखां घीसूडी पत्नि स्व.मांगूखां कौम तेली पूराराम पुत्र मोतीराम कौम कुम्हार सा.देह
	377	निजी	बारानी 1	0.5278	हरिराम पुत्र रामपाल कौम जाट सा.देह
	378	निजी	बारानी 1	0.1707	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	379	निजी	बारानी 1	0.0124	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	380	निजी	बारानी 1	0.3818	हाबूराम बाबूलाल पि. शंकरराम मु.पेमा बेवा शंकरराम कौम जाट सा.देह खातेदार
	387	निजी	बारानी 1	0.1484	रामलाल खीयाराम जवानाराम पुत्रगण तुलछाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
	388	निजी	बारानी 1	0.2472	खीयाराम, जवानाराम रामलाल पि. तुलछाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
	389	निजी	बारानी 1	0.4501	देवाराम पीथाराम पि. जालाराम सा.देह खातेदार
	390	निजी	बारानी 1	0.3407	जयराम नैनूराम गोपालराम रामचन्द्र पि. रिदाराम नोजादेवी पत्नि स्व. रिदाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
	400	निजी	बारानी 1	0.0583	जयराम नैनूराम गोपालराम रामचन्द्र पि. रिदाराम नोजादेवी पत्नि स्व. रिदाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
	402	निजी	बारानी 1	0.6638	देवीलाल पुत्र कानाराम, बन्शीराम पुत्र सुखाराम, कानाराम पुत्र रामदेव कौम जाट सा. देह खातेदार
	403	निजी	बारानी 1	0.4773	देवीलाल पुत्र कानाराम, कानाराम पुत्र रामदेव, धापूदेवी पत्नी मेगराज कौमजाट सा.देह खातेदार
	419	निजी	बारानी 1	0.0405	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	439	निजी	बारानी 1	0.0043	धापूदेवी पत्नि मेघराज कौम जाट सा.देह खातेदार
	440	निजी	बारानी 1	0.1916	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	441	निजी	बारानी 1	0.1387	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	442	निजी	बारानी 1	0.1349	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	443	निजी	बारानी 1	0.1286	रामनिवास 1/2 नेमाराम 1/2 पि. कानाराम कौम जाट सा.देह रहन रामनिवास का हिस्सा ओ.बी.सी. डेगाना
	439/1	निजी	बारानी 1	0.0494	रामनिवास पुत्र दीपाराम कौम जाट सा.देह खातेदार
			योग	10.6574	
(13) ईडवा	78	निजी	बारानी 1	0.4201	शिवकरण घसीराम गेनाराम पि. हाबुराम गुलाबी बेवा चौथाराम शिवलाल पुत्र चौथाराम भाम्बी सा.देह रकबा 1.19 बीघा, झूमरकी पत्नि पांचाराम कोम भाम्बी सा.देह रकबा 2 बीघा हडमान पुत्र हजारी फेफली शारदा पुत्रियां जीवणराम रकबा 3.19 बलदेवराम हरिराम पि. भागूराम धूलाराम देवाराम नारायण पि. लाला कोम भाम्बी सा.देह रकबा 7.18 बीघा
	80	निजी	बारानी 1	0.3368	जड़ावली पत्नि स्व.भंवरूराम नाथीदेवी बाउडी तुलछाई पुत्रियां भंवरूराम कौम जाट सा.देह
	83	निजी	बारानी 1	0.3803	सुभाषचन्द्र पुत्र भंवरलाल कौम ब्राम्हण सा.देह
	84	निजी	बारानी 1	0.3408	भंवरु पुत्र भेरूराम कौम दरोगा सा.देह
	86	निजी	बारानी 1	0.0140	हनुमानसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत सा.देह

				88	निजी	बारानी 1	0.1528	रघुवीरसिंह पुत्र सूरसिंह कौम राजपूत सा.देह
				89	निजी	बारानी 1	0.0857	धन्ना पुत्र पीरा कौम भान्बी कमलीदेवी पत्नि बाबूलाल कौम मेघवाल सा.देह
				90	निजी	बारानी अलीफ	0.2113	कमलीदेवी पत्नि बाबूलाल कौम मेघवाल सा. देह
				91	निजी	बारानी अलीफ	0.3687	महेन्द्र खोजा पुत्र दयालराम कौम जाट सा. बंवरला खातेदार
				92	निजी	बारानी 1	0.5998	तिजूड़ी जोजे रामाकिशन कौम जाट सा.देह सम्पूर्ण खाता रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा
				201	निजी	बारानी 1	0.5517	अमराखां हाबूखां पिता जमानखां उर्फ जमकिया कौम लवार सा.देह
				202	निजी	बारानी 1	0.3947	भागचन्द बनवारीलाल पिता गणपतलाल शकुन्तलादेवी भगवतीदेवी सुशीला पुत्रियां स्व. गणपतलाल मनभरीदेवी धर्मपत्नि स्व. गणपतलाल कौम टाक सा.देह
				221	निजी	बारानी 1	0.6750	शिवप्रतापसिंह राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह करणीप्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार शिवप्रताप की भूमि ओ.बी.सी बैंक डेगाना रहन
				222	निजी	बारानी 1	0.0355	रेखाकवर पत्नि ओमप्रकाश कौम रावणा राजपूत
				225	निजी	बारानी 1	0.3014	नाथी बेवा रामा ताराचन्द घूडसिंह छोटूसिंह पिता रामा कौम दरोगा सा.देह
				226	निजी	बारानी 1	0.4340	नाथी बेवा रामा ताराचन्द घूडसिंह छोटूसिंह पिता रामा कौम दरोगा सा.देह
				227	निजी	बारानी 1	0.0609	शिवप्रतापसिंह राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह करणीप्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार शिवप्रताप की भूमि ओ.बी.सी बैंक डेगाना रहन
				237	निजी	बारानी 1	0.1277	चौदिया पुत्र सांवरिया कौम ढोली सा. देह अयोध्यादेवी पत्नी स्व. भंवरलाल सत्यनारायण देवीलाल दयानन्द पि. भंवरलाल कौम ढोली सा. देह खातेदार, कैलाश महेन्द्र आनन्द संखदेव रामअवतार पि. मिठिया, सजनीदेवी पत्नी राजुदेवी नोरतदेवी सरोज पुत्रियां स्व. मिठिया कौम ढोली सा. देह खातेदार
				238	निजी	बारानी 1	0.3623	अयोध्यादेवी पत्नि स्व.भंवरिया दयालराम सत्यनारायण देवीलाल पिता भंवरिया कौम ढोली सा.देह खातेदार
				242	निजी	बारानी 1	1.0848	शिवप्रतापसिंह राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह करणीप्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह उच्छबकवर चूड़ावत बेवा गोरधनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार, रहन शिवप्रतापसिंह का हिस्सा ओ. बी.सी. बैंक डेगाना मुर्तहीन, रहन करणीप्रतापसिंह महेन्द्रसिंह व राजेन्द्रसिंह का हिस्सा रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा
				243	निजी	बारानी 1	0.6234	अर्जुनराम भीकाराम पिता श्रवणराम रकबा 11 बीघा 15 बिश्वा सुरेश पुत्र हरजान नाबालिग संरक्षक हरजान पुत्र अम्बालाल कौम ढोली 3 बीघा 5 बिश्वा सा. देह खातेदार
				265	निजी	बारानी 1	0.0946	रेखराज राजेन्द्र प्रसाद पुखराज पिता गणेशलाल शिवरतन नथमल पिता दीपचन्द कौम ब्राम्हण सा. देह, कचरूमल पुत्र तेजकरण कौम ब्राम्हण सा.देह खातेदार
				266	निजी	बारानी 1	0.6784	पाबूराम हाथीराम बचनाराम पि. भोलाराम कौम गुर्जर सा.देह खातेदार, रहन ज.ना.ऑ.ग्रा. बैंक ईडवा मूर्तहीन
				267	निजी	बारानी 1	0.0122	गणेश पुत्र परसाराम कौम दरोगा सा. देह खातेदार
				288	निजी	बारानी 2	0.0026	मानसिंह करणसिंह सुरेन्द्रसिंह धर्मेन्द्रसिंह पिता रावतसिंह राजकवर पत्नि शंकरसिंह कौम राजपूत सा.देह

				300	निजी	बारानी 1	0.0609	हाथीराम पुत्र भोलाराम कौम गुर्जर सा.देह
				301	निजी	बारानी 1	0.0336	हाथीराम पुत्र भोलाराम कौम गुर्जर सा.देह
				302	निजी	बारानी 1	1.1958	मैनादेवी पत्नि घनश्यामलाल पुखराज पुत्र मोतीलाल कौम ब्राम्हण, रामकंवार पिता मोतीलाल नारायण प्रेस पिता अन्नतराम रामलाल पुत्र पन्नालाल माणकचन्द पुत्र दोलाराम 4/5, इन्दरचन्द रामकंवार कौम सेवक 1/5
				307	निजी	बारानी 1	0.2482	जगदीशप्रसाद पुत्र मोतीलाल कौम ब्राम्हण सा. देह
				310	निजी	बारानी 1	0.0020	अना पुत्र शिवनारायण नैनूराम गोपाललाल पिता नारायण बलदेव पुत्र गंगाराम बजरंगलाल पुत्र गोरीशंकर सोहनलाल पुत्र नूदर मांगीलाल पुत्र रामविलास सवाईराम पुत्र रुगनाथ सुरजमल पुत्र घीसू पन्ना पुत्र अमृता कौम सेवग सा.देह खातेदार
				311	निजी	बारानी 1	0.5445	अना पुत्र शिवनारायण नैनूराम गोपाललाल पिता नारायण बलदेव पुत्र गंगाराम बजरंगलाल पुत्र गोरीशंकर सोहनलाल पुत्र नूदर मांगीलाल पुत्र रामविलास सवाईराम पुत्र रुगनाथ सुरजमल पुत्र घीसू पन्ना पुत्र अमृता कौम सेवग सा.देह खातेदार
				312	निजी	बारानी 1	0.3514	रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह भंवरकंवर पत्नि भंवरसिंह चान्दकंवर हंसाकंवर नन्दूकंवर पुत्रियां भंवरसिंह दतारसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत सा.देह
				313	निजी	बारानी 1	0.4266	मुकुटकंवर पत्नि भंवरसिंह करणसिंह दोलतसिंह दलीपसिंह पिता भंवरसिंह सदाकंवर उच्छबकंवर समजकंवर धापूकंवर सन्तोषकंवर पुत्रियां भंवरसिंह कौम राजपूत, उम्मेदसिंह गोद चिमनसिंह 1/2, रतनसिंह पुत्र शेरसिंह लाडकंवर पत्नि स्व. शेरसिंह दीपेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह किरणकंवर पत्नि स्व. जसवन्तसिंह कौम राजपूत सा.देह, बचनसिंह पुत्र गंगासिंह हरिसिंह लक्ष्मणसिंह पिता गुमानसिंह रतनसिंह पिता मूलसिंह धूणसिंह पुत्र रामसिंह मकतूलकंवर बेवा रामसिंह सवाईसिंह नारायणसिंह पिता पाबूदानसिंह 1/4, चन्द्रसिंह पुत्र बिजराजसिंह कौम राजपूत भंवरसिंह महावीरसिंह गिरधारीसिंह पिता मोहनसिंह मु. कल्याणकंवर बेवा मोहनसिंह प्रतापसिंह पुत्र खीवसिंह सुगनसिंह पुत्र गोदनारायणसिंह भगवतसिंह महेन्द्रसिंह पिता खांगसिंह, शेलेन्द्रसिंह धीरेन्द्रसिंह पिता बजरंगसिंह मोहनकंवर पत्नि स्व. बजरंगसिंह नरपतसिंह सुगनसिंह सुरजनसिंह चान्दसिंह पिता गिरवरसिंह मानसिंह कर्णसिंह सुरेन्द्रसिंह धर्मेन्द्रसिंह पिता रावतसिंह राजकंवर बेवा शंकरसिंह, मानसिंह करणसिंह धमेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता रावतसिंह मंगेजकंवर पुत्री रावतसिंह व राजकंवर पत्नि स्व. शंकरसिंह कौम राजपूत भंवरसिंह दातारसिंह पिता देवीसिंह अनोपकंवर बेवा देवीसिंह नाथूसिंह छोटूसिंह पिता फतेहसिंह मांगूसिंह सुरेन्द्रसिंह श्रवणसिंह रघुवीरसिंह पिता सांवतसिंह कौम राजपूत सा.देह, प्रेमकंवर पत्नी भंवरसिंह विक्रमसिंह वीरेन्द्रसिंह पि. स्व. भंवरसिंह विनोदकंवर नीतेशकंवर नीलमकंवर पुत्रियां स्व. भंवरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				320	निजी	बारानी 1	0.0525	उम्मेदकंवर पत्नी पप्पूसिंह उम्मेदकंवर पत्नी पप्पूसिंह उम्मेदकंवर पत्नी पूर्णसिंह कौम राजपूत बुधराम पुत्र मिलापचन्द कौम सेवक सा.देह, मिलाप पुत्र हनुत कौम सेवक सा. देह धर्मराम पुत्र भंवरराम कौम जाट सा. मोडरिया

					सुरजमल पुत्र घीसूलाल कौम सेवग सा. देह खातेदार रहन उम्मेदकंवर के हिस्से की भूमि ओ.बी.सी. शाखा डेगाना के मूर्तहीन
321	निजी	बारानी 1	0.5317		दातारसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार
322	निजी	बारानी 1	1.2488		शियाराम पुत्र गोनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार, रहन ज.था.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा मूर्तहीन
324	निजी	बारानी 2	0.5006		भूराराम पुत्र जंवरूराम कौम जाट सा.देह भूराराम पुत्र जंवरूराम के खाते की भूमि रहन ज.था.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा
339	निजी	बारानी 2	0.0070		भंवरी बेवा हिम्मताराम गोपालराम पुत्र हिम्मताराम ना.बा. माता मु. भंवरी बेवा हिम्मताराम कौम जाट सा.मोडरिया खातेदार
340	निजी	बारानी 2	0.1686		रुघनाथराम दयालराम कौम जाट सा.पालियास खातेदार रहन रुघनाथ की भूमि रहन एस.बी. आई. मेड़ता सिटी
342	निजी	बारानी 2	0.5229		शिवप्रतापसिंह राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसंह करणीप्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह, उछबकंवर चुडावत बेवा गोरधनसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार, रहन—राजेन्द्रसिंह, करणीप्रतापसिंह महेन्द्रसिंह का हिस्सा रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा
354	निजी	बारानी 2	0.0727		तुलछाराम पुत्र नारायणराम जाट सा.पालियास, नेमाराम पुत्र रामदयाल कौम जाट सा.देह खातेदार
355	निजी	बारानी 2	0.0929		छगनाराम पुत्र अणदाराम जाति मेघवाल निवासी कितलसर तहसील डेगाना खातेदार
356	निजी	बारानी 2	0.5437		बीरमराम पुत्र पांचूराम कौम बावरी सा. पालियास उम्मेदकंवर पत्नि पप्पुसिंह कौम राजपूत सा.देह, श्रीमती भंवरकंवर पत्नि धर्मपालसिंह जाति राजपूत सा.देह, दुर्गादेवी पत्नि रामलाल कौम ब्राम्हण सा.देह, भंवरलाल पुत्र उगमाराम कौम राईका सा. ढींगसरा तहसील खीवसर खातेदार, श्रीमती उम्मेदकंवर पत्नी पप्पुसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार, रतनकंवर पत्नि सुमनकिशोरसिंह कौम राजपूत सा.देह, किरनकंवर पत्नि फतेहसिंह अंचनकंवर पत्नि स्व.रघुवीरसिंह दीपसिंह सोनसिंह पि. रघुवीरसिंह कौम राजपूत 1/3 रामचन्द्र पुत्र घासीराम कौम जाट 1177/11631 सा. पालियास रामचन्द्र पु. घासीराम कौम जाट सा. पालियास 2100/11631, सुगनीदेवी पत्नि पांचाराम जाति बावरी सा.पालियास 600/11631 मु.बिरजूडी बेवा पेमाराम रामलाल केलाश चेनाराम पिता पेमाराम मु.चुकादेवी बेवा मिश्रु अम्बालाल राजूराम लिछमणराम बाबूराम पिता मिश्रु 1/3 कौम बावरी सा.पालियास खातेदार, रतनकंवर व किरणकंवर का हिस्सा ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन रामचन्द्र पुत्र घासीराम का हिस्सा ओ.बी.सी. शाखा पालडीकला के रहन
528	निजी	बारानी 1	1.6812		रामचन्द्र पुत्र चिमनाराम कौम जाट सा.देह रकबा 13 बीघा घासीराम पुत्र रामनाथ मु.धापू बेवा रामचन्द्र कौम ब्राम्हण सा.देह, धापू बेवा रामचन्द्र का हिस्सा ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन रामचन्द्र पुत्र चिमनाराम का हिस्सा ज.था.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
529	निजी	बारानी 1	0.7714		ईग्यारसीदेवी पत्नि स्व.सुगनाराम रामनिवास पि. सुगनाराम, रामनिवास रमजीराम पिता सुगनाराम राम कौम जाट, भूराराम खाजूराम पिता नेनाराम, नेमाराम पुत्र शिवजीराम सीमादेवी पुत्री शिवजीराम जाति जाट नि.

					ईडवा, शंकरराम पिता कुनाराम रुकमा पत्नि स्व. पूनाराम कौम जाट सा.देह
533	निजी	बारानी 1	0.1001		नाथूराम पुत्र लालाराम जीवणीदेवी धर्मपत्नि स्व.छोटाराम कोम खाती सा.देह खातेदार सम्पूर्ण खाता ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
567	निजी	बारानी 1	0.1641		रामसुख पुत्र चिमनाराम कौम जाट सा. रामसरी खातेदार
569	निजी	बारानी 1	0.2732		उगराराम पुत्र मिसाराम कौम जाट सा.देह सम्पूर्ण खाता ज.था.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
575	निजी	बारानी 1	0.6964		गुदड पुत्र खीया 1/2 कौम रेगर, ओमप्रकाश बाबूलाल केलाश महावीर पिता छोटाराम शान्तिदेवी पत्नि स्व.छोटाराम भंवरी पप्पूदेवी सुशिला मन्जू सुनिता पुत्रियां छोटाराम 1/2 कौम सरगरा सा.देह रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक ईडवा
578	निजी	बारानी 1	1.2718		सोनकी पत्नि बुधाराम कौम भाम्बी सा.देह हडमानराम पुत्र गोगाराम कोम भाम्बी सा. तिलानेस सोनकी का हिस्सा रहन ज.ना.आ.ग्रा. बैंक ईडवा
579	निजी	बारानी 1	0.9394		जीयाराम पुत्र शिवलाल कौम जाट सा.देह
598	निजी	बारानी 1	0.0483		धन्नाराम पुत्र मूलाराम कौम रेगर सा. आलनियावास
607	निजी	बारानी 1	0.1415		हडमान बागाराम पिता मोटाराम कौम नायक सा.देह गैर खातेदार
608	निजी	बारानी 1	0.0487		नेनूराम पुत्र खीवडा कौम रेगर सा.देह
612	निजी	बारानी 1	0.0510		रामसुख पैमाराम रामदेव पिता नाथूराम कौम जाट ओमादेवी पत्नि रामेश्वरलाल कौम जाट (ताड़ी), खियाराम पुत्र तुलछाराम कौम जाट (खटकड) सा. तिलानेस खातेदार
613	निजी	बारानी 1	0.1788		रामसुख पैमाराम रामदेव पिता नाथूराम कौम जाट ओमादेवी पत्नि रामेश्वरलाल कौम जाट (ताड़ी), खियाराम पुत्र तुलछाराम कौम जाट (खटकड) सा. तिलानेस खातेदार
615	निजी	बारानी 1	0.0762		जवानाराम पुत्र तुलछाराम कौम जाट सा.देह 13 बीघा 15 बिश्वा, रामलाल पुत्र तुलछाराम कौम जाट रकबा 3 बीघा 05 बिश्वा सा. तिलानेस खातेदार
1151/525	निजी	बारानी 1	0.1542		अमराराम पुत्र पंचाराम कमलादेवी संजूदेवी पुत्रियां पांचाराम घेवरी पत्नी पांचाराम कौम जाट सा. देह खातेदार
1153/529	निजी	बारानी 1	0.7392		बोटाराम गोद शोभाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, सम्पूर्ण खाता ज.था.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
1154/529	निजी	बारानी 1	0.1027		नन्दकिशोर पुत्र चिमनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, सम्पूर्ण खाता ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
1189/570	निजी	बारानी 1	0.3262		अमराराम पुत्र हीराराम कौम रेगर सा. देह खातेदार
951/304	निजी	बारानी 1	0.9358		अमराराम पुत्र घीसाराम कौम जाट सा. देह खातेदार, सम्पूर्ण खाता ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
952/304	निजी	बारानी 1	0.3595		गेनूडी पत्नी मोडाराम कौम जाट सा. देह खातेदार सम्पूर्ण खाता ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के रहन
953/304	निजी	बारानी 1	0.0675		रामपाल बदरी पि. हाबुराम कौम जाट सा. देह खातेदार
962/312	निजी	बारानी 1	0.4744		मानसिंह करणसिंह सुरेन्द्रसिंह धर्मन्द्रसिंह पिता रावतसिंह राजकंवर पत्नि शंकरसिंह कौम राजपूत सा.देह
964/321	निजी	बारानी 1	0.7457		हरजीराम पि. हुक्माराम, रुकमाई पत्नी पोकरराम भंवरी देवी पत्नी छोटाराम कौम जाट

						सा. मोडरिया खातेदार, भंवराराम मेवाराम रुघाराम पि. बीरमाराम मु. केलकी बेवा बीरमाराम गोपालराम पुत्र हिम्मताराम मु. भंवरी बेवा हिम्मताराम कौम जाट सा. मोडरिया खातेदार
		965/324	निजी	बारानी 2	0.1416	बन्शीलाल पि. मूलाराम कौम खाती सा. पालियास खातेदार
		980/340	निजी	बारानी 2	0.1740	नाथूलाल पुत्र चुन्नीलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
		981/340	निजी	बारानी 2	0.0084	मंसीराम रुगनाथ पि. दयालराम, मंशीराम रुगनाथ पि. दयालराम कौम जाट, तुलछाराम पुत्र नारायणराम कौम जाट सा. पालियास खातेदार
		993/354	निजी	बारानी 2	0.0377	मंसीराम रुगनाथ पि. दयालराम, मंशीराम रुगनाथ पि. दयालराम कौम जाट, तुलछाराम पुत्र नारायणराम कौम जाट सा. पालियास खातेदार
				योग	25.6631	
(14) पालियास		23	निजी	बारानी 1	0.3824	भागीरथ पुत्र मूलाराम 1/2 भंवराराम पुत्र अर्जुनराम 1/2 जाट सा.देह खातेदार
		26	निजी	बारानी 1	0.0197	हरिसिंह उम्मेदसिंह फतेहसिंह लालसिंह पि. बदनसिंह नेनी बेवा बदनसिंह मंगेजसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत सा.देह खातेदार
		27	निजी	बारानी 2	0.5946	घासीराम पुत्र तेजाराम पुसाराम पुत्र पाबूराम भूराम पुत्र रामदीन जाट सा.देह खातेदार भूराराम का हिस्सा रहन ओ.बी.सी. पालडीकलां मूर्तहीन
		28	निजी	बारानी 2	0.1476	गुमानकंवर बेवा रुडसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
		90	निजी	बारानी 1	0.0120	तिलोक मोहना पिता अर्जुन 1/2 सा. कुशालपुरा तहसील रायपुर पाली, मेघाराम पुत्र जोगाराम 1/2 राईका सा.रियांबडी खातेदार
		91	निजी	बारानी 1	0.1127	भूराराम पुत्र सुखाराम मु.गंगादेवी बेवा सुखाराम कौम राईका सा.देह खातेदार
		92	निजी	बारानी 1	0.2318	भोपाल पुत्र लच्छा राइका सा.देह खातेदार
		93	निजी	बारानी 1	0.1080	भोपाल पुत्र लच्छा राइका सा.देह खातेदार
		95	निजी	बारानी 2	0.3116	जयकिशन पुत्र जुजारा राईका सा. देह खातेदार, राधादेवी पत्नी नारायणराम कौम जाट सा. देह खातेदार
		96	निजी	बारानी 1 — /बारानी 2	0.3230	जयकिशन पुत्र जुजारा राईका सा. देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र भंवरलाल कौम जाट सा. देह, शारदादेवी पत्नी बाबूलाल कौम जाट सा. देह, सांवरगिरी पुत्र मोतीगिरी कौम गुसाई सा. देह, छोटपुरी पुत्र मोहनपुरी कौम गुसाई सा. देह खातेदार
		98	निजी	बारानी 1	0.2605	भोपाल पुत्र लच्छा राइका सा.देह खातेदार
		103	निजी	बारानी 2	0.3383	मांगू पुत्र पेमा राइका सा.देह खातेदार रहन —ओ.बी.सी. बैंक शाखा पालडीकला मूर्तहीन
		107	निजी	बारानी 1	0.8182	धन्ना सुखा सवाई, भागू नेमा पि. प्रभु, गोपालसिंह पुत्र बंशीराम नाथूसिंह शिवसिंह पि. गुलाब मु0 रामी बेवा गुलाब, मंगलाराम मोडाराम पि. रामचन्द्र कौम दरोगा, नाथीदेवी धर्मपत्नि गोपालराम, गोपालराम पुत्र मोहनराम कौम जाट मांगूसिंह नरसिंह तुलछाराम पि. गणपत कौम दरोगा सा.देह खातेदार नाथीदेवी व गोपालराम के हिस्से की भूमि रहन ना.स.भू. वि.बैंक शाखा डेगाना
	186	निजी	बारानी 1	0.9460	रमजी लिछमण पि. चौथा मु. रूपा बेवा चौथा गीतादेवी धर्मपत्नी भीयाराम 5 बीघा चौथाराम पुत्र हरसुखराम परमादेवी पत्नी रामलाल रामलाल पुत्र मंगलाराम भंवरी रतन पुत्रियां मंगलाराम 12—10 बीघा नाथूराम बाबुलाल पि. गोगाराम 6 बीघा 1/2 हीराराम पुत्र	

				हरसुखजाट 1/4 भागूलाल पुत्र श्रीराम जाट 1/4 सा. देह खातेदार, रमजी लिखमण व रुपा का हि. ओ.बी.सी. शाखा पालडीकलां
187	निजी	बारानी 1	0.3521	रमजी लिखमण पि. चौथा मु. रुपा बेवा चौथा 1/2 हीराराम पुत्र हरसुख जाट 1/4 भागूराम पुत्र श्रीराम जाट 1/4 सा.देह खातेदार रहन रमजी लिखमण रुपा का हिस्सा रहन ओ.बी.सी. शाखा पालडीकलां
188	निजी	बारानी 1	0.6130	रमजी लिखमण पि. चौथा मु. रुपा बेवा चौथा 1/2 हीराराम पुत्र हरसुख जाट 1/4 भागूराम पुत्र श्रीराम जाट 1/4 सा.देह खातेदार रहन रमजी लिखमण रुपा का हिस्सा रहन ओ.बी.सी. शाखा पालडीकलां
224	निजी	बारानी 1	0.0366	शिवलाल पुत्र धनाराम जाट सा.केरिया रावां खातेदार
225	निजी	बारानी 1	0.0075	आदूराम पुत्र पदमाराम मेघवाल 1/4 नाथूराम पुत्र अलसूराम मंगलाराम सुखदेव छोटूराम पिता धमाराम मु.चन्दनकी बेवा धमाराम अर्जुनराम पुत्र पूनाराम 3/9 कौम भाम्बी सा. देह खातेदार
226	निजी	बारानी 1	0.1312	भैरूराम पुत्र पूसाराम भाम्बी सा.देह खातेदार
233	निजी	बारानी 1	0.1574	मंगाराम डालाराम रामलाल तुलछा शिवकरण पि. दयाराम जाट सा.देह खातेदार, रहन रामलाल व शिवकरण का हि. ओ.बी.सी. व तुलछाराम का हिस्सा रहन ज.ना.आ.ग्रा.बैंक ईडवा के मूर्तहीन
234	निजी	बारानी 1	0.0253	शंकरलाल पुत्र रामपाल जाट सा.देह खातेदार
240	निजी	बारानी 1	0.0019	प्रतापराम पूनाराम पिता रामरख जाट सा.देह खातेदार मिसाराम पिता प्रतापराम जाट सा.देह प्रतापराम का हिस्सा रहन ओ.बी.सी. बैंक पालडीकलां पूनाराम पुत्र रामरख का हिस्सा रहन ज.था.ग्रा.बैंक शाखा ईडवा के मूर्तहीन
245	निजी	बारानी 1	0.1659	टोडाराम पुत्र चूनाराम कौम भाम्बी सा.धामगिया खातेदार
246	निजी	बारानी 1	0.4188	मोटाराम पुत्र चूनाराम कौम भाम्बी सा. धामगिया खातेदार
247	निजी	बारानी 1	0.1899	मोटाराम पुत्र चूनाराम कौम भाम्बी सा. धामगिया खातेदार
250	निजी	बारानी 1	0.1990	हडमान पुत्र श्यामाराम मु0 तुलछाई बेवा श्यामाराम कौम भाम्बी सा. धामगिया खातेदार
251	निजी	बारानी 1	0.0840	हडमान पुत्र श्यामाराम मु0 तुलछाई बेवा श्यामाराम कौम भाम्बी सा. धामगिया खातेदार
254/3	निजी	बारानी 1	0.0262	श्यामा पुत्र चूना कौम भाम्बी सा. देह खातेदार
191/1	निजी	बारानी 1	0.3011	चोथाराम पुत्र हरसुखराम कौम जाट सा.देह खातेदार
246/2	निजी	बारानी 1	0.4214	टोडाराम पुत्र चूनाराम कौम भाम्बी सा.धामगिया खातेदार
247/2	निजी	बारानी 1	0.0266	टोडाराम पुत्र चूनाराम कौम भाम्बी सा.धामगिया खातेदार
248/2	निजी	बारानी 1	0.0005	टोडाराम पुत्र चूनाराम कौम भाम्बी सा.धामगिया खातेदार
26/1	निजी	बारानी 1	0.2714	सूरजानसिंह, धनसिंह पि. भैरुसिंह लाडकंवर बेवा भैरुसिंह श्यामसिंह बदनसिंह पि. शेरसिंह 1/4 ब. हि. ब. मगेजसिंह सवाईसिंह पि. भूरसिंह 1/4 राचन्द्रसिंह गुलाबसिंह पि. सोनसिंह, प्रेमकंवर बेवा कल्याणसिंह, पृथ्वीसिंह रणजीतसिंह ना. बा. वली माता प्रेमकंवर बेवा कल्याणसिंह विमलाकंवर बेवा जवरसिंह विरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह पि. जवरसिंह ना. बा. वली माता विमलकंवर बेवा जवरसिंह राजकंवर बेवा मोहनसिंह 1/4 ओमसिंह पुत्र छीतरसिंह, दातारसिंह भवानीसिंह गिरधारीसिंह पि. देवीसिंह मोतीसिंह ज्ञानसिंह पि.

							पाबुदानसिंह 1/4 राजपूत सा. देह खातेदार
		90/1	निजी	बारानी 1	0.1880		मेगाराम पुत्र जोगाराम राईका सा. रियाबडी खातेदार
				योग	8.2242		
5. मेड़ता	(1) धामणिया	506	निजी	बारानी 1	0.1342		सीताराम पुत्र कानाराम घेवरी देवी पुत्री कानाराम 1/3, पन्नाराम पुत्र जालाराम 1/3, मांगुराम पुत्र जालाराम 1/3, कौम नायक सा. देह
		520	निजी	बारानी 1	0.1877		सीताराम पुत्र कानाराम घेवरी देवी पुत्री कानाराम 1/3, पन्नाराम पुत्र जालाराम 1/3, मांगुराम पुत्र जालाराम 1/3, कौम नायक सा. देह
		521	निजी	बारानी 1	0.3640		राजू देवी बेवा बीदूराम 2/3, जोगी पुत्र भीमा 1/3, कौम जाट सा. देह राजू देवी का हिस्सा रेहन एस.बी.बी.जे.शाखा रिया बडी
		522	निजी	गै. मु.	0.2500		राजू देवी बेवा बीदूराम 2/3, जोगी पुत्र भीमा 1/3, कौम जाट सा. देह राजू देवी का हिस्सा रेहन एस.बी.बी.जे.शाखा रिया बडी
		524	निजी	बारानी 1	0.0753		सीताराम पुत्र कानाराम घेवरी देवी पुत्री कानाराम 1/3, पन्नाराम पुत्र जालाराम 1/3, मांगुराम पुत्र जालाराम 1/3, कौम नायक सा. देह
		525	निजी	बारानी 1	0.1084		राजू देवी बेवा बीदूराम 2/3, जोगी पिता भीमा 1/3, कौम जाट सा. देह राजू देवी का हिस्सा रेहन एस.बी.बी.जे.शाखा रिया बडी
				योग	1.1195		
	(2) अरनियाला	165	निजी	गै. मु.	0.4012		गंगाराम पुत्र हरलाल जाति जाट 0.17 है. रामनिवास पुत्र नारायणराम जाति जाट 0.15 है. इन्द्रा पुत्र जमाल जाति तेली 0.08 है. योगेश्वर पुत्र बक्शाराम जाति जाट (डिडैल) 0.06 है. आशाराम पुत्र हंसाराम जाति जाट 0.08 अलानुर पुत्र इन्द्रा जाति तेली 0.08 है. बोफाराम संग्रामराम पि. रामपाल जाति बावरी 0.89 है. बस्तीराम जगदीश नेमाराम गजराज श्यामा चेनाराम पि. रुपाराम केलकी धर्मपत्नी स्व. रुपाराम जाती डोली 1.62 है. रामनिवास पुत्र नारायणराम जाति जाट 0.15 है. भंवराराम पुत्र मुगनाराम जाति जाट 3.53 है. रिधाराम पुत्र मुगनाराम जाति जाट 3.54 है. छोटाराम रामनिवास पि. निम्बाराम सोनी धर्मपत्नी स्व. निम्बाराम जाति 3.54 ग्राम पंचायत अरनियाला 2.42 है. शोकिन पुत्र बेली खां जाति तेली 0.08 है. चूतराराम पुत्र हंसाराम जाति जाट 0.08 है. शौकिन मोहम्मद बाबु हकीम सफी मोहम्मद खेरुन पिता स्व. बेलीखां जाति तेली 0.08 है. भंवरलाल पुत्र दयाराम राधा धर्मपत्नि स्व. दयाराम जाति ब्राह्मण 0.10 है. मूलाराम पुत्र हंसाराम जाति जाट 0.08 है. पन्नालाल पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण 0.08 है. पाबूराम पुत्र हंसाराम जाति जाट 0.08 है. पूनाराम घगडूराम हीराराम पि. मोहनलाल जाति नाई 0.14 है. योगेश्वर पुत्र बक्साराम जाति जाट 0.07 बालाराम पुत्र हंसाराम जाति जाट 0.03 है. ज्ञानेश्वर पुत्र बक्साराम जाति जाट 0.06 है. भंवरलाल पुत्र दयाराम जाति ब्राह्मण 0.20 है. मिसुखां गोद हजारी खां जाति तेली 0.08 जानकी पत्नी मिसाराम पाबूराम रुपाराम श्रीराम पि. मिसाराम जाति बावरी 0.08 शिवकरण प्रभूराम रामसुख पि. मूलाराम सुगनाई धर्मपत्नि स्व. मूलाराम जाति खाती 0.07 है.रहन ज.ना. आ. बैंक पादूकलां मूला लच्छा पि. हंसा जाति जाट 0.06 है. साबूखां भोलूखां अलीमोहम्मद पि. रहमान खां

				हसमत बानो धर्मपत्नि स्व. रहमान खां जाति तेली 0.08 है. रामनिवास पुत्र गंगाराम जाति जाट 0.16 है. रुपाराम पुत्र मीसाराम जाति बावरी 0.05 है. लालचन्द पुत्र रामपाल जाति सुनार 0.08 है. सुनील पुत्र शिवजीराम ना. बलिया कुदरती माता राधा धर्मपत्नि स्व. शिवजीराम जाति जाट 0.04 है. ज्ञानेश्वर पुत्र बक्साराम जाति जाट 0.07 है. हुसैन खां पुत्र जमाल खां जाति तेली 0.08 है. सा. देह , अलावा जोत नाकाबिल काश्त पायतन 9.72 है.
169	निजी	गै. मु. लाटा / बाडा	0.2350	अलावा जोत नाकाबिल काश्त लाटा 1.64 है. काशीराम सत्यनारायण बालमुकन्द पिता बिन्जराज जाति ब्राह्मण 0.20 है. कानाराम पुत्र मथुरालाल जाति ब्राह्मण 0.07 है. छोदू खां पुत्र जोरखां जाति सिपाही 0.03 है. धन्नाराम शान्तिलाल पि. सुरजकरण जाति नाई 0.08 है. निहाल खां पुत्र फतेह खां जाति सिपाही 0.02 है. भीमसिंह पुत्र प्रभूराम जाति जाट 0.04 है. मांगीलाल पुत्र मथुरालाल जाति ब्राह्मण 0.08 है. रामकुमार पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण 0.09 है. रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण 0.04 है. रामपाल पुत्र मोडाराम जाति बावरी 0.04 है. राजेन्द्रकुमार पुत्र भीमसिंह जाति जाट 0.08 है. शकुर खां पुत्र जोर खां जाति सिपाही राहिन ज. ना. ग्रा. आ. बैंक पादकलां 0.03 है. शिवरतन पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण 0.08 है. हरलाल पुत्र पीराराम जाति जाट 0.03 सा. देह
287	निजी	बारानी 1	0.3851	दामाराम पुत्र भंवराराम कौम जाट सा. देह रहन एस.बी.बी.जे शाखा रियांबडी
288	निजी	बारानी 1	0.0015	बाबूदेवी तुलसीराम शिवजीराम बुधाराम पि. गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार तुलसीराम बुधाराम व शिवजीराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता सिटी
289	निजी	बारानी 2	0.0966	बालुराम पुत्र नेनुराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह
290	निजी	बारानी 2	0.1890	नाथूराम पुत्र भागीरथ जाति जांगिड़ सा. देह
292	निजी	बारानी 2	0.1181	ओमप्रकाश पुत्र खींवराराम श्रीमती सीता धर्मपत्नि स्व. खींवराराम कौम जाट सा.देह रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता सिटी
293	निजी	बारानी 2	0.2577	आशाराम पुत्र हंसाराम जाति जाट सा. देह
294	निजी	बारानी 2	0.0857	भैरुराम पुत्र सुखदेव जाति जाट सा. देह रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पादकलां
300	निजी	बारानी 1	0.2661	काशीराम पुत्र उमाराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह रहन ग्रामीण आचलिक बैंक शाखा पादकलां
301	निजी	बारानी 1	0.1822	भैरुराम पुत्र सुखदेव जाति जाट सा. देह रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पादकलां
302	निजी	बारानी 1	0.1238	हुलसी धर्मपत्नि बालूराम तुलसीराम पुत्र बालूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता सिटी
304	निजी	बारानी 1	0.0373	काशीराम चम्पालाल पि. उमाराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह रहन ग्रामीण आचलिक बैंक शाखा पादकलां
306	निजी	बारानी 1	0.0200	भैरुराम पुत्र सुखदेव जाति जाट सा. देह रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पादकलां
307	निजी	बारानी 1	0.0981	हुलसी धर्मपत्नि बालूराम तुलसीराम पुत्र बालूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता सिटी
308	निजी	बारानी 2	0.1013	पेमाराम सत्यनारायण गणेश जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह
310	निजी	बारानी 2	0.0693	आशाराम पुत्र हंसाराम जाति जाट सा. देह
312	निजी	बारानी 1	0.0163	बन्शीराम पुत्र पूनाराम गेन्दुड़ी धर्मपत्नि स्व. पूनाराम जाति कुम्हार 0.81 है. रामेश्वरी

						धर्मपत्नि रामलाल कमला देवी धर्मपत्नि रामनिवास जाति जाट 0.74 है सा. देह कमला देवी का हिस्सा रहन युको बैक शाखा मेड़ता सिटी
313	निजी	गै. मु. आगौर/ बाडा	0.0251			तुलसीराम पुत्र रुपाराम नेमादेवी पत्नी रुपाराम जाति जाट 0.08 है. रहन नागौर भूमि विकास बैंक शाखा डेगाना तुलसीराम पुत्र रुपाराम नेमादेवी पत्नी स्व. रुपाराम तुलसीराम सत्यनारायण पिता बिरमाराम व माता घेवरी धर्म पत्नि स्व. बिरमाराम लक्ष्मीनारायण पुत्र शिवनारायण व माता रमली धर्म पत्नि स्व. शिवनारायण जाति जाट 0.08 है. सा. देह, अलावा जोत नाकाबिल काश्त अंगोर 1.19 है
314	निजी	बारानी 1	0.0706			दामाराम पुत्र भंवराराम कौम जाट (डिडेल) सा. देह रहन एस.बी.बी.जे शाखा रियांबडी
526	निजी	गै. मु. / बारानी 1	0.2217			अलवा जोत काबिल काश्त 2.88 है. खीयाराम पुत्र कमलाराम जाति जाट 0.04 है. रमजी शिवजी पुराराम रतना पिता किस्तुर जाति लुहार 0.05 है. बंशीलाल दतक पुत्र मांगीलाल जाति जाट 0.06 है. अल्लानूर पुत्र इन्दा जाति तैली 0.01 है. केशुडी पत्नी प्रभूराम जाति जाट 0.05 है. ओमप्रकाश पुत्र खीवराराम सीता धर्म पत्नी स्व. खीवराराम भीखाराम पुत्र खेताराम जाति जाट 0.06 है. भंवरलाल दतक पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल 0.04 है. शौकिन मोहम्मद बाबु हकीम सफी मोहम्मद खेरून पिता स्व. बेलीखां जाति तैली 0.02 है. शौकिन मोहम्मद बाबु हकीम सफी मोहम्मद खेरून पिता स्व. बेलीखां जाति तैली 0.02 है. लाली पत्नी खाजुदीन तैली 0.02 है. जोराराम पुत्र धुलाराम जाति रेगर 0.05 है. दयालराम ओमप्रकाश पिता शंकर पानकी धर्म पत्नी स्व. शंकर जाति रेगर 0.04 है. धर्मा भागु खाजु पिता शिवदान जाति मेघवाल 0.12 है. पिथाराम पुत्र सुजाराम जाति कुम्हार 0.05 है. प्रभुराम पुत्र रामकरण जाति जाट 0.05 है. शिवजीराम पुत्र पाबूराम जाति जाट 0.06 है. बगसाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट 0.05 है. बोफाराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार 0.02 है. भीखाराम पुत्र धन्नाराम जाति रेगर 0.05 है. अर्जुनराम शिवजीराम चौथाराम पिता भीयाराम पुत्र कानाराम जाति रेगर 0.04 है. भंवराराम पुत्र रमजीराम जाति जाट सा. देह 0.07 है. मांगीलाल मोदीराम पिता धन्नाराम जाति जाट 0.06 है. मांगुराम पुत्र शंकरराम जाति जाट 0.03 है. हीरा पुत्र जुगला जाति मेघवाल 0.04 है. कालूराम पदमाराम चैनाराम पिता मंगलाराम सायरी पत्नी मंगलाराम जाति मेघवाल 0.04 है. हरदीन अणदा मोहन पिता उरजा रमजी शिवजी पुराराम रतनाराम पिता किस्तुर जाति लवार 0.03 है. रेहमान खां पुत्र जमाल खां जाति तैली 0.04 है. हुक्माराम पुत्र पाबूराम जाति जाट 0.02 है. नाथूराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट 0.04 है. पुरखाराम पुत्र कानाराम जाति लुहार 0.05 है. बलदेवराम पुत्र भैरुराम जाति कुम्हार 0.04 है. भैरुराम पुत्र कानाराम 0.04 है. भैरुराम पुत्र कानाराम पुनाराम पुत्र भैरुराम जाति लुहार 0.06 है. हुसैन खां पुत्र जमाल खां जाति तैली 0.02 है. सा देह
671	निजी	बारानी 1	0.2487			रामकिशोर पुत्र रामदेव जानकी पत्नी स्व. रामदेव जाति जाट (बेड़ा) सा. देह सम्पूर्ण खाता रहन जयपुर थार ग्रामीण बैक शाखा पादू कलां
672	निजी	बारानी 1	0.2627			नाथीदेवी पत्नी स्व. अमराराम मोहनी देवी पुत्री

					अमराराम कौम जाट (बेड़ा) सा. देह
673	निजी	बारानी 1	0.1728		भैरूराम लखाराम पिता सोहनलाल भैरूराम लखाराम समु सावरी पिता सोहनलाल प्रेमादेवी पत्नी स्व. सोहनलाल तुलछाई पत्नी धन्नाराम नाथुराम पुत्र धन्नाराम मैसुडी धर्म पत्नी स्व. प्रभूराम जाति जाट सा. देह
675	निजी	बारानी 1	0.1989		डालाराम रतनाराम तुलसीराम सुक्ला पिता चन्द्राराम सायरी पत्नी स्व. चन्द्राराम बोफाराम पुत्र भागुराम जाति जाट सा. देह
676	निजी	बारानी 1	0.1199		सुगनाराम पुत्र पुनाराम जाति जाट सा. देह रहन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा पादकलां
682	निजी	बारानी 1	0.1968		देवकिशन पुत्र बादरमल कौम पंवार (दर्जी) सा. मेड़ता
683	निजी	बारानी 1	0.2396		देवकिशन पुत्र बादरमल कौम पंवार (दर्जी) सा. मेड़ता
687	निजी	बारानी 1	0.0833		रामकुमार कैलाश पिता हुक्माराम 0.49 है. रामनिवास पुत्र पाबूराम 0.49 है. शिवजीराम पुत्र पाबूराम 0.48 है. कौम जाट सा. देह रामनिवास शिवजीराम पिता पाबूराम का हिस्सा रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता सिटी
688	निजी	बारानी 1	0.0307		चम्पादेवी धर्म पत्नी शिवजीराम कौम जाट चैनदास पुत्र भंवरलाल जाति माली सा. बावडी चैनपुरा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
691	निजी	बारानी 1	0.0250		भैरूराम लखाराम पिता सोहनलाल भैरूराम लखाराम समु सावरी पिता सोहनलाल प्रेमादेवी पत्नी स्व. सोहनलाल तुलछाई पत्नी धन्नाराम नाथुराम पुत्र धन्नाराम मैसुडी धर्मपत्नी स्व. प्रभूराम जाति जाट सा. देह
692	निजी	बारानी 1	0.0183		नाथीदेवी पत्नी स्व. अमराराम मोहनी देवी पुत्री अमराराम कौम जाट (बेड़ा) सा. देह
171/744	निजी	बारानी 1	0.3507		रामलाल दामाराम बलदेवराम पिता भवराराम रिधाराम पुत्र मेधाराम तुलसीराम शिवजीराम बुधाराम पिता गणेशराम शिवदान पुत्र भोला नाथू पुत्र कौम जाट 6.62 है मूलाराम पुत्र भागुराम 1.21 है रामलाल रामनिवास बलदेवराम पिता गोकुलराम 0.04 है कौम जाट सा. देह मुगना पुत्र माघो जाति जाट 0.04 है (रामलाल दामाराम बलदेव के हिस्से में से चम्पालाल पुत्र आशाराम कौम खाती 0.16 है रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पादू कलां रामनिवास पुत्र हीरालाल कौम ब्राह्मण 0.08 है हरलाल पुत्र पीराराम जाट (बेड़ा) 0.16 है) (तुलसीराम शिवजीराम बुधाराम के हिस्से में से घश्याम पुत्र काशीराम कौम खाती 0.01 है रामलाल रामनिवास बलदेवराम पिता गोकुलराम 0.16 है कौम जाट भैरूराम पुत्र सुखदेव कौम जाट 0.09 है सीता देवी पत्नी तुलसीराम कौम जाट 0.16 है) मूलाराम का हिस्सा रहन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा पादू कलां
305/760	निजी	बारानी 1	0.0752		काशीराम पुत्र उमाराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा. देह रहन ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा पादू कलां
294 / 758	निजी	गै. मु.सडक	0.0200		भैरूराम पुत्र सुखदेव जाति जाट सा. देह रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पादू कलां
			योग	5.0444	
(3) लाम्पोलाई					
997	निजी	बारानी 2	0.2587		अल्कादेवी पत्नी ओमप्रकाश कौम ब्राह्मण, सीतादेवी पत्नी पूणाराम कौम कुम्हार, सीता देवी पत्नी राधाकृष्ण कौम मेघवाल सा. देह
999	निजी	बारानी 4	0.2991		रामेश्वरलाल अमरचन्द पिता रामगोपाल कौम ब्राह्मण, चिडी देवी पत्नी धर्मराम मेघवाल सा. देह

				1003	निजी	बारानी 4	0.0010	जुगलकिशोर पुत्र चतुर्भुज रामप्रसाद पुत्र शिवनारायण, जगदीश प्रसाद खोले चुन्नीलाल राम कन्या पुत्री शिवनारायण पत्नी देवीलाल कौम ब्राह्मण सा. देह, बालूराम कानाराम पिता गणेशलाल प्रभुनारायण पिता छगनाराम कौम मेघवाल सा. देह, मंगलाराम पुत्र नारायण हजारी रत्ना सोहन अर्जुन पिता रामदीन कौम लौहार, भीयाराम पुत्र भोलाराम कौम जाट सा. देह
				1005	निजी	बारानी 4	0.0848	पुनाराम पुत्र भोलाराम कौम जाट, बालूराम पुत्र गणेशराम कौम मेघवाल, मंगलाराम पुत्र नारायणराम हजारी रतना सोहन अर्जुन पिता रामदीन लौहार, भीयाराम भोलाराम जाट सा. देह
				1007	निजी	बारानी 2	0.2742	राजेन्द्रकुमार पुत्र केदारमल कौम ब्राह्मण सा. देह
				1008	निजी	बारानी 2	0.2000	मोतीलाल पुत्र मोहनलाल कौम दर्जी सा. देह खातेदार
				1011	निजी	बारानी 2	0.0018	गोरकी रसालदेवी पत्नीयां नारायणराम, सुशील ओमप्रकाश राजूराम पिता नारायणराम कोम जाट सा. देह
				1024	निजी	गै. मु.बेरा	0.0035	काशीराम पुत्र बीजराज कौम ब्राह्मण सा. अरनियाला
				1025	निजी	बारानी 2	0.0790	काशीराम पुत्र बीजराज कौम ब्राह्मण सा. अरनियाला
				1025/1	निजी	बारानी 2	0.0463	भंवरी देवी पत्नी मांगीलाल कौम साद सा. देह
				1028	निजी	बारानी 2	0.0889	सन्तोष पत्नी गोविन्दलाल कौम ब्राह्मण सा. अरनियाला
				1029	निजी	बारानी 2	0.2686	श्रीनारायण राधेश्याम गुलाबचन्द पिता भुरा, मुरलीधर पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामदेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, झुथाराम पुत्र पुराराम जाति माली सा. नीदड त. आमेर जिला जयपुर, सन्तोष पत्नी गोविन्दराम कौम ब्राह्मण सा. देह
				1030	निजी	बारानी 2	0.0679	श्रीमती ग्यारसी पत्नी चेतन लुणाराम पुत्र चेतन कौम रेगर सा. देह
				1032	निजी	बारानी 2	0.1171	ओमप्रकाश पिता खिवराज कौम जाट सा. अरनीयाला
				1033	निजी	बारानी 2	0.1687	काशीराम पुत्र बीजराज कौम ब्राह्मण सा. अरनियाला
				1034	निजी	बारानी 2	0.1172	श्रीनारायण राधेश्याम गुलाबचन्द पिता भुरा, मुरलीधर पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामदेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, झुथाराम पिता पुराराम जाति माली सा. नीदड त. आमेर जिला जयपुर
				1036	निजी	बारानी 2	0.0666	काशीराम पुत्र बीजराज कौम ब्राह्मण सा. अरनियाला
				1037	निजी	बारानी 2	0.1147	श्रीमती ग्यारसी पत्नी चेतन प्रकाश पिता चेतन कौम रेगर सा. देह
				1038	निजी	बारानी 2	0.0225	श्रीनारायण राधेश्याम गुलाबचन्द पिता भुरा, मुरलीधर पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामदेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, झुथाराम पिता पुराराम जाति माली सा. नीदड त. आमेर जिला जयपुर
				1039	निजी	बारानी 2	0.2377	श्रीनारायण राधेश्याम गुलाबचन्द पिता भुरा, मुरलीधर पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामदेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, झुथाराम पुत्र पुराराम जाति माली सा. नीदड त. आमेर जिला जयपुर, सन्तोष पत्नी गोविन्दराम कौम ब्राह्मण सा. देह
				1044	निजी	गै. मु.बेरा	0.0013	श्रीनारायण राधेश्याम गुलाबचन्द पिता भुरा, मुरलीधर पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामदेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, झुथाराम पिता

							पुराराम जाति माली सा. नीदड त. आमेर जिला जयपुर
			1045	निजी	बारानी 2	0.1151	श्रीनारायण राधेश्याम गुलाबचन्द पिता भुरा, मुरलीधर पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामदेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, झुथाराम पिता पुराराम जाति माली सा. नीदड त. आमेर जिला जयपुर
			1046	निजी	बारानी 2	0.0757	मोतीलाल पुत्र मोहनलाल कौम दर्जी सा. देह
			1047	निजी	बारानी 2	0.0152	निम्बाराम गिरधारीराम पिता पुनाराम कौम जाट भीमराज पुत्र पुनाराम कौम जाट सा. देह
			1048	निजी	बारानी 2	0.0365	निम्बाराम गिरधारीराम पिता पुनाराम कौम जाट सा. देह
			1050	निजी	बारानी 3	0.0406	रामेश्वरलाल अमरचन्द पिता रामगोपाल कौम ब्राह्मण सा. देह
			1053	निजी	बारानी 4	0.2508	रामेश्वरलाल अमरचन्द पिता रामगोपाल कौम ब्राह्मण सा. देह
			1054	निजी	बारानी 4	0.2065	रामस्वरूप पुत्र पांचाराम, शिवदयाल सुशील पिता मुलतानराम, केशर देवी पत्नी मुलतानराम कौम जाट सा. देह
			1055	निजी	बारानी 4	0.0746	रामस्वरूप पुत्र पांचाराम, शिवदयाल सुशील पिता मुलतानराम, केशर देवी पत्नी मुलतानराम कौम जाट सा. देह
			1028/1781	निजी	गै. मु. रास्ता	0.0162	भागीरथ पुत्र दयालराम कौम जाट सा. खेड़ा किशनपुरा
			1028/1780	निजी	बारानी 2	0.1821	सन्तोषदेवी पत्नी गोविन्दराम कौम ब्राह्मण सा. अरनियाला
			1049/1786	निजी	बारानी 2	0.0335	भीमराज पुत्र पुनाराम कौम जाट सा. देह
			1049/1788	निजी	बारानी 2	0.0188	गोपालदास पुखराज किशन लाल पिता मुलदास बिदामी पत्नी मुलदास कौम साद सा. देह
			997/1794	निजी	बारानी 2	0.1732	खीवराज पुत्र भवानाराम कौम जाट सा. देह
					योग	3.7585	
	(4)	डांगावास	1665	निजी	बारानी सोयम	0.0050	मूलाराम पांचाराम छोटाराम पिता बक्साराम तीजणी पत्नी स्व. बक्साराम कौम जाट (जाजड़ा) सा. देह
			1666	निजी	बारानी सोयम	0.1188	रामपाल टोडाराम पिता घीसाराम रामकरण पुत्र रामचन्द्र तीजी देवी पुत्री रामचन्द्र शान्ती देवी धर्मपत्नी स्व.छोटाराम सुखराम सीताराम पिता छोटाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
			1667	निजी	बारानी सोयम	0.2915	चन्द्राराम पुत्र पेमाराम कौम रेगर सा.देह
			1668	निजी	बारानी सोयम	0.0030	चन्द्राराम पुत्र पेमाराम कौम रेगर सा.देह
			1678	निजी	बारानी सोयम	0.0800	अनिरुद्ध पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम महाजन(जैथलिया) सा. देह
			1679	निजी	बारानी सोयम	0.0117	रूपम टाउन से प्राईवेट लि. जयपुर रूपम एन्क्लव प्लॉट नं. 15 अम्बा बाडी सीकर रोड जयपुर जरीये डाईरेक्टर रघुवीर सिंह पुत्र रूपसिंह शेखावत कौम राजपूत सा. जयपुर बाबुलाल पुत्र मांगीलाल कौम खटीक (दायमा) सा. मेड़ता सिटी
			1682	निजी	बारानी सोयम	0.1031	नरबदा देवी धर्मपत्नी गणपतलाल कौम ब्राह्मण सा.देह अनिरुद्ध पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम महाजन (जैथलिया) सा. देह
			1684	निजी	बारानी सोयम	0.2723	रामेश्वरी पत्नी हरसाराम कौम जाट सा. देह
			1688	निजी	बारानी सोयम	0.1210	भबुतराम पुत्र भंवरलाल कौम जाट (कमेडिया) सा. देह ढगलीदेवी धर्म पत्नी मांगीलाल गिरधारीराम राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल कोम जाट (कमेडिया) सा. देह सरोज धर्म पत्नी मुकेश कोम अग्रवाल सा. मेड़ता सिटी
			1690	निजी	बारानी सोयम	0.0960	संजय कुमार सरवटे पुत्र कानाराम कौम महतर सा. मेड़तारोड

				1691	निजी	बारानी सोयम	0.0349	भंवरलाल पुत्र जीवणदास दिवाकर रणछोडदास पिता भैरुमल कौम. पुष्करणा ब्राह्मण (जोशी) भंवरलाल दिवाकर पिता जीवणदास कौम वैष्णव सा. मेड़ता
				1694	निजी	बारानी सोयम	0.0933	भंवरलाल पुत्र जीवणदास दिवाकर रणछोडदास पिता भैरुमल कौम. पुष्करणा ब्राह्मण (जोशी) भंवरलाल दिवाकर पिता जीवणदास कौम वैष्णव सा. मेड़ता
				1695	निजी	बारानी सोयम	0.0896	भंवरलाल पुत्र जीवणदास दिवाकर रणछोडदास पिता भैरुमल कौम. पुष्करणा ब्राह्मण (जोशी) भंवरलाल दिवाकर पिता जीवणदास कौम वैष्णव सा. मेड़ता
				1696	निजी	बारानी सोयम	0.0400	रामदेव पुत्र शिवलाल कौम जाट (खदाव) सा. देह
				1697	निजी	बारानी सोयम	0.0881	रामदेव पुत्र शिवलाल कौम जाट (खदाव) सा. देह
				1708	निजी	चाही 1	0.0616	जोराराम पुत्र हीराराम कौम जाट (डांगा) सा. देह
				1709	निजी	चाही 1	0.0278	सावलराम पुत्र चन्द्राराम दाखूडी पत्नी चन्द्राराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन ना.स.भू.वि. बैक शाखा डेगाना
				1710	निजी	चाही 1	0.1377	सावलराम पुत्र चन्द्राराम दाखूडी पत्नी चन्द्राराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन ना.स.भू.वि. बैक शाखा डेगाना
				1711	निजी	चाही 1	0.0934	सावलराम पुत्र चन्द्राराम दाखूडी पत्नी चन्द्राराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन ना.स.भू.वि. बैक शाखा डेगाना
				1712	निजी	चाही 1	0.0239	हरसाराम पुत्र बिजाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1713	निजी	चाही 1	0.1490	हरसाराम पुत्र बिजाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1716	निजी	चाही 1	0.0123	परमादेवी धर्म पत्नी रामजीवण कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				3247/3245	निजी	चाही 1	0.0313	रामअवतार पुत्र हरजीराम कौम जाट (भाम्बु) सा. लाम्बा जाटान
				3245/1716	निजी	चाही 1	0.0243	मांगीलाल पुत्र मुकनाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1717	निजी	चाही 1	0.0075	परमादेवी धर्म पत्नी रामजीवण कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1718	निजी	बारानी सोयम	0.0159	परमादेवी धर्म पत्नी रामजीवण कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				3246/1718	निजी	बारानी सोयम	0.0240	चान्दुडी देवी धर्म पत्नी रामनिवास कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1720	निजी	बारानी सोयम	0.0605	रामेश्वरी धर्म पत्नी पुखराज कौम जाट (धोलीया) सा. देह प्राचीसिंह पुत्री भागीरथ कौम जाट सा. पालीयास
				1723	निजी	बारानी सोयम	0.0482	सध्या पत्नी सीधराज कौम ओसवाल (मेहता) सा. मेड़ता
				2039	निजी	चाही 1	0.6988	रामकरण पुत्र रामचन्द्र कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				2041	निजी	चाही 1	0.0453	शंकरराम प्रभूराम पिता लालाराम कौम जाट (डांगा) सा. देह
				2045	निजी	चाही 1	0.4296	गोरधनराम डूगाराम पिता प्रभूराम शान्ती देवी पत्नी झुमरराम कौम जाट (डांगा) सा. देह
				2046	निजी	चाही 1	0.4532	झुमरराम अमराराम पिता शंकरलाल केलकी देवी पत्नी शंकरलाल प्रेमराम पुत्र रामनाथ गोगादेवी पत्नी रामनाथ कौम जाट (डांगा) सा. देह
				2248	निजी	चाही 2	0.4489	परसाराम पुत्र बफाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन एस.बी.बी.जे शाखा मेड़ता सिटी
				2274	निजी	चाही 1	0.3304	श्रीनिवास पुत्र रामनिवास सुमन पत्नी रामनिवास पुनम पुत्री रामनिवास कौम जाट (कमेडिया) सा. देह

				2277	निजी	बारानी सोयम	0.0777	भवरलाल पुत्र भबुतराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				2278	निजी	बारानी सोयम	0.0809	शिवकरण पुत्र लालाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				2279	निजी	बारानी सोयम	0.3884	शिवकरण पुत्र लालाराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				2280	निजी	बारानी सोयम	0.2802	चेतनराम पुत्र जस्साराम जयप्रकाश पुत्र रामपाल कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				2283	निजी	बारानी सोयम	0.0794	चेतनराम पुत्र जस्साराम जयप्रकाश पुत्र रामपाल कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				2316	निजी	चाही 1	0.3930	ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल सीणगारी धर्म पत्नी स्व. सोहनलाल जाट (कमेडिया) सा. देह
				2319	निजी	चाही 1	0.0398	ओमप्रकाश पुत्र शुभकरण कौम जाट (गटेला) सा. देह
				2320	निजी	चाही 1	0.4249	मांगुराम पुत्र भूराराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता
				2327	निजी	चाही 1	0.5397	मांगुराम पुत्र भूराराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता
				2330	निजी	चाही 1	0.2016	रामनिवास पुत्र मांगीलाल कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता
				2331	निजी	चाही 1	0.0078	रामनिवास पुत्र मांगीलाल कौम जाट (कमेडिया) मांगुराम पुत्र भूराराम कौम जाट (कमेडिया) जिमनाई पत्नी पृथ्वीराज संजय यशपाल पिता पृथ्वीराज ललिता पुत्री पृथ्वीराज कौम जाट (गटेला) सा. देह मांगुराम का हिस्सा रहन ना.स.भू.वि. बैक शाखा डेगाना रामनिवास का हिस्सा रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता
				2332	निजी	चाही 1	0.4297	रामनिवास पुत्र मांगीलाल कौम जाट (कमेडिया) मांगुराम पुत्र भूराराम कौम जाट (कमेडिया) जिमनाई पत्नी पृथ्वीराज संजय यशपाल पिता पृथ्वीराज ललिता पुत्री पृथ्वीराज कौम जाट (गटेला) सा. देह मांगुराम का हिस्सा रहन ना.स.भू.वि. बैक शाखा डेगाना रामनिवास का हिस्सा रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता
				2333	निजी	चाही 1	0.1481	मांगुराम पुत्र भूराराम कौम जाट (कमेडिया) जिमनाई पत्नी पृथ्वीराज संजय यशपाल पिता पृथ्वीराज ललिता पुत्री पृथ्वीराज कौम जाट (गटेला) सा. देह
				2334	निजी	चाही 1	0.0390	मांगुराम पुत्र भूराराम कौम जाट (कमेडिया) जिमनाई पत्नी पृथ्वीराज संजय यशपाल पिता पृथ्वीराज ललिता पुत्री पृथ्वीराज कौम जाट (गटेला) सा. देह
				2337	निजी	चाही 1	0.1273	रामनिवास पुत्र मांगीलाल कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता
				2422	निजी	चाही 2	1.0835	मोहनपुरी पुत्र शंकरपुरी कौम गुसाई सा. देह 9.60 है. सीतादेवी पुत्री मोहनपुरी हरलालपुरी दीनापुरी शिवदानपुरी दसरथपुरी पिता भलापुरी शोभा सुशीला पुत्रीया भलापुरी नीरुदेवी पत्नी स्व. भलापुरी कौम गुसाई सा. देह 2.02 है. हरलालपुरी दीनापुरी शिवदानपुरी दसरथपुरी पिता स्व. भलापुरी शोभा सुशीला पुत्रीया स्व. भलापुरी नीरुदेवी पत्नी स्व. भलापुरी कौम गुसाई सा. देह हरलालपुरी दीनापुरी शिवदानपुरी दसरथपुरी पिता स्व. भलापुरी शोभा सुशीला पुत्रीया स्व. भलापुरी नीरुदेवी पत्नी स्व. भलापुरी का हिस्सा रहन युको बैक शाखा मेड़ता सिटी
				2428	निजी	चाही 1	0.0763	पुखराज पुत्र रामबक्स कौम जाट (कमेडिया) सा. देह

				2431	निजी	चाही 1	1.0971	पतासी पत्नी स्व. मोतीराम पक्काराम पुत्र मोतीराम सीतादेवी पत्नी स्व. सुगनाराम मनीष रविन्द्र पिता सुगनाराम कौम जाट (टाडा) सा. देह
				2461	निजी	चाही 1	0.1222	हरसुख मनसुख सुमन्त रामकुमार पुत्र नेमाराम रामकन्या पत्नी नेमाराम कौम जाट (धोलिया) रहन युको बैक मेड़ता सिटी सा. देह
				2462	निजी	चाही 1	0.2048	चनाराम पुत्र भंवराराम कौम जाट (धोलिया) सा. देह
				2463	निजी	चाही 1	0.2662	प्रेमाराम पुत्र भंवराराम काम जाट (धोलिया) सा. देह
				2464	निजी	चाही 1	0.2773	हरसुख मनसुख सुमन्त रामकुमार पुत्र नेमाराम रामकन्या पत्नी नेमाराम कौम जाट (धोलिया) रहन युको बैक मेड़ता सिटी सा. देह
				2466	निजी	चाही 1	0.2890	डूंगाराम पुत्र भंवराराम कौम जाट (धोलिया) सा. देह
				2469	निजी	चाही 1	0.0026	रामपाल डूंगाराम शंकरराम पिता घीसाराम कौम जाट (जाजड़ा) सा. देह डूंगाराम रामपाल का हिस्सा रहन युको बैक शाखा मेड़ता सिटी
				2477	निजी	चाही 2	0.4995	सुनिता पत्नी स्व. रामदेव प्रियंका पुत्री स्व. रामदेव राजवीर रणवीर पिता स्व. रामदेव ना. बा. बली माता सुनिता पत्नी स्व. रामदेव कौम जाट (टाडा) सा. देह
				2476	निजी	चाही 1	0.7785	जयप्रकाश ओमप्रकाश पिता शिवकरण कौम जाट (टाडा) जयप्रकाश ओमप्रकाश का हिस्सा रहन बैक ऑफ बड़ौदा शाखा मेड़ता सा. देह
				2481	निजी	चाही 2	0.0064	जयप्रकाश ओमप्रकाश पिता शिवकरण कौम जाट (टाडा) जयप्रकाश ओमप्रकाश का हिस्सा रहन बैक ऑफ बड़ौदा शाखा मेड़ता सा. देह
				2506	निजी	चाही सोयम	0.5546	सोहनलाल पुत्र रामबक्स कौम जाट (कमेडिया) रहन एस.बी.बी.जे बैक शाखा मेड़ता सिटी सा. देह
				2507	निजी	गै. मु. टयुबवेल	0.0047	सोहनलाल पुत्र रामबक्स कौम जाट (कमेडिया) रहन एस.बी.बी.जे बैक शाखा मेड़ता सिटी सा. देह
				2511	निजी	बारानी सोयम	0.1865	मुगनाराम राजूराम भीखाराम बंशीलाल पिता स्व. हेमाराम चुकली पत्नी स्व. हेमाराम जाट सा. देह
				2512	निजी	चाही सोयम	0.1990	सोहनलाल पुत्र रामबक्स कौम जाट (कमेडिया) रहन एस.बी.बी.जे बैक शाखा मेड़ता सिटी सा. देह
				2531	निजी	चाही 2 / बारानी 2	0.4759	भीयाराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) सुखराम पुत्र चन्द्राराम कौम जाट (धोलिया) अर्जुनराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) भीखाराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह भीयाराम पुत्र हरीराम का हिस्सा रहन युको बैक मेड़ता सिटी
				2532	निजी	चाही 2 / बारानी 2	0.0386	भीयाराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) सुखराम पुत्र चन्द्राराम कौम जाट (धोलिया) अर्जुनराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) भीखाराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह भीयाराम पुत्र हरीराम का हिस्सा रहन युको बैक मेड़ता सिटी
				2533	निजी	चाही 2 / बारानी 2	0.4277	भीयाराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) सुखराम पुत्र चन्द्राराम कौम जाट (धोलिया) अर्जुनराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) भीखाराम पुत्र हरीराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह भीयाराम पुत्र हरीराम का हिस्सा रहन युको बैक मेड़ता सिटी
				2534	निजी	चाही 1	0.3026	रामनिवास दत्तक पुत्र नारायणराम कौम जाट (कमेडिया) सा. देह रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता
				2535	निजी	चाही 1	1.0988	रामनारायण पुत्र बुधाराम कौम जाट (जाजड़ा) सा. देह

				2540	निजी	चाही 1	0.0053	रामनिवास दत्तक पुत्र नारायणराम कौम जाट (कमेडिया) सा देह रहन एस.बी.आई शाखा मेड़ता
				2279 / 2925	निजी	बारानी सोयम	0.0020	चेतनराम पुत्र जस्साराम जयप्रकाश पुत्र रामपाल कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1676/3023	निजी	बारानी सोयम	0.0652	रामकरण पुत्र रामचन्द्र कौम जाट (कमेडिया) सा. देह
				1695/2934	निजी	बारानी सोयम	0.1000	भंवरलाल पुत्र जीवणदास दिवाकर रणछोडदास पिता भैरुमल कौम. पुष्करणा ब्राह्मण (जोशी) भंवरलाल दिवाकर पिता जीवणदास कौम वैष्णव सा. मेड़ता
				1723/3019	निजी	बारानी सोयम	0.0035	मुन्नी बेगम परिहार पत्नी मजीद खां परिहार कौम मुसलमान सा. 27/9 ओल्ड राजेन्द्र नगर नई दिल्ली
						योग	15.9973	
	(5) मेड़ता			3833	निजी	चाही सोयम	0.0255	डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजा सा. देह
				3834	निजी	चाही सोयम	0.0300	डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजा सा. देह
				3835	निजी	चाही सोयम	0.3695	चुका देवी पत्नी शंकरलाल पुत्र प्रेमराम कौम माली 0.84 मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद सफीरजा कौम मुसलमान (बन्दुकिया लुहार) 0.58 सा. देह
				4241	निजी	चाही सोयम	0.1248	उषा देवी पत्नी भंवरलाल कौम वैष्णव सा . कात्यासनी
				4242	निजी	चाही सोयम	0.2855	मंजू देवी पत्नी कैलाश चन्द कौम घोंची (बोराणा) सा. देह प्रेमवती पत्नी कैलाशचन्द कौमा घोंची सा कुचेरा कैलाश चन्द्र पुत्र बंशीलाल कौम घोंची (बोराणा) सा. देह चंचल देवी पत्नी हंसराज भाटी कौम घाची (बोराणा) सा. देह
				4243	निजी	चाही सोयम / बारानी सोयम	1.0969	मंजू देवी पत्नी कैलाश चन्द कौम घोंची (बोराणा) सा. देह प्रेमदेवी पत्नी कैलाशचन्द कौमा घोंची सा कुचेरा कैलाश चन्द्र पुत्र बंशीलाल कौम घोंची (बोराणा) सा. देह चंचल देवी पत्नी हंसराज भाटी कौम घाची (बोराणा) सा. भगत की कोठी जौघपुर नेनी देवी पत्नी बंशीलाल कौम घोंची (बोराणा) सा. देह
				4244	निजी	गै. मु.	0.0132	डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजा सा. देह
				4246	निजी	बारानी सोयम	0.6295	मंजू देवी पत्नी कैलाश चन्द कौम घोंची (बोराणा) सा. देह प्रेमवती पत्नी कैलाशचन्द कौमा घोंची सा कुचेरा कैलाश चन्द्र पुत्र बंशीलाल कौम घोंची (बोराणा) सा. देह चंचल देवी पत्नी हंसराज भाटी कौम घाची (बोराणा) सा. देह
				4247	निजी	बारानी सोयम	0.7819	मंजू देवी पत्नी कैलाश चन्द कौम घोंची (बोराणा) सा. देह प्रेमवती पत्नी कैलाशचन्द कौमा घोंची सा कुचेरा कैलाश चन्द्र पुत्र बंशीलाल कौम घोंची (बोराणा) सा. देह चंचल देवी पत्नी हंसराज भाटी कौम घाची (बोराणा) सा. देह
				4260	निजी	चाही सोयम	0.0361	हुक्मीचन्द गिरधारीलाल पिता शंकरलाल कौम सेवग सा. देह
				4262	निजी	चाही सोयम / बारानी सोयम	0.7073	लीला देवी उर्फ लालु पत्नी गिरधारी लाल कौम सेवग सा. देह
				4277	निजी	बारानी सोयम	0.2842	सुरेन्द्र पुत्र रामकरण ना.बा. बली पिता रामकरण पुत्र धन्नाराम गोपालसिंह पुत्र इन्द्रराज ना.बा बली पिता इन्द्रराज पुत्र धन्नाराम कौम जाट (जाजड़ा) सा. डांगावास
				4278	निजी	चाही सोयम	0.7821	भैरुराम पुत्र खींवरज 1.62 है. शंकरराम पुत्र खींवरज 1.62 है. भैरुराम शंकरराम पिता

						खींवराज 0.07 है. कौम जाट सा. डांगावास कौशल्या देवी पत्नी चन्द्रशेखर मुन्नी पत्नी रामनारायण कौम ब्राह्मण 3.31 है. सा. देह भेरुराम पुत्र खींवराज 3.19 है. शंकरलाल पुत्र खींवराज 1.69 है. भेरुराम शंकरलाल पिता खींवराज 0.09 है. कौम जाट सा. डांगावास शंकरलाल का हिस्सा रहन युको बैंक मेड़ता सिटी
4279	निजी	बारानी सोयम	0.4957			बुधाराम पिता सावलराम कौम रेगर सा.देह
4592	निजी	चाही सोयम	0.6415			रामकंवरी पत्नी रामकरण कौम जाट (जाजड़ा) सा. डांगावास रामअवतार पुत्र उकाराम रुकमाई पत्नी उकाराम कौम खाती सा. डांगावास
4595	निजी	चाही सोयम	0.3973			धन्नाराम पुत्र डोडाराम कौम जाट सा. डांगावास रहन युको बैंक शाखा मेड़ता
4560	निजी	चाही सोयम	0.0197			रामपाल गेवाराम भभूतराम मदनलाल पिता हजारीराम कौम जाट सा. डांगावास
4561	निजी	चाही सोयम	0.4611			सीताराम उर्फ वीरू पिता बस्तीराम कौम धानका सा. देह
4562	निजी	चाही सोयम	0.7245			भेरुराम ताराचन्द भंवरलाल पिता आशाराम सोहनलाल हड़मान खींवराज पिता श्यामलाल बिरजुदेवी पत्नी श्यामलाल कौम रेगर सा. देह
4563	निजी	चाही सोयम	0.0390			डोली बनाम मन्दिर बड़वासन माता जी सा. देह
4580	निजी	बारानी सोयम	0.0533			मेगाराम पिता चौथाराम कौम माली सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता सिटी
4581	निजी	बारानी सोयम	0.6780			मेगाराम पिता चौथाराम कौम माली सा. देह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा मेड़ता सिटी
4583	निजी	चाही सोयम	0.7455			मुक्ता जैन पत्नी सागरमल हीरा जैन पत्नी शान्तीलाल कौम ओशवाल सा. देह रहन एस. बी.बी.जे. शाखा मेड़ता सिटी
4589	निजी	चाही 2	0.1914			संदीप कुमार पुत्र सुरेश चन्द कौम ओशवाल सा. चेन्नई
4588	निजी	चाही 2	0.3456			जमेला पत्नी मुस्तक स्या सा. देह
4241/5239	निजी	चाही सोयम	0.1894			मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद सफीरजा कौम मुसलमान (बन्दुकीया) लुहार सा. देह
4243/5160	निजी	चाही सोयम	0.2133			मंजू देवी पत्नी कैलाश चन्द कौम घोंची (बोराणा) सा. देह प्रेमवती पत्नी कैलाशचन्द कौम घोंची सा कुचेरा कैलाश चन्द पुत्र बंशीलाल कौम घोंची (बोराणा) सा. देह चंचल देवी पत्नी हंसराज भाटी कौम घाची (बोराणा) सा. देह
4589/5261	निजी	चाही 2	0.1008			जमेला पत्नी मुस्तक स्या सा. देह
		योग	10.4625			
		महायोग	218.3235			

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी-II/1012/01/2007-एलए]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3466(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 606 (E), dated 11th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / two laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 458 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km 139.900 in the District Nagaur in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Rajasthan Patrika”, both dated the 14th April, 2013, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 0.000 to km 139.900 (Nimbijodha - Jassakhara section) of the National Highway No. 458 in the state of Rajasthan

Serial number	Name of district	Name of taluk/tehsil	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare)	Name of the Interested Person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nagaur	1. Ladnun	(1) Nimbijodha	1075	Private	Barani Alif	0.1796	Nani Devi w/o Bhivaram Khileri, cast - Jat, 106/540, 12/180 Shravan Das s/o Chandra Das, cast -Swami, Brijmohan s/o Motiram, cast - Jat, share 20/180, R/O Jashwantgarh 12/180, Laxmanram, Nandkishore, Munaram s/o Rampal, Surajmal s/o Pratap, cast Lakhara, share 1/3, R/O Khatedar
				1474	Private	Barani Alif	0.0272	Jetmal s/o Kisturchand, cast Darji, Gajendra Singh s/o Gopal Singh, cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar
				1489	Private	Barani Alif	0.0266	Bajarang Singh s/o Pokar Singh, cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar
				1490	Private	Barani Alif	0.4941	Narayan Singh s/o Panne Singh, cast - Daroga, 7/10, Bajarang Singh s/o Pokar Singh, cast - Daroga, 3/10, R/o Khatedar
				1491	Private	Barani Alif	0.0728	Bajarang Singh s/o Pokar Singh, cast - Daroga, 3/10, R/o Khatedar
				1492	Private	Barani Alif	0.2052	Pukhraj, Girdhari, Mulchand, Mohan Lal s/o Tola Ram, Chhoti Devi w/o Tola Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				1518	Private	Barani Alif	0.1585	Sohani Devi w/o Late. Narayan Ram, Bhawara Ram, Muna Ram, Rupa Ram, Hanuman Ram, Hira Lal, Omprakash s/o Narayan Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				1518/1	Private	Barani Alif	0.1060	Chenaram s/o Purna Ram, R/o Khatedar
				1520	Private	Barani Alif	0.1087	Redu Ram, Ganga Ram s/o Bhugana Ram, Rameshwar s/o Harka Ram, Ganga w/o Hakram, Ramkaran s/o Birma Ram, Kesar Devi w/o Bhugana Ram, Bhagu Ram, Ramdev, Badri Lal s/o Misram, cast - Lawar, R/o Khatedar
				1577	Private	Barani Alif	0.4978	Bhawar Lal, Chhota Ram, Ram Niwas s/o Bhagirath Ram, Magani Devi w/o Bhagirath Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				1577/1	Private	Barani Alif	0.1758	Bhawar Lal, Chhota Ram, Ram Niwas s/o Bhagirath Ram, Magani Devi w/o Bhagirath Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				1577/2	Private	Barani Alif	0.1316	Bhawar Lal, Chhota Ram, Ram Niwas s/o Bhagirath Ram, Magani Devi w/o Bhagirath Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				1580	Private	Barani Alif	0.2182	Radheshyam, Madangopal s/o Nathmal, Mahalchand s/o Bakshi Ram, cast-Brahman, R/o Khatedar, 15 Bigha, Jagdish Prasad, Subhash Chand, Hanuman s/o Ram Niwas, 47 Bigha, cast

				- Lakhara, Surajmal s/o Parta Ram, 61 Bigha, 19 Biswa, cast - Lakhara, R/o Khatedar, Surjmal, Share Rahan JNJ Bank Nimbijidha, Murtheen
1583	Private	Barani Alif	0.1795	Rameshwar God s/o Ganpat Ram, Radha w/o Ganpat Ram, Lichhaman, Rugnath s/o Sardara Ram, Bhawar Singh, Shyam Singh s/o Hadman, Ramidevi w/o Hadman, Kana Ram s/o Giluram, Cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar, Mortgage -Kanaram, Share SBI Branch Ladanu
1585	Private	Barani Alif	0.1480	Rameshwar God s/o Ganpat Ram, Radha w/o Ganpat Ram, Lichhaman, Rugnath s/o Sardara Ram, Bhawar Singh, Shyam Singh s/o Hadman, Ramidevi w/o Hadman, Kana Ram s/o Giluram, Cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar, Mortgage -Kanaram, Share SBI Branch Ladanu
1641	Private	Barani Alif	0.2496	Ghewar Ram, Hari Ram, Nemichand s/o Ganga Ram, Cast - Jangid Brahman, R/o Khatedar
1642	Private	Barani Alif	0.1319	Sita Ram s/o Mangi Lal, Nani Devi w/o Mangi Lal, Cast - Jagid Brahman, R/o Khatedar
1643	Private	Barani Alif	0.1765	Bani Devi w/o Mohan Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
1644	Private	Barani Alif	0.1954	Bhawar Lal, Shravan s/o Mohan Ram, Kalu Ram s/o Dula Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
1660	Private	Barani Alif	0.2106	Omdas s/o Janaki Das, cast - Sad, Rahan sahare Omdas SBBJ Branch Ladanu
1661	Private	Barani Alif	0.2159	Shivnath, Umaram, Dala Ram s/o Nawla Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
1663	Private	Barani Alif	0.1764	Govt. of Rajasthan, Omdas s/o Janaki Das, cast - Saad, Khatedar, R/o Rahan SBBJ Branch Ladanu
1664	Private	Barani Alif	0.2552	Shivnath, Umaram, Dala Ram s/o Nawala Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
1667	Private	Barani Alif	0.2496	Bhani Devi w/o Mohan Ram, Khichad, Cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Ladanu
1670	Private	Barani Alif	0.1051	Sita Ram s/o Mangi Lal, Nani Devi w/o Mangi Lal, Cast - Jagid Brahman, R/o Khatedar
1671	Private	Barani Alif	0.2537	Ghewar Ram s/o Ganga Ram, cast - Jangid Barahaman
1672	Private	Barani Alif	0.1742	Rameshwar adopted s/o Ganpat Ram, Radha w/o Ganpat Ram, Lichhaman, Rugnath s/o Sardara Ram, Kana Ram s/o Giluram, Shyam Singh S/o Hadman, Rami Devi W/o Hadman, Cast - Rawana Rajput, Devkaran S/o Indrchand Sarda cast Maheshwari, R/o Khatedar, Kanaram, Share Rahan SBI Branch Ladanu Murtheen
1675	Private	Barani Alif	0.2425	Rameshwar Adopted s/o Ganpat Ram, Radha w/o Ganpat Ram, Lichhaman, Rugnath s/o Sardara Ram, Bhawarsingh, Shyamsingh S/o Hadman, Ramidevi W/o Hadman, Kana Ram s/o Giluram, Cast - Rawana Rajput, Mortgage -Share Kanaram Rahan SBI Branch Ladanu
1676	Private	Barani Alif	0.3038	Jagdish, Subhashchand, Hanuman s/o Ram Niwas, Surajmal S/o Parta Ram, cast - Lakhara, R/o Khatedar
1679	Private	Barani Alif	0.8658	Hanuman, 1/2, Annaram 1/2 s/o Dularam, cast - Jat, R/o Khatedar, Hanuman, share Rahan from khasra no. 1679 SBBJ Branch Ladanu
1682	Private	Barani Alif	0.1436	Sohani Devi w/o Late. Narayan Ram, Bhawara Ram, Muna Ram, Rupa Ram, Hanuman Ram, Thira Lal, Omprakash

					s/o Narayan Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
	1683	Private	Barani Alif	0.1748	Pukhraj, Girdhari, Mulchand, Mohan Lal s/o Tola Ram, Chhoti Devi w/o Tola Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
	1684	Private	Barani Alif	0.2629	Sukharam s/o Daularam, cast - Jat, R/o Malgaon Khatedar Rahan SBI Bank Ladanu
	1690	Private	Barani Alif	0.0146	Chuna Ram s/o Likhma Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
	2209/1690	Private	Barani Alif	0.0353	Narayan Ram s/o Baksharam, cast - Jat, R/o Khatedar
	2210/1690	Private	Barani Alif	0.0224	Ramdhan s/o Chunaram, cast - Jat, R/o Khatedar
	2310/1690	Private	Barani Alif	0.0296	Shravan Ram s/o Chunaram, cast - Jat, R/o Khatedar
	1691	Private	Barani 1	0.0679	Bajarang Singh, Matu Singh s/o Mohan Singh, cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar
	1693	Private	Barani 1	0.3048	Bajarang Singh s/o Mohan Singh, cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar
	1694	Private	Barani 1	0.0071	Sukharam s/o Daularam, cast - Jat, R/o Malgaon Khatedar Rahan SBI Bank Ladanu
	1644/1811	Private	Barani Alif	0.0195	Bhanwar Lal, Shrawan Ram s/o Mohan Ram, Kalu Ram s/o Dula Ram, R/o Kalu Ram share Rahan SBI Bank, Branch Ladanu
			Total	7.6185	
(2) Genana	16	Private	Barani 1	0.3772	Bagataram s/o Jaisaram, cast - Jat, R/o Khatedar Rahan SBBJ Branch Ladanu
	17	Private	Barani 1	0.0985	Bhuraram s/o Shivkaran, cast - Jat, R/o Khatedar
	17/1	Private	Barani 1	0.0051	Ganpat Ram s/o Megaram, cast - Jat, R/o
	613/17	Private	Barani 1	0.0985	Ram Chandra s/o Shivkaran, cast - Jat, R/o
	18	Private	Barani 1	0.1912	Sita Ram s/o Ramjiwan, cast - Brahman, R/o Khatedar, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank
	19	Private	Barani 1	0.0870	Chhotu Ram s/o Khuma Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
	19/1	Private	Barani 1	0.0910	Nathu Ram s/o Kishana Ram, cast - Jat, R/o
	19/2	Private	Barani 1	0.0040	Mangi s/o Baksha Ram, cast - Jat, R/o Rahan SBJ Branch Ladanu
	20	Private	Barani 1	0.2496	Purkha Ram s/o Mohana Ram, Jiwani Devi w/o Mohana Ram, Hanuman Ram, Raju Ram, Nand Kishore, Harji Ram s/o Ramdeva Ram, Bhawari Devi w/o Ramdewa Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Pukhram, Jiwani, UCO Bank Ladanu
	21	Private	Barani 1	0.0671	Purkha Ram s/o Mohana Ram, Jiwani Devi w/o Mohana Ram, Hanuman Ram, Raju Ram, Nand Kishore, Harji Ram s/o Ramdeva Ram, Bhawari Devi w/o Ramdewa Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Pukhram, Jiwani, UCO Bank Ladanu
	53	Private	Barani 1	0.2784	Ramkaran, Hiraram, Chhoturam s/o Gomaram, 3/4, Chenaram, Prabhuram s/o Sohana Ram, Rameshwari d/o Sohan Ram, 1/4, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Chhotu Jaipur Thar Gramin Bank Nimbijodha
	54	Private	Barani 1	0.1263	Shri Kavar Sharma w/o Shankar Lal, cast - Brahman, R/o Ladanu Khatedar, Rahan Bank of Raj Ltd. Branch Jaswantgarh Murtheen
	92	Private	Barani 1	0.2575	Mangi Lal s/o Chhogaram, Mularam (adopted) s/o Baluram, cast - Jat, R/o Rahan SBI Branch Ladanu

				93	Private	Barani 1	0.1797	Mangi Lal s/o Birda Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Nimbijodh.
				96	Private	Barani 1	0.2931	Mangharam s/o Laduram, cast - Meghwanshi, R/o Khatedar
				97	Private	Barani 1	0.2293	Magharam s/o Kesara Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Gram Panchayat Genana
				127	Private	Barani 2	0.1802	Ghasiram s/o Hukmaram, Shanti Beba, Baluram, Bhawara Ram s/o Baluram, Mohini w/o Jairam, cast - Jat, R/o Khatedar
				127/1	Private	Barani 2	0.0388	Rameshwar s/o Ghasiram, cast - Jat, R/o Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Nimbijodha
				595/127	Private	Barani 2	0.1110	Umaram s/o Ghshi Ram, cast - Jat R/o village
				545/128	Private	Barani 2	0.1626	Malaram, Thanaram, Nathuram, Jagnath s/o Himataram, Kishani w/o Himataram, cast - Meghwanshi, R/o Khatedar
				546/128	Private	Barani 2	0.1835	Bhola Ram s/o Narana Ram, cast - Meghwanshi R/o khatedar
				132	Private	Barani 2	0.3623	Rameshwar s/o Daluram, cast - Jat, R/o Khatedar
				134	Private	Barani 2	0.3078	Mangharam, Nathuram s/o Laduram, Barjudi w/o Bholuram, Girdhari, Ramchandra, Kisnaram, Jetha s/o Bholuram, Begaram, Asaram s/o Baluram, cast - Meghwanshi, R/o Khatedar
				136	Private	Barani 1	0.3827	Bagataram s/o Jaisaram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Ladanu
				137	Private	Barani 1	0.1725	Purkha Ram s/o Mohan Ram, Jiواني Devi w/o Mohana Ram, Hanuman Ram, Raju Ram, Nand Kishore, Harji Ram s/o Ramdeva Ram, Bhawari Devi w/o Ramdewa Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				138	Private	Barani 1	0.2313	Purnaram s/o Ramjivan, cast - Brahman, R/o Khatedar
				140	Private	Barani 1	0.1917	Chhotu Ram s/o Khuma Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				140/1	Private	Barani 1	0.1917	Nathu Ram s/o Kishana Ram, cast - Jat R/o
				141	Private	Barani 1	0.2389	Rameshwar, Sukharam s/o Ramkaran, Cast - Jangid, R/o Khatedar
				142	Private	Barani 1	0.0952	Bhuraram s/o Pusaram, cast - Jat, R/o Khatedar
				228	Private	Barani 1	0.0327	Sukhdev s/o Mohanram, cast - Jat R/o village
				228/2	Private	Barani 1	0.1234	Rekharam s/o Girdhari Lal, cast - Jat R/o
				610/228	Private	Barani 1	0.0334	Bhagwan Ram s/o Mohan Ram, cast - Jat R/o
				611/228	Private	Barani 1	0.0353	Sakramaram s/o Mohanaram, cast - Jat R/o
				364	Private	Barani 1	0.0976	Maguram, Ramdewa Ram s/o Magaram, cast - Jat, R/o Khatedar
				365/1	Private	Barani 1	0.2301	Mali Devi w/o Jawan Singh, Cast - Jat R/o
				366	Private	Barani 1	0.0970	Bhagirath Ram, Ramdhan s/o Bhagwan Ram, cast - Jat R/o village
				376	Private	Barani 1	0.0802	Ghasiram s/o Sadaram, Durgadevi w/o Bhawarlal, Ramniwas, Diparam, Bhuganaram, Chatraram, Manoj, Premaram s/o Bhawar Lal mionr, Chatraram, Manoj, Premaram s/o Bhawar Lal, caretaker Mata Durgadevi, Kanaram, Kaluram s/o Asuram, Durgadevi w/o Late. Bhawar Lal, 1/8, cast - Meghwanshi, R/o Khatedar
				377	Private	Barani 1	0.1181	Mangharam s/o Kesaram, cast - Jat, R/o Khatedar
				379	Private	Barani 2	0.2767	Mangharam, Nathuram s/o Laduram, Barjudi w/o Bholuram, Girdhari,

							Ramchandra, Kisnaram, Jetha s/o Bholuram, Begaram, Asaram s/o Baluram, cast - Meghwanshi, R/o Khatedar, Rahan Asaram, Begaram SBI Ladanu
			402	Private	Barani 2	0.0426	Mangharam, Nathuram s/o Laduram, Barjudi w/o Bholuram, Girdhari, Ramchandra, Kisnaram, Jetha s/o Bholuram, Begaram, Asaram s/o Baluram, cast - Meghwanshi, R/o Khatedar, Rahan Asaram, Begaram SBI Ladanu
			403	Private	Barani 2	0.2506	Manguram s/o Asaram, cast - Jat, R/o Khatedar
			404	Private	Barani 2	0.3001	Bhola Ram s/o Narana Ram, cast - Meghwanshi R/o
			405	Private	Barani 2	0.4474	Jayramaram s/o Chataram, 400/986, cast- Jat, R/o Ratau, Ghasiram s/o Hukaram, 93/986, Shanti Devi w/o Baluram, Bhawararam s/o Baluram, Mohini w/o Jayram, 1/2, cast - Jat, R/o Khatedar
					Total	7.6491	
	(3) Ratau		397	Private	Barani 2	0.0281	Malchand, Kanhaiya Lal, Kishan Lal, Manoj Kumar s/o Rameshwar Lal, Kamala Devi w/o Rameshwar Lal, cast - Brahman, R/o Khatedar
			398	Private	Barani 2	0.0478	Mangilal s/o Ramjiwan, Phasaram, Kunanmal s/o Mohan Lal, Banshi Lal s/o Radhakisan urf Baluram, cast - Brahman, R/o Khatedar
			399	Private	Barani 2	0.0754	Ratanlal, Punamchand s/o Sadaram, Sita, Muli d/o Sadaram, Kamala Devi w/o Sadaram, cast - Brahman, R/o Khatedar
			400	Private	Barani 2	0.0598	Mangilal s/o Ramjiwan, Cast - Brahman, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Ratau
			401	Private	Barani 2	0.0995	Kaushalya w/o Bajarang Lal, Sampat Kumar s/o Bajarang Lal, cast - Brahman, R/o Khatedar
			533	Private	Barani 2	0.3983	Satyanarayan s/o Gordhan Ram, cast - Brahman, R/o Khatedar, Khasara No. 1807/533, Rakwa 1-03, Kaushalya w/o Bajarang Lal, Sampat Kumar s/o Bajarang Lal, cast - Brahman
			534	Private	Barani 2	0.1357	Phusaram, Kunanmal s/o Mohan Lal, cast - Brahman, R/o Khatedar
			535	Private	Barani 2	0.0596	Baksaram s/o Boytaram, cast - Jat, R/o Khatedar
			537	Private	Barani 2	0.3350	Tulchharam s/o Kumbharam, cast - Bawari, Khasara No. 1838/537, Rakwa 3-18, Genaram s/o Dularam, cast - Bawari R/o village
			538	Private	Barani 2	0.6713	Kanaram s/o Hanuman Ram, Nathi Devi w/o Hanuman Ram, Phepha Ram, Jagram, Chatara Ram, Danaram, Ramsukhram, Ramniwas s/o Birda Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Kanaram, Rahan Nathi Devi, share Jaipur Thar Gramin Bank Ratau
			540	Private	Barani 1	0.0094	Ummed s/o Bholaram, Jashoda Devi w/o Bholaram, Rahan share of Ummed, Jaipur Thar Gramin Bank Ratau R/o
			541	Private	Barani 1	0.2929	Bhawararam, Ganesharam, Govindram, Jairamaram s/o Hanumanram, Mu-Kawari w/o Hanumanram, cast - Jat, R/o Khatedar
			851	Private	Barani 1	0.0119	Pokarram, Ramniwas s/o Parmanand, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan share of Pokram Jaipur Thar Gramin Bank Ratau
			863	Private	Barani 1	0.1183	Mekudi w/o Late. Bhagirath Ram, Prabhu Ram, Bhiya Ram, Purkharam,

					Ramuram s/o Bhagirath Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Meikundi, Bhiyaram, Purkharam JAB Branch Ratau
864	Private	Barani 1	0.0530		Anachi Devi w/o Late. Nanupuri, Kailashpuri s/o Nanupuri, Purnapuri s/o Bhagirathpuri, Lichhmanpuri, Narayanpuri s/o Ladupuri, Gusai, R/o Khatedar
865	Private	Barani 1	0.2601		Anachi Devi w/o Late. Nanupuri, Kailashpuri s/o Nanupuri, Purnapuri s/o Bhagirathpuri, Lichhmanpuri, Narayanpuri s/o Ladupuri, Gusai, R/o Khatedar
871	Private	Barani 1	0.0019		Salgram, Ramdin s/o Nathuram, Bayali Devi w/o Late. Nathuram, Boytaram, Jairam s/o Chataram, Dhapi w/o Chataram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan JAB Branch Ratau
889	Private	Barani 1	0.2503		Bhawararam urf Bhawaralal urf Jagdish s/o Hardinaram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Ratau
891	Private	Barani 1	0.1187		Mekudi w/o Late. Bhagirath Ram, Prabhu Ram, Bhiya Ram, Purkharam, Ramuram s/o Bhagirath Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan share of Meikundi, Bhiyaram, Purkharam JAB Branch Ratau
897	Private	Barani 1	0.2004		Salgram, Ramdin s/o Nathuram, Bayali Devi w/o Late. Nathuram, Boytaram, Jairam s/o Chataram, Dhapi w/o Chataram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan JAB Branch Ratau
898	Private	Barani 1	0.2937		Bhawararam urf Bhawaralal urf Jagdish s/o Hardinaram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Ratau
901	Private	Barani 1	0.2415		Pokarram, Ramniwas s/o Parmanand, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan share of Pokram Jai Tha Gram Bank Ratau
903	Private	Barani 1	0.2049		Bhawar Singh s/o Jal Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar Rahan HDFC Bank Ltd. Branch Jaipur
904	Private	Barani 1	0.2644		Bhawar Singh s/o Jal Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar Rahan HDFC Bank Ltd. Branch Jaipur
906	Private	Barani 1	0.5944		Magani Devi w/o Govindram, cast - Jat, 4/5, Ghasiram, Tulachhiram, Ramkaran Ram, Kanaram s/o Nathuram, cast - Kumhar, 1/5, R/o Khatedar
912	Private	Barani 1	0.1733		Purkharam, Bhopalram S/o Gordhanram, Rajaram, Papuram, Premaram, Mukesh s/o Jairamaram, Chanki w/o Jairam, Purnaram, Lalaram, Loduram, Kumbharam S/o Dularam, Phuli D/o Dularam, Chuki Devi w/o Dulara, Durgaram s/o Sukanaram, cast - Nayak, R/o Koliya Teh. Didwana, Rahan share of Dularam, Bhopal Ram, Jaipur Nagaur Anchalik Bank Ratau
913	Private	Barani 1	0.2398		Dwarka Prasad s/o Ramanand Mahavir Prasad s/o Babulal, Gangabisan s/o Ganesh Ram, Jagdish Prasad, Satyanarayan s/o Dhanraj, Ganga Devi w/o Dhanraj, Bhawar Lal s/o Lachhiram, cast - Mahajan, R/o Khatedar
914	Private	Barani 2	0.2991		Mineral Potential Area, State Govt. Holder- Khasara No. 914/1 Rakwa 10-00, Budha Ram, Devaram, Khumbaram, Rajuram s/o Surjaram, cast - Meghvanshi, R/o Khasara No. 914/2 Rakwa 5-00, Purnaram s/o Dayalram, cast - Meghvanshi, R/o Khasara No. 914/3 Rakwa 5-00. Prabhulal. shar

				28/100, Lunaram share 28/100, Shravan Ram s/o Karna Ram share 22/100, cast - Meghvanshi R/o village
1020	Private	Barani 1	0.1331	Dwarka Prasad s/o Ramanand, Mahavir Prasad s/o Babulal, Gangavisan s/o Ganesharam, Jagdish Prasad, Satyanarayan s/o Dhanraj, Ganga Devi w/o Dhanraj, Bhawar Lal s/o Lachhiram, cast - Mahajan, R/o Khatedar
1021	Private	Barani 2	0.0761	Purkharam, Bhopalram S/o Gordhanram, Rajaram, Papuram, Premaram, Mukesh s/o Jairamaram, Chanki w/o Jairam, Purnaram, Lalaram, Loduram, Kumbharam S/o Dularam, Phuli D/o Dularam, Chuki Devi w/o Dulara, Durgaram s/o Suganaram, cast - Nayak, R/o Koliya Teh. Didwana, Rahan share of Dularam, Bhopal Ram, Jaipur Nagaur Anchalik Bank Ratau
1022	Private	Barani 2	0.1479	Madan Lal s/o Banshi Lal, cast - Brahman, Khasara No. 1866/1022 Rakwa 0-17 Bhawar Ram, Ramniwas s/o Hardinaram, Kesar w/o Omprakash, cast - Jat, R/o village
1038	Private	Barani 2	0.0612	Rajuram s/o Kushalaram cast Kumhar, Sukharam s/o Chautharam, Dinaram s/o Arjaram, cast - Meghwal, Amraram s/o Jethram, Rami D/o Chandrarani, cast Kumhar, 7.50 Biswa, Madan Lal s/o Banshi Lal, cast - Brahman 3 Bigha 4.50 Biswa, R/o Khatedar
1039	Private	Barani 2	0.2353	Ratanram s/o Girdhari Ram cast - Jat R/o Khatedar
1040	Private	Barani 1	0.3460	Ghasiram, Tulchhiram, Ramkaran Ram, Kanaram s/o Nathuram, cast Kumhar R/o Khatedar
1049	Private	Barani 1	0.1336	Sukhdevaram s/o Ramdhan, cast - Jat R/o Khatedar
1057	Private	Barani 1	0.1971	Bhawar Singh s/o Jal Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan HDFC Bank Ltd. Branch Jaipur
1058	Private	Barani 1	0.2036	Bhawar Singh s/o Jal Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan HDFC Bank Ltd. Branch Jaipur
1060	Private	Barani 1	0.3185	Sadakawar w/o Dalip Singh, cast - Rajput, R/o Dabari 2/57, Pokrram s/o Parmanand 53/114, Ramniwas s/o Parmanand 1/2, cast - Jat R/o Khatedar
1062	Private	Barani 1	0.1983	Kesar D/o Boduram, cast - Jat, R/o, Rahan share 1/2, Kesar D/o Boduram, Jaipur Nagaur Anchalik Bank Branch Ratau
1125	Private	Barani 1	0.0576	Mekudi w/o Late. Bhagirath Ram, Prabhu Ram, Bhiya Ram, Purkharam, Ramuram s/o Bhagirath Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Meikundi, Bhiyaram, Purkharam JAB Branch Ratau
1126	Private	Barani 1	0.2800	Ramuram urf Ramkaran s/o Premaram, cast Jat, R/o, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau
1126/2	Private	Barani 1	0.2800	Chhoturam s/o Premaram, cast - Jat, R/o Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau
1126/3	Private	Barani 1	0.2800	Govindram s/o Premaram, cast - Jat, R/o, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau
1487	Private	Barani 1	0.2431	Bhawram, Ganeshram, Govindram, Jairamaram s/o Hanuman Ram, Mu-Kuwari w/o Hanuman Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
1488	Private	Barani 1	0.0322	Shivnath Ram s/o Chhogram, cast - Jat,

					R/o Khatedar
	1489	Private	Barani 2	0.2048	Ramdeo s/o Purkharam, Mu- Jhamkudi w/o Purkharam, cast - Jat, R/o Khatedar
	1500	Private	Barani 2	0.0227	Kanaram s/o Hanuman Ram, Nathi Devi w/o Hanuman Ram, Phepha Ram, Jagram, Chatara Ram, Danaram, Ramsukhram, Ramniwas s/o Birda Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Kanaram, Nathi Devi, Jaipur Thar Gramin Bank Ratau
	1501	Private	Barani 2	0.1548	Tulchharam s/o Kumbharam, Khasra No. 1839/1501 Rakwa 7-03 Dularam s/o Birdaram, cast - Bawari, R/o Khatedar
	1502	Private	Barani 2	0.0850	Tulchharam s/o Bharmal, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Share of Kanaram, Nathi Devi, Jaipur Thar Gramin Bank Ratau
	1503	Private	Barani 2	0.0758	Ratan Lal, Punamchand s/o Sadaram, Sita, Muni d/o Sadaram, Kamla Devi w/o Sadaram, cast - Brahman, R/o Khatedar
	1504	Private	Barani 2	0.1889	Bularam s/o Diparam, Khasara No. 1880/1504 Rakwa 1-10 Radhakishan s/o Begaram Jat, Khasara No. 1909/1504 Rakwa 5-00 Rajendra Prasad s/o Ramu Ram Jat, R/o Kasundi Sankhala, Bholaram s/o Surjaram, cast - Jat, Khasra No. 1913/1504 Rakwa 1-10 Chhoturam s/o Bhogaram Jat, R/o, Khasra No. 1914/1504 Rakwa 2-16 Shakar Ram s/o Jhumar Ram, Jat R/o village
	1506	Private	Barani 2	0.0635	Malchand, Kanhaiya Lal, Kishan Lal, Manoj Kumar s/o Rameshwar Lal, Kamala Devi w/o Rameshwar Lal, cast - Brahman, R/o Khatedar
	1507	Private	Barani 2	0.0392	Mangi Lal s/o Ramjiwan, Phasaram, Kunanmal s/o Mohan Lal, Banshi Lal s/o Radha Kisan urf Baluram cast Brahman, R/o Khatedar
	1508	Private	Barani 2	0.0775	Mahipal Singh s/o Prithvi Singh 1/2, Rajendra Singh s/o Prithvi Singh (Minor caretaker - Mother - Piragkavar w/o Prithvi Singh) 1/2, cast - Rajput, R/o Khatedar
			Total	9.6741	
(4) Dhudeela	334	Private	Barani 2	0.1828	Parsaram s/o Baluram, cast - Brahman, R/o Khatedar
	805/334	Private	Barani 2	0.1828	Nandaram s/o Madhuram R/o village
	335	Private	Barani 2	0.2794	Girdhari Lal, Hardin s/o Hira Hanmanram, Bhagwanaram, Kesharam s/o Bairaram, Mu. Bidami w/o Late. Bairaram, cast - Lakhara, R/o Khatedar
	336	Private	Barani 2	0.1179	Begaram, Nanuram, Tikuram, Bhiyaram s/o Ratnaram, Ramchandra, Kailashchandra, Jagguram s/o Motaram, cast - Kumhar, R/o Khatedar
	337	Private	Barani 2	0.0210	Prithavi Singh s/o Bhawar Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar
	338	Private	Barani 2	0.3367	Nanu Ram s/o Kishanaram, cast - Nayak, R/o Khatedar, Rahan SBI Branch Ladanu
	339	Private	Barani 2	0.5726	Hem Singh s/o Badan Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan JTG Branch Ratau
	340	Private	Barani 2	0.2635	Narpat Singh, Ram Singh, Hem Singh, Hanman Singh s/o Badan Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan Share of Hem Singh s/o Badan Singh, Ram Singh s/o Badan Singh, cast - Rajput, JTG Bank Ratau
	349	Private	Barani 2	0.1043	Chautharam s/o Miyalram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Nagaur Sehkari Bhumi Vikas Bank, Branch Didwana

				593/349	Private	Barani 2	0.1042	Rauparam, Miyalram, cast - Jat, R/o Khatedar
				357	Private	Barani 2	0.2548	Mohanaram, Babu Ram, Purna Ram s/o Kisana Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch, Ratau
				798/357	Private	Barani 2	0.0773	Hardeva Ram s/o Chuna Ram R/o Khatedar
				610/357	Private	Barani 2	0.0177	Mohan Ram s/o Kishana Ram R/o Khatedar
				359	Private	Barani 2	0.0674	Purkha Ram s/o Chela Ram, cast - Jat, Nojala ki Thani, Tehshil Didwana, R/o JTG Bank, Branch Ratau
				361	Private	Barani 2	0.1177	Girdhari Lal, Hardin s/o Hira Hanmanram, Bhagwan Ram, Kesha Ram s/o Bairaram, Mu. Bidami w/o Late. Bairaram, cast - Lakhara, R/o Khatedar
				362	Private	Barani 2	0.0590	Begaram, Nanu Ram, Tiku Ram, Bhiya Ram s/o Ratana Ram, Ramchandra Kailash Chandra, Jagu Ram s/o Mota Ram, cast - Kumhar, R/o Khatedar
				363	Private	Barani 2	0.0920	Prithavi Singh s/o Bhawar Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar
				364	Private	Barani 2	0.1131	Kishani w/o Dhokala Ram Nayak, R/o Khatedar
				365	Private	Barani 2	0.3408	Narpat Singh s/o Badan Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan JTG Bank, Branch Ratau
				820/365	Private	Barani 2	0.1824	Ram Singh s/o Badan Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar
				368	Private	Barani 2	0.0906	Chautharam s/o Miyalram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Nagaue Sehkari Bhumi Vikas Bank, Branch Didwana
				594/368	Private	Barani 2	0.0453	Harchand Ram s/o Ramdhan, cast - Jat, R/o Ratau
				780/368	Private	Barani 2	0.0453	Bheru Ram s/o Ladu Ram Jat, R/o Badi Khatu, The. Jayal Khatedar
				369	Private	Barani 2	0.3374	Mohana Ram, Balu Ram, Purna Ram s/o Kishana Ram Jat, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Ratau
				370	Private	Barani 2	0.1245	Purkha Ram s/o Chela Ram, cast - Jat, R/o Nojala ki Dhani, The. Didwana, Rahan JTG Bank, Branch Ratau, khatedar
				390	Private	Barani 2	0.2498	Ladu Ram s/o Bhwar Lal, cast - Brahman, R/o Khatedar
				443	Private	Barani 1	0.1060	Hanuman Singh s/o Goru Singh, cast - Rawana Rajput R/o Khatedar
				444	Private	Barani 1	0.0004	Ramniwas s/o Chhotu Ram, minor Dugaram Jat, R/o 22 Bigha 18 Biswa, Bhagirath s/o Purna Ram, Cast - Jat, R/o Ratau, 22 Bigha 19 Kiswa Khatedar
				455	Private	Barani 1	0.1270	Raghuvir Singh, Shambhu Singh, Indra Singh, Sajjan Singh s/o Chawand Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar
				457	Private	Barani 1	0.0624	Bhawara Ram s/o Kumbha Ram, R/o Khatedar, Suman w/o Ram Kishore Regar, R/o Khatukalan
				739/457	Private	Barani 1	0.3720	Kheta Ram s/o Kumbha Ram, R/o Khatedar
				740/457	Private	Barani 1	0.0335	Sunder Devi w/o Rameshwar Lal, Meghwal, R/o Ratau Khatedar
				460	Private	Barani 1	0.3971	Chhotu Ram s/o Dunga Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				461	Private	Barani 1	0.0728	Jetha Ram Adopted s/o Biddada Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				462	Private	Barani 1	0.1784	Hanuman Singh s/o Goru Singh, cast - Rawana Rajput R/o Khatedar
				464	Private	Barani 1	0.1029	Narpat Singh Adopted s/o Mohan singh, cast - Rajput, R/o Khatedar
				466	Private	Barani 1	0.4035	Mohan Ram s/o Kana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar

				467	Private	Barani 1	0.1308	Chhotu Ram s/o Dunga Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				469	Private	Barani 1	0.1692	Jetha Ram Adopted s/o Biddada Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				470	Private	Barani 1	0.3232	Hanuman Singh s/o Goru Singh, cast - Rawana Rajput R/o Khatedar
				489	Private	Barani 1	0.0088	Narpat Singh Adopted s/o Mohan singh, cast - Rajpur, R/o Khatedar
				503	Private	Barani 1	0.1469	Ratan Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3, Dhani w/o Late. Jetha Ram, Papu s/o Hanman Budha s/o Jetha Ram, Cast - Meghvanshi R/o 1/3, Sugani Beba Mohan Ram, Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan, 1/3, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Ratna Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Rataui, Rahan Share of Sugani, Lichman SBI Ladani
				504	Private	Barani 1	0.0182	Ratan Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3, Dhani w/o Late. Jetha Ram, Papu s/o Hanman Budha s/o Jetha Ram, Cast - Meghvanshi R/o 1/3, Sugani Beba Mohan Ram, Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan, 1/3, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Ratna Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Rataui, Rahan Share of Sugani, Lichman SBI Ladani
				506	Private	Barani 1	0.0205	Ratan Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3, Dhani w/o Late. Jetha Ram, Papu s/o Hanman Budha s/o Jetha Ram, Cast - Meghvanshi R/o 1/3, Sugani Beba Mohan Ram, Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan, 1/3, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Ratna Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Rataui, Rahan Share of Sugani, Lichman SBI Ladani
				508	Private	Barani 1	0.0625	Ratan Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3, Dhani w/o Late. Jetha Ram, Papu s/o Hanman Budha s/o Jetha Ram, Cast - Meghvanshi R/o 1/3, Sugani Beba Mohan Ram, Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan, 1/3, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Ratna Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Rataui, Rahan Share of Sugani, Lichman SBI Ladani
				510	Private	Barani 1	0.0828	Ratana Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3 (Purna Ram s/o Lala Ram, Meghvanshi, R/o Rakawa 5) Biswa, Madan Lal s/o Babari. R/o Hudas Rakawa 1 Bigha) 3 Biswa) 1/3 Sugani w/o Late. Mohan Ram Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan 1/3, cast - Meghvanshi R/o Khatedar
				541	Private	Barani 1	0.0244	Ratan Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3, Dhani w/o Late. Jetha Ram, Papu s/o Hanman Budha s/o Jetha Ram, Cast - Meghvanshi R/o 1/3, Sugani Beba Mohan Ram, Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan, 1/3, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Ratna Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Rataui, Rahan Share of Sugani, Lichman SBI Ladani
				548	Private	Barani 1	0.1958	Bhagirath Ram s/o Lodiya, cast -

						Meghvanshi, R/o Khatedar Rahan SBBJ Bank Branch Ladanu, Sunda Ram s/o Kishana Ram, Meghvanshi R/o Khatedar
	549	Private	Barani 1	0.1613		Narpat Singh Adopted s/o Mohan Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar
	557	Private	Barani 1	0.0110		Ratan Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar 1/3, Dhani w/o Late. Jetha Ram, Papu s/o Hanman Budha s/o Jetha Ram, Cast - Meghvanshi R/o 1/3, Sugani Beba Mohan Ram, Kisana, Sawarmal, Lichman s/o Mohan, 1/3, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Ratna Ram s/o Dana Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan JNAG Bank Branch Ratau, Rahan Share of Sugani, Lichman SBI Ladanu
	558	Private	Barani 1	0.0859		Chhotu Ram s/o Nanu Ram, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar
	559	Private	Barani 1	0.0616		Bhagirath Ram s/o Lodiya, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar Rahan SBBJ Bank Branch Ladanu
	560	Private	Barani 1	0.1745		Hanman Singh s/o Goru Singh, cast - Rawana Rajput, R/o Khatedar
	563	Private	Barani 2	0.0941		Chotha Ram s/o Panchiya, cast - Babari, R/o Khatedar
			Total	8.0078		
(5) Khamiyaad	133	Private	Barani 2	0.1239		Nathu Ram S/o Chuna Ram, Cast - Jat, R/o Dhudila
	134	Private	Barani 2	0.1104		Bhawar Singh, Hunman Singh, Bhagirath Singh, Govind Singh, Devi Singh s/o Nathu Singh, Ratan Kaur W/o Nathu Singh, Kalyan Singh, Vije Singh, Kushal Singh, Daulat Singh s/o Sajaan Singh, Ajit Singh s/o Phateh Singh, cast - Rajput, R/o Mamdoda Khatedar
	135	Private	Barani 2	0.2381		Mohana Ram, Lalu Ram s/o Pema Ram, cast - Gurjar R/o Khatedar
	136	Private	Barani 2	0.1927		Jora Ram s/o Mangla Ram, Cast - Kumhar, R/o Mamdoda Khatedar
	137	Private	Barani 1	0.1355		Mohanaram, Purna Ram s/o Kishana Ram Jat, R/o Khatedar, Omprakash s/o Balu Ram, Kamala Devi w/o Balu Ram, Minor Teju Kumari d/o Baluram, caretaker Mata Kamala Devi w/o Balu Ram, R/o Dhudila
	145	Private	Barani 1	0.5018		Nathu Ram, Pema Ram, Parsa Ram, Ratana Ram, Bhajana Ram s/o Hira Ram, Sohan Ram s/o Sawara Ram, Nanudi w/o Isaram, Ladu Ram, Shankar Ram, Gulab Ram, Hari Kishan, Mega Ram s/o Bheru Ram, Mohani Devi w/o Bheru Ram, cast - Bawari, R/o Khatedar, Rahan Pema Ram, Parsa Ram s/o Heera Ram, Ladu Ram The Nagaur Central Cooperative Bank Ltd., Nagaur Branch Ladanu
	146	Private	Barani 1	0.0282		Moti Likhama s/o Jasa Ram, Bhagu Ram s/o Sukha, Amra Ram, Ramniwas, Birma Ram s/o Mohana, cast - Babari, R/o Khatedar
	148	Private	Barani 1	0.0594		Kana Ram, Ramkaran, Hardeva Ram s/o Kisana, Rahan Hardewa Ram s/o Kishana, cast - Nayak, R/o SBI Branch Ladanu
	675/179	Private	Barani 1	0.0381		Magani Ram s/o Likhma Ram, cast - Khati, R/o Khatedar
	180	Private	Barani 1	0.1847		Amra Ram, Ramniwas, Birma Ram s/o Mohana, Babari, 6 Bigha 3 Biswa, Mohana s/o Budha Nayak, 1 Bigha, R/o Khatedar
	181	Private	Barani 1	0.0568		Sohani Devi w/o Hajari, Mohan Lal, Jagdish Prasad, Shankar Lal s/o Hajari Ram, cast - Khati, R/o Khatedar

				182	Private	Barani 1	0.0200	Magan Kavar w/o Hanuman Singh, Omkavar w/o Ranjit Singh, Durga Kavar, Jyoti Kavar, Pushpa Kavar, Lalita Kavar d/o Ranjit Singh, cast - Rajput
				183	Private	Barani 1	0.0729	Kana Ram, Salga Ram, Ramu Ram, Ramkaran s/o Dola Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
				184	Private	Barani 1	0.2113	Pusa Ram s/o Dhuda Ram, cast - Raika, R/o Khatedar
				185	Private	Barani 1	0.1477	Sajan Kavar w/o Bhawar Singh, Dayal Singh s/o Rewat Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan Branch Ratau
				186	Private	Barani 1	0.0841	Magan Kavar w/o Hanuman Singh, Omkavar w/o Ranjit Singh, Durga Kavar, Jyoti Kavar, Pushpa Kavar, Lalita Kavar d/o Ranjit Singh, cast - Rajput
				187	Private	Barani 1	0.2149	Ramu Ram, Gopi Ram s/o Harlal Mohan Ram, Anada Ram s/o Harlal Minor care taker Mata Chuki Devi widow W/o Har Lal, Bhawar Lal, Kana Ram, Uga Ram s/o Lichhman Ram, Bhagirath Ram s/o Mota Ram, cast - Gujar, R/o Khatedar, Rahan Bhawar Lal, Kana Ram s/o Lichhman Ram, SBI Branch Chhoti Khatu
				188	Private	Barani 1	0.1935	Samudi w/o Sanwata Ram, cast - Raika, R/o Khatedar Rahan SBI Branch Ladanu
				189	Private	Barani 1	0.2311	Birma Ram, Deva Ram, Bhugana Ram, Gordhan Ram s/o Narana Ram, cast - Jat, R/o Jochina, The. Jayal Khatedar, Rahan Bhuna Ram, share Jaipur Thar Gramin Branch Ratau, Rahan Birma Ram, share SBI Ladanu
				191	Private	Barani 1	0.0729	Malu Ram, Badari Ram s/o Nenuda, Dewa Ram, Manohar Ram s/o Bheru Ram, cast - Babari, R/o Khatedar, Rahan Malu Ram, Manohar Ram, share SBI Ladanu
				197	Private	Barani 1	0.1133	Mohana Ram, Purna Ram s/o Kishana Ram Jat, R/o Khatedar, Omprakash s/o Balu Ram, Kamala Devi w/o Balu Ram, Minor Teju Kumari d/o Baluram caretaker Mata Kamala Devi w/o Balu Ram, R/o Dhudila
				199	Private	Barani 2	0.0643	Jora Ram s/o Mangla Ram, Cast - Kumhar, R/o Mamdoda Khatedar
				200	Private	Barani 2	0.0840	Mohana Ram, Lalu Ram s/o Pema Ram, cast - Gujar, R/o Khatedar
				201	Private	Barani 2	0.0875	Bhawar Singh, Hunman Singh, Bhagirath Singh, Govind Singh, Devi Singh s/o Nathu Singh, Ratan Kavar W/o Nathu Singh, Kalyan Singh, Vije Singh, Kushal Singh, Daulat Singh s/o Sajan Singh, Ajit Singh s/o Phateh Singh, cast - Rajput, R/o Mamdoda Khatedar
				229	Private	Barani 1	0.0097	Pabudan Nema, Sohana, Birbal, Mahavir, Indra s/o Ganga Ram, Suwati w/o Ganga Ram, Pema Ram s/o Chandra Ram, Giga Ram, Purna Ram, Girdhari, Papu Ram s/o Kana Ram, Prameshwar, Shri Ramaram s/o Mula Ram, cast - Babari, R/o Khatedar
				233	Private	Barani 1	0.0345	Nathu Ram, Pema Ram, Parsa Ram, Ratana Ram, Bhajana Ram s/o Hira Ram, Sohan Ram s/o Sanwara Ram, Nanudi w/o Isra Ram, Ladu Ram, Shankar Ram, Gulab Ram, Hari Kishan, Mega Ram s/o Bheru Ram, Mohani Devi w/o Bheiru Ram, cast - Bawari, R/o Khatedar, Rahan Pema Ram Parsaram s/o Hir Ram, &

				Ladu Ram, sahare The Nagaur Central Cooperative Bank Ltd. Nagaur
236	Private	Barani 1	0.2503	Moti Likhama s/o Jasa Ram, Bhagu Ram s/o Sukha, Amra Ram, Ramniwas, Birma Ram s/o Mohana, cast - Babari, R/o Khatedar
238	Private	Barani 1	0.0212	Bhagirath s/o Mota Ram, cast - Gujar, R/o Khatedar, Rahan SBI Bank Branch Ladanu
390	Private	Barani 1	0.0763	Prabhu Ram, Ram Nath, Heera Ram s/o Mohan, Hiraki W/o Mohan, cast - Nayak, R/o Khatedar, Rahan Prabhu Ram share SBI Ladanu
392	Private	Barani 1	0.0788	Bhanwara Ram, Shri Ram, Rupa Ram, Rameshwar Ram s/o Hukma Ram, Sayari w/o Hukma Ram, Shaitan Ram, Arjan Ram s/o Jayramaram Ram, Babadi w/o Jayramaram Ram 1 Bigha 5 Biswa, Mala Ram s/o Nanu Ram, 15 Biswa, cast - Bawari, R/o Khatedar
394	Private	Barani 1	0.0632	Sohani Devi w/o Hajari, Mohan Lal, Jagdish, Shankar Lal s/o Hajari, Ugama, Pema s/o Likhama, cast - Khati, R/o Khatedar
397	Private	Barani 1	0.0655	Magan Kavar w/o Hanuman Singh, Omkavar w/o Ranjit Singh, Durga Kavar, Jyoti Kavar, Pushpa Kavar, Lalita Kavar d/o Ranjit Singh, cast - Rajput R/o village
398	Private	Barani 1	0.0518	Kana Ram, Salga Ram, Ramu Ram, Ramkaran s/o Dola Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
402	Private	Barani 1	0.0667	Muna Ram s/o Thana Ram, Cast - Raika, R/o Khatedar
678/402	Private	Barani 1	0.0667	Mula Ram s/o Moti Ram s/o Hadman Ram, Bhawri Devi w/o Hadman Ram, cast - Raika, R/o Khatedar
403	Private	Barani 1	0.0647	Sajan Kavar w/o Bhawar Singh, Dayal Singh Adopted s/o Rewat Singh, cast - Rajput, R/o Khatedar, Rahan Branch Ratau
404	Private	Barani 1	0.2916	Ramu Ram, Gopi Ram s/o Harlal, Mohan Ram, Anada Ram s/o Har Lal Minor Kudarati Valiya Mata Chuki Devi W/o Har Lal Bhawar Lal, Kana Ram, Uga Ram s/o Lichhman Ram, Bhagirath Ram s/o Mota Ram, cast - Gujar, R/o Khatedar, Rahan Bhawar Lal, Kana Ram s/o Lichhman Ram, share SBI Baranch Chhoti Khatu
405	Private	Barani 1	0.1729	Sawai Ram, Mega Ram, Kishana Ram, Baga Ram s/o Jasa Ram, Pusi W/o Jasa Ram, cast - Raika, R/o Khatedar
406	Private	Barani 1	0.0255	Ghashi Ram s/o Shivkaran Luhar, Ramkaran s/o Kishana, Cast - Nayak, R/o Khatedar
407	Private	Barani 1	0.0021	Birma Ram, Deva Ram, Bhugana Ram, Gordhan Ram s/o Narana Ram, cast - Jat, R/o Jochina, The. Jayal Khatedar, Rahan Bhuna Ram, share Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau, Rahan Birma Ram, share SBI Ladanu
409	Private	Barani 1	0.0411	Birma Ram, Deva Ram, Bhugana Ram, Gordhan Ram s/o Narana Ram, cast - Jat, R/o Jochina, The. Jayal Khatedar, Rahan Bhuna Ram, share Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau, Rahan Birma Ram, share SBI Ladanu
410	Private	Barani 1	0.0610	Purki w/o Malu Ram, cast - Babari, R/o Khatedar, Rahan SBI Ladanu
682/410	Private	Barani 1	0.0692	Manohar Ram s/o Bheru Ram, cast - Babari, R/o Khatedar, Rahan SBI Ladanu

			683/410	Private	Barani 1	0.0693	Deva Ram s/o Bheru Ram, Cast - Babari, R/o Khatedar
			684/410	Private	Barani 1	0.0580	Badari Ram s/o Nanu Ram, cast - Babari, R/o Khatedar
					Total	4.9070	
	(6) Titri		70	Private	Barani Alif	0.1415	Manohar Singh s/o Harnath Singh, Cast-Rajput, R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Ladanu
			71	Private	Barani Alif	0.1479	Shravanpuri, Amarpuri s/o Ganeshpuri, Dhani w/o Ganeshpuri, cast - Gusai, R/o Khatedar
			72	Private	Barani Alif	0.2124	Ichu Ram s/o Mula Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan SBI Chhoti Khatu
			74	Private	Barani Alif	0.1312	Ichu Ram s/o Mula Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan SBI Chhoti Khatu
			83	Private	Barani Alif	0.0334	Shravanpuri, Amarpuri s/o Ganeshpuri, Dhani w/o Ganeshpuri, cast - Gusai, R/o Khatedar
			84	Private	Barani Alif	0.1591	Manohar Singh s/o Harnath Singh, Cast-Rajput, R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Ladanu
			85	Private	Barani Alif	0.0315	Moda Ram, Chena Ram s/o Jiya, cast - Jat, R/o Khatedar
			104	Private	Barani Alif	0.3520	Ramdeva Ram, Malaram, Hanumana Ram s/o Khuma Ram, Pusi w/o Khuma Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
			105	Private	Barani Alif	0.2730	Ramdev, Mohan Ram, Banshi Lal s/o Jetha, Phulaki w/o Jetha, cast - Meghvanshi, R/o Khatedar
			106	Private	Barani Alif	0.3624	Bhiya Ram s/o Natha Ram, Budha Ram s/o Ramdin, cast- Meghvanshi, R/o Khatedar, Rahan Bhiya Ram, Budhan Ram, share SBI Branch Chhoti Khatu
			110	Private	Barani Alif	0.1367	Badari, Sarupa s/o Hira Ram, Meghvanshi, R/o Khatedar
			117	Private	Barani Alif	0.1786	Mohana s/o Uma Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
			148	Private	Barani Alif	0.0301	Lohda Ram s/o Kana Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau
			149	Private	Barani Alif	0.0616	Bhiya Ram s/o Shivji Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
			150	Private	G.M. Aabadi	0.1236	Ashok Kumar s/o Durga Ram, Cast - Jangid, R/o Khatedar
			268	Private	Barani Alif	0.1411	Badari, Sarupa s/o Hira Ram, Meghvanshi, R/o Khatedar
			269	Private	Barani Alif	0.0698	Nathu Ram Adopted s/o Sawanta, cast - Jat, R/o Khatedar
			270	Private	Barani Alif	0.3155	Lohda Ram s/o Kana Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau
			271	Private	Barani Alif	0.0299	Bhopal Ram s/o Khanga Ram, cast - Raika R/o Khatedar
			462/271	Private	Barani Alif	0.0512	Jada Devi w/o Bhanwara Ram, R/o Khatedar
			276	Private	Barani Alif	0.3047	Badari, Sarupa s/o Hira Ram, Meghvanshi, R/o Khatedar
			277	Private	Barani Alif	0.0404	Badari, Sarupa s/o Hira Ram, Meghvanshi, R/o Khatedar
			320	Private	Barani Alif	0.2708	Prem w/o Dewa Ram, R/o Khatedar
			321	Private	Barani Alif	0.3306	Lohda Ram s/o Kana Ram, cast - Jat, R/o Khatedar, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Ratau
			328/425	Private	Barani Alif	0.0178	Shiv Singh, Devi Singh, Bharat Singh s/o Nathu Singh, Bhagoti, Sanju D/o Nathu Singh, Sarju Kavar w/o Nathu Singh, cast - Daroga, R/o Khatedar
			328/426	Private	Barani Alif	0.1365	Jagdish s/o Tejaram, cast - Daroga, R/o Khatedar, Rahan SBI Chhoti Khatu
			328/427	Private	Barani Alif	0.1360	Jitu Ram s/o Teja Ram, R/o village Rahan SBI Chhoti Khatu

			328/428	Private	Barani Alif	0.1360	Sohan Lal s/o Teja Ram, cast- Daroga, R/o Khatedar
			332	Private	Barani Alif	0.2617	Ramsukh Deva s/o Miyala, Bhagwana Ram s/o Ramdin, Mani Ram s/o Prabhu Ram, Radhadevi w/o Prabhu Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
			335	Private	Barani Alif	0.7336	Prabhu Ram s/o Arjan Ram, cast - Jat, R/o Banthadi, The. Didwana Khatedar
			336	Private	Barani Alif	0.0172	Moda Ram, Chena Ram s/o Jiya, cast - Jat, R/o Khatedar
			361	Private	Barani Alif	0.3983	Ramsukh Deva s/o Miyala, Bhagwana Ram s/o Ramdin, Mani Ram s/o Prabhu Ram, Radhadevi w/o Prabhu Ram, cast - Jat, R/o Khatedar
			362	Private	Barani Alif	0.0731	Jayram s/o Jawana Ram, cast - Jat, R/o Khatedar Rahan SBI Bank Chhoti Khatu
					Total	5.8394	
	2. Didwana	(1) Banthadi	7	Private	Barani 1	0.0476	Kanaram Magnaram s/o Baluntaram Kaluram Chenaram s/o Chandrarām caste Gujar R/o Khatedar Rahan Magnaram part SBI Choti Khaatu
			60	Private	Barani 1	0.0545	Govindsingh s/o Dhansingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap
			61	Private	Barani 1	0.3351	Safeekhan s/o Jabardeen Khan caste Musalman R/o Khatedar
			62	Private	Barani 1	0.0297	Gula Bhageerath Nimba s/o Aashuram Nathuram s/o Daluram caste Gujar R/o Khatedar Rahan Gula s/o Aashu part Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kerap
			63	Private	Barani 1	0.1195	Ramkunwar Prahlad s/o Mohandas caste Saad R/o Khatedar Rahan Ramkunwar part Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kerap
			64	Private	Barani 1	0.2028	Kanaram Magnaram s/o Baluntaram Kaluram Chenaram s/o Chandrarām caste Gujar R/o Khatedar Rahan Magnaram part SBI Choti Khaatu
			65	Private	Barani 1	0.2057	Kanaram s/o Baluntaram caste Gujar R/o Khatedar
			66	Private	Barani 1	0.2016	Hanumanram Likshmanram Tejaram s/o Kishna Jeeya W/o Kishna Ramnath Sohan s/o Ladu caste Gujar R/o Khatedar Rahan Likshmanram Share Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kerap
			68	Private	Barani 1	0.3799	Hanumanram Likshmanram Tejaram s/o Kishna Jeeya W/o Kishna Ramnath Sohan s/o Ladu caste Gujar R/o Khatedar Rahan Likshmanram Share Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kerap
			69	Private	Barani 1	0.2832	Kanaram s/o Baluntaram caste Gujar R/o Khatedar
			70	Private	Barani 1	0.3438	Gula Bhageerath Nimba s/o Ashu Caste Gujar R/o Khatedar Rahan share Gula s/o Ashu
			72	Private	Barani 1	0.2747	Shersingh s/o Bhursingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap
			73	Private	Barani 1	0.5255	Safeeda s/o Jabardeen Khan caste Musalman R/o Khatedar
			82	Private	Barani 1	0.6477	Govindsingh s/o Dhansingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap
			83	Private	Barani 1	0.4767	Eyedaan s/o Bhageerath Premaram Hardevaram Rajuram s/o Madanlal Chandadevi w/o Late. Madanlal caste Nayee R/o Khatedar
			84	Private	Barani 1	0.7657	Samandar Khan, Roshankhan, Kalukhan s/o Jamalkhan, Salamkhan, Sikandarkhan, Sultankhan Lalkhan s/o Jorukhan Bhanwri s/o Jorukhan Bidami

				w/o Jorukhan caste Musalman, Bhanwri w/o Habeebkhan Simbhukhan Ganikhan s/o Habeebkhan Babukhan Hushainkhan, Ramjankhan s/o Lodukhan Jubeda W/o Lodukhan caste Musalman R/o Khatedar
85	Private	Barani 1	0.4369	Babukhan Hushainkhan Ramjaankhan s/o Lodukhan Jubeda W/o Lodukhan caste Sipahi (Mogal) R/o Khatedar
97	Private	Barani 1	0.0350	Ramchandra Beermaram Megharam s/o Kisturram Pannidevi w/o Kisturram caste Bhambee R/o Khatedar Rahan Megharam part S.B.I. Branch ChotiKhaatu
98	Private	Barani 1	0.4482	Fareedkhan s/o Alfukhan caste Musalman R/o Khatedar Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kerap
99	Private	Barani 1	0.5693	Lakshmansingh s/o Balsingh caste Rajput R/o Khatedar
137	Private	Barani 1	0.1878	Rukmanidevi s/o Ramniwash caste Jaat R/o Ransheeshar Bhageerath s/o Aashu caste Gujar Santoshkanwer w/o Mukansingh caste Rawna Rajput R/o Khatedar
138	Private	Barani 1	0.0024	Chokharam s/o Heeramam Jaat R/o Bathni Khatedar
139	Private	Barani 1	0.8198	Ramchandra Beermaram Megharam s/o Kisturram Pannidevi w/o Kisturram caste Bhambee R/o Khatedar Rahan Megharam part S.B.I. Branch ChotiKhaatu
140	Private	Barani 1	0.4493	Bali W/o Motaram caste Bhambi R/o Khatedar Rahan State Bank of India Deedwana
617/157	Private	For residential purposes	0.0639	Jairam s/o Ramchandra Brahan R/o Bhadiya, Santoshdevi w/o Girdharilal Brahman R/o Bathdi, Mahaveersingh s/o Prahladsingh caste Rawna Rajput, Ghanshyam s/o Khetaram Kumhar R/o Raghunathpura, Ghashiram adopted Son Arjunram Jaat R/o
148	Private	Barani 1	0.0493	Hajariram Gopalram Tulcharam s/o Daluram Sugni Suwati D/o Daluram Ramchandra Beeramaram Megharam s/o Kistoor Pannidevi w/o Kistoor caste Meghwanshi R/o Khatedar
151	Private	Barani 1	0.2462	Ramchandra Birender s/o Arjunram caste Jaat R/o Bichawa Khatedar
158	Private	Barani 1	0.0469	Anil Ramniwash s/o Choturam Kistoori W/o Choturam Pusharam Gurmaram Hadmanram Rajuram s/o Genesha Premaram Kaluram s/o Mohanaram Suwati w/o Mohanaram caste Meghwanshi Shriram Likshmanram s/o Arjan Sawanta Kalu s/o Mangiya caste Meghwanshi R/o Khatedar
159	Private	Barani 1	0.0869	Sawanta, Kalu s/o Mangiya Pusharam Gurmaram Hadmanram Rajuram s/o Ganesha Anil Ramniwash s/o Loduram Kistoori W/o Loduram Premaram, Kaluram s/o Mohanram Suwati w/o Mohanaram Shreeram Likshmanram s/o Arjun caste Meghwanshi R/o Khatedar
522/159	Private	Gair Mumkin Abadi	0.0462	Sawanta, Kalu s/o Mangiya Pusharam Gurmaram Hadmanram Rajuram s/o Ganesha Anil Ramniwash s/o Loduram Kistoori W/o Loduram Premaram, Kaluram s/o Mohanram Suwati w/o Mohanaram Shreeram Likshmanram s/o Arjun caste Meghwanshi R/o Khatedar
198	Private	Barani 2 G.M. Abadi	0.1753	Shersingh s/o Bhursingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap

				Gair Mumkin Abadi
203	Private	Barani-2	0.1403	Anil Ramnivash s/o Choturam Kisturi W/o Choturam Pusharam Gurmaram Hadmanram Rajuram s/o Genesha Premaram Kaluram s/o Mohanaram Suwati w/o Mohanaram caste Meghwanshi Shriram Likshmanram s/o Arjan Sawanta Kalu s/o Mangeeya caste Meghwanshi R/o Khatedar
306	Private	Barani-2	0.1129	Gulab Amra Chukidevi w/o Richpal Premsingh Jeetusingh, Pratapsingh S/o Richpal caste Rawnarajput s/o Girdhari 1/2 Ganpat Nathu Manoharsingh s/o Jashu urf Jaswantsingh 1/2 caste Rawnarajput R/o Khatedar
360	Private	Barani-2	0.1378	Gaffarkhan, Sattarkhan, Rajakkhan Khalikhan, Sareefkhan s/o Lodukhan Haleema W/o Lodukhan caste Musalman R/o Khatedar
361	Private	Barani-2	0.0353	Hanuntaram s/o Chandaram caste Babri R/o Khatedar rahan Hanuntaram, Mangi share S.B.B.J. Branch Deedwana
642/361	Private	Barani-2	0.0353	Rooparam s/o Chandaram caste Babri R/o village
362	Private	Barani-2	0.3083	Eyedaan s/o Bhageerath caste Nayee R/o Khatedar
363	Private	Barani-2	0.3903	Girdharilal s/o Nandlal caste Brahman Khandelwal R/o Khatedar
364	Private	Barani-2	0.0764	Girdharilal s/o Nandlal caste Brahman Khandelwal R/o Khatedar
365	Private	Barani-2	0.0258	Govindsingh s/o Dhansingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap
367	Private	Barani-2	0.1501	Anil Ramnivash s/o Choturam Kisturi W/o Choturam Pusharam Gurmaram Hadmanram Rajuram s/o Ganesha caste Meghwanshi R/o Khatedar
368	Private	Barani-2	0.2128	Nathuram s/o Chunaram caste Jaat R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap
376	Private	Barani-2	0.3848	Shivram Mehram s/o Nandaram Shanti w/o Late. Nandaram Ramniwash Hemaram s/o Hardeenran Jhumarram s/o Shivkaran Rekham Jeetaram Chenaram s/o Ramdeen Jhumi W/o Ramdeen caste Jaat R/o Khatedar Rahan Ramnivash s/o Hardeenram share Rahan S.B.I. Branch Ladnu
381	Private	Barani-2	0.1026	Hanuntaram s/o Chandaram caste Babri R/o Khatedar
643/381	Private	Barani-2	0.1025	Rooparam s/o Chandaram caste Babri R/o Deh
404	Private	Barani-2	0.9727	Prahlad s/o Chandaram caste Brahman Khandelwal R/o Khatedar, Khasra no. Rakwa. 16-02 Girdharilal s/o Nandlal
405	Private	Barani-2	0.0933	Anil Ramnivash s/o Choturam Kisturi W/o Choturam Pusharam Gurmaram Hadmanram Rajuram s/o Ganesha caste Meghwanshi R/o Khatedar
406	Private	Barani-2	0.0770	Gajendrasingh Chandrasingh s/o Ummedsingh Kesharkanwer w/o Ummedsingh, Sumankanwer, Dashramkanwer D/o Ummedsigh Caste Rajput R/o Khatedar
407	Private	Barani-2	0.2182	Shreeram s/o Bholaram caste Jaat R/o Khatedar Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Kerap
414	Private	Barani-2	0.0020	Beermaram Rajuram s/o Gordhanram Jashdevi w/o Gordhanram Lohadi Baudi Sukhi D/o Gordhanaram Kishnaram s/o Purnaram Vimla D/o Purnaram Purnadevi w/o Purnaram Salagram s/o

						Ramrakham Pusharam Hanmanram Dugaram s/o Ramuram caste Jaat R/o Khatedar
	415	Private	Barani-2	0.0112		Ganpat s/o Narayan caste Rawna Rajpoot R/o Khatedar
	413 / 475	Private	Barani-2	0.0010		Shivraj Mehran s/o Nandaram Shanti w/o Late. Nandaram Ramnivas Hemaram s/o Hardeenran Jhumarram s/o Shivkaran Rekharam Jeetaram Chenaram s/o Ramdeen JhumiW/o Ramdeen caste Jaat R/o Khatedar
			Total	12.1477		
(2) Bichawa	65	Private	Barani 1	0.1103		Ramnivash s/o Magnaram caste Jaat R/o Khatedar
	66	Private	Barani 1	0.2283		Ramchandra Virendra s/o Arjunram caste Jaat Khatedar
	67	Private	Barani 1	0.2244		Jeshrajsingh s/o Moolsingh Ravnarajput R/o
	687/67	Private	Barani 1	0.0441		Lichmansingh s/o Moolsingh Ravnarajput R/o Khatedar
	689/67	Private	Barani 1	0.1340		Harisingh s/o Moolsingh Ravnarajput R/o village
	70	Private	Barani 1	0.1512		Indrasingh s/o Lalsingh caste Rajput R/o Khatedar
	71	Private	Barani 1	0.1140		Bhanwerlal s/o Bhairuram Heeradevi w/o Bhairuram caste Jaat R/o Khatedar
	73	Private	Barani 1	0.0872		Ramchandra Virendra s/o Arjunram caste Jaat Khatedar
	74	Private	Barani 1	0.1437		Sukharam Chandram s/o Bhanwerlal Ramnivash Salagram Harlal s/o Megaram Suvti W/o Megaram caste Bhambi R/o Khatedar
	84	Private	Barani 1	0.1868		Lichhmansingh s/o Moolsingh Ravnarajput R/o Khatedar
	690/84	Private	Barani 1	0.1019		Harisingh s/o Moolsingh Ravnarajput R/o village
	85	Private	Barani 1	0.3047		Bhanwerlal Ramkaran Hanuman Purkharam Rajuram Sharvanlal s/o Narayanram Dhanidevi W/o Narayanram 1/3 Pemaram s/o Bhairaram 1/3 Purkharam s/o Narayanram 1/3 caste Jaat R/o Khatedar
	87	Private	Barani 1	0.2354		Bhanwerlal s/o Bhairuram Heeradevi w/o Bhairuram caste Jaat R/o Khatedar
	257	Private	G.M. Bada	0.0121		Madanram s/o Purnaram caste Jaat R/o Khatedar
	258	Private	Barani Alif	0.0789		Badraram s/o Baluram caste Jaat R/o Khatedar
	259	Private	Barani Alif	0.1934		Madanram s/o Purnaram caste Jaat R/o Khatedar
	265	Private	Barani Alif	0.0440		Madanram s/o Purnaram caste Jaat R/o Khatedar
	267	Private	Barani Alif	0.0895		Mangla s/o Pusha 1/3 Birma s/o Uda Luna Khole Balu 2/3 caste Nayak R/o Khatedar
	268	Private	Barani 1	0.0915		Ghanshyam Arjunram Shobharam s/o Beermaram Sonki W/o Beermaram Bastiram Puniyan adopted S/o Bajranglal Omprakash Seetaram Jagram s/o Harjeeram Chuklidevi w/o Harjeeram Jeewani W/o Chenaram caste Jaat R/o Khatedar
	335	Private	Barani Alif	0.0602		Dhunklaram s/o Motaram caste Jaat R/o Khatedar Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Kerap
	336	Private	Barani Alif	0.1300		Motiram Rampal Ratnaram Lalaram s/o Teekuram caste Babri R/o Khatedar
	337	Private	Barani Alif	0.0062		Kishoresingh s/o Savayeesingh caste Rajput R/o Khatedar
	338	Private	Barani Alif	0.1139		Premsingh s/o Tejsingh caste Rajput R/o Khatedar
	351	Private	Barani Alif	0.0082		Surajkaran s/o Dhunkalram caste Jaat

					R/o Khatedar
	644/351	Private	Barani Alif	0.0082	Gangaram s/o Dhunkalram caste Jaat R/o Khatedar
	352	Private	Barani Alif	0.0322	Motiram Rampal Ratnaram Lalaram s/o Teekuram caste Babri R/o Khatedar
	353	Private	Barani Alif	0.0351	Premsingh s/o Tejsingh caste Rajput R/o Khatedar
	214/559	Private	Barani Alif	0.1789	Madanram s/o Purnaram caste Jaat R/o Khatedar
	65/557	Private	Barani 1	0.2199	Sukharam Chandram s/o Bhanwerlal Ramnivash Salagram Harlal s/o Megaram Suvti W/o Megaram caste Bhambi R/o Khatedar
	65/558	Private	Barani 1	0.2419	Badraram s/o Baluram caste Jaat R/o Khatedar
			Total	3.6097	
(3) Dabgaon	47	Private	Barani 1	0.4666	Parsharam s/o Bhagirath caste Jaat R/o Khatedar
	49	Private	Barani 1	0.0187	Elmukhan Lodukhan Mahmodali Khan Abdulkhan s/o Mohideenkhan Sakeena W/o Mohideenkhan caste Mu. Serani R/o Serani Aabad Khatedar Rahan Elmukhan Abdulkhan share SBI Branch Deedwana Murtheen
	65	Private	Barani 1	0.2359	Kumba s/o Chuna caste Jaat R/o Khatedar
	68	Private	Barani 1	0.2134	Danaram s/o Biddaram caste Jaat R/o Khatedar
	69	Private	Barani 1	0.1211	1. Maniram s/o Shivram caste Jaat R/o Khatedar Rahan SBI Branch Khatukhurd 2. Lal Mohmad s/o Daudkhan Ekbalkhan s/o Manoharkhan caste Serani R/o Serani Aabad Khatedar
	71	Private	Barani 1	0.0885	Maniram s/o Shivram Caste Jaat R/o Khatedar
	73	Private	Barani 1	0.1613	Meram s/o Girdhari caste Jaat Khatedar
	80	Private	Barani 1	0.1812	Maniram s/o Shivram Mehram S/o Girdhari Caste Jaat R/o Khatedar
	84	Private	Barani 1	0.1868	Ramnivash s/o Nanagram caste Jaat R/o Khatedar
	85	Private	Barani 1	0.0646	Pancharam Hariram s/o Seetaram caste Nayee R/o village
	97	Private	Barani 1	0.1423	Parsharam s/o Bhagirath caste Jaat R/o Khatedar
	98	Private	Barani 1	0.0838	Badrudhin Sadruddin Kamruddin s/o Umarchan caste Mu. Serani R/o Serani Aabad Khatedar
			Total	1.9643	
(4) Sherani Aabad	270	Private	Barani Alif	0.0180	Liyakatali w/o Lalkhan Nadeemaktar Nayeemakhtar s/o Liyakatali Anjunkhanam Nahid Parveerbanu Nargishbanu D/o Liyakatali Nayeem Akhtar, Nargishbanu Minor care taker Father Liyakatali caste Sherani R/o Khatedar Chapda Ankan
	274	Private	Barani Alif	0.0358	Gulam Mod. s/o Kamrudeenkhan Sherani 22/563 Nasheerahmad s/o Jalaluddin caste Leelgar R/o Badikhatu share 22/563 Liyakat Ali s/o Lalkhan Sherani R/o Sufiya Mohalla part 10/563 Jaitunbegam w/o Ibraheemkhan part 30/563 Sherani Noori Mohalla Nanukhan s/o Deenarakhan Sherani 43/563, Jaitunbegam w/o Ibraheemkhan part 45/563 caste Sherani R/o, Jafar Ahmad s/o Lalmohamad part 1392/2815 caste Sherani R/o village, Mohamadayub s/o Nijamuddin part 80/563 Jaffarahmad s/o Lalmohamad part 992/2815 caste Sherani R/o Khatedar, Badruddin s/o Mumtajkhan Sageer Ahmad s/o Sabbir Ahamad

				1139/274	Private	Barani Alif	0.0548	Madanlal s/o Pemaram caste Nayak R/o Kuchaman City
				1142/274	Private	Barani Alif	0.0354	Gokulram s/o Purkharam Nayak R/o Khaatukhurd Gair Khatedar
				1143/274	Private	Barani Alif	0.0664	Ramjan Abdul Rashool s/o Jomradi
				1144/274	Private	Barani Alif	0.0641	Mariyambano w/o Sabbhir Ahmad
				276	Private	Barani Alif	0.0647	Ibraheemkhan s/o Umerkhan caste Sherani R/o Khatedar Dhani Chapda Rahan Nagaur Sehkar Bhumu Vikas Bank
				1184/276	Private	Barani Alif	0.0209	Mo. Ali s/o Umerkhan R/o village
				1185/276	Private	Barani Alif	0.0647	Mo. Ali s/o Umerkhan R/o village
				1186/276	Private	Barani Alif	0.0647	Soukatali s/o Umerkhan R/o village
				1187/276	Private	Barani Alif	0.0209	Soukatali s/o Umerkhan R/o village
				1188/276	Private	Barani Alif	0.0647	Abdul Gaffur s/o Umerkhan R/o village
				1189/276	Private	Barani Alif	0.0209	Abdul Gaffur s/o Umerkhan R/o village
				1190/276	Private	Barani Alif	0.0647	Mo. Haneef s/o Umer Khan R/o village
				1192/276	Private	Barani Alif	0.0647	Khaleel Ahmad s/o Umer Khan R/o village
				277	Private	Barani Alif	0.1158	Alauddin s/o Lalkhan caste Sherani R/o Dhani Chapda Khatedar
				324	Private	Barani Alif	0.0195	Alabaksh s/o Badar Khan Caste Sherani R/o Dhani Unchali Khatedar
				325	Private	Barani Alif	0.2012	Ramjankhan, A. Rahman Aleemo, Lalmo Jakir Hushain Liyakatali s/o Sarvar Khan Emna W/o Sarver Khan caste Sherani R/o Khatedar Dhani Unchali
				326	Private	Barani Alif	0.3623	Kamruddin s/o Alabaksh Khan 18/74 Lal Mohd. s/o Daud Khan 20/222 Mohoddin s/o Gulab Khan 1/3 Umar Farukh s/o Saraju 1/3 caste Sherani R/o Khatedar
				328	Private	Barani Alif	0.0583	Manoharddin Hasamkhan Noormohmad Ekbal Khan Ismilledin Fakruddin Kamruddin s/o Umerddin Rayeeshabanu Mehmda D/o Umerddin Rahamatbanu w/o Umerddin, Mohamadbagas s/o Peer Khan caste Sherani R/o Khatedar
				1272/329	Private	Barani Alif	0.0382	Alabaksh s/o Badarkhan caste Sherani R/o Khatedar
				1275/329	Private	Barani Alif	0.0426	Mohmadbaksh s/o Badarkhan Sakeela w/o Jamaluddin, Mo. Hasan Mo. Hushain Abdula Mo. Ashraf Mo. Irshan Sahadatali s/o Chandkhan Amna w/o Chandkhan caste Sherani R/o Khatedar
				1276/329	Private	Barani Alif	0.0389	Mohmadbaksh s/o Badarkhan Sakeela w/o Jamaluddin R/o Khatedar
				335	Private	Barani Alif	0.0675	Abulalkhan Ikbalkhan Usmankhan Gulabkhan s/o Jomerdeekhan Amrav W/o Jomerdeekhan Elmuddin Mansoorahmad s/o Jalalkhan Hurmat W/o Jalalkhan Haleema W/o Jabdeekhan caste Sherani R/o Khatedar Dhani Unchali
				336	Private	Barani Alif	0.0134	Ashiyani w/o Alauddin Ameerddin Mo. Husain A. Sattar s/o Saykhan 1/2 Jomeerddin Jafuruddin Moheedein Lalkhan Ganikhan s/o Ejajkhan 1/2 caste Sherani R/o Khatedar Dhani Unchali Rahan Jomrdeen part Uco Bank Chotikhatu Murtheen
				341	Private	Barani Alif	0.0139	Amtu D/o Daudkhan caste Sherani R/o Khatedar
				342	Private	Barani Alif	0.1102	Fakrudeen Kamruddin Babukhan Bajruddin s/o Elmuddin Jaitun W/o Elmuddin caste Sherani R/o Khatedar
				344	Private	Barani Alif	0.0728	Ashiyani w/o Alauddin Ameerddin Mo. Husain A. Sattar s/o Saykhan 1/2 Jomeerddin Jafuruddin Moheedein Lalkhan Ganikhan s/o Ejajkhan 1/2 caste Sherani R/o Khatedar Dhani Unchali Rahan Jomrdeen part Uco Bank Chotikhatu Murtheen

				345	Private	Barani Alif	0.3555	Abulalkhan Ekbal Khan Usman Khan Gulab Khan s/o Jomerdeekhan Amraw W/o Jomerdeekhan Elmuddin Mansoorahmad s/o Jalalkhan Hurmat W/o Jalalkhan 12 Biswa Haleema W/o Jabdeekhan 1 Bigha 3 Bishwa Nijamddin s/o Cheetarkhan Barkatbano w/o Mehmood caste Sherani part 5785/121968
				346	Private	Barani Alif	0.4696	Sarajukhan s/o Lalkhan Sherani R/o Khatedar Dhani Chapda
				353	Private	Barani 1	0.0746	Mo. Hushain Mo. Sareef s/o Ameer Khan Munni Sufiyan D/o Ameer Khan Jora Bano w/o Ameer Khan Insrayeel Khan Deen Mhd. S/o Umer Khan Jetun W/o Umer Khan Chotukhan Ijaj Khan s/o Habeeb Khan 1/2 Moula Daud Khan Hameed Khan Ramjani s/o Mumtaz Khan 1/4, Basheerbano w/o Munir Khan Lukman adopted S/o Munir Khan share 1/16, Barkatbano w/o Mehmood part 16/220 caste sherani R/o, Nijam s/o Cheetarkhan, Haleema w/o Niyay Khan caste Sherani R/o Khatedar
				354	Private	Barani 1	0.0363	Mo. Hushain Mo. Sareef s/o Ameer Khan Munni Sufiyan D/o Ameer Khan Jora Bano w/o Ameer Khan Insrayeel Khan Deen Mhd. S/o Umer Khan Jetun W/o Umer Khan Chotukhan Ijaj Khan s/o Habeeb Khan 1/2 Moula Daud Khan Hameed Khan Ramjani s/o Mumtaz Khan 1/4, Basheerbano w/o Munir Khan Lukman adopted S/o Munir Khan share 1/16, Barkatbano w/o Mehmood part 16/220 caste sherani R/o, Nijam s/o Cheetarkhan, Haleema w/o Niyay Khan caste Sherani R/o Khatedar
				1013	Private	Barani Alif	0.0813	Aleemohamad s/o Maneer Khan caste Sherani R/o Khatedar
				1014	Private	Barani Alif	0.0349	Jameerdeen Sabeerahmad s/o Kalukhan Ashiyan W/o Kalukhan caste Sherani R/o Khatedar Dhani Kamraw
				1015	Private	Barani Alif	0.1073	Mohmad s/o Nanukhan caste Sherani R/o Khatedar Dhani Kumraw
				1023	Private	Barani Alif	0.3643	Sayiadahmad s/o Najeer Ahmad caste Musalman R/o Khatedar
				1025	Private	Barani Alif	0.1428	Jafaralam s/o Kheerjayad Khan caste Sherani R/o Khatedar
				1027	Private	Barani Alif	0.5084	Suleman s/o Alabaksh caste Sherani R/o Khatedar
				1039	Private	Barani Alif	0.1732	Sakir Mohd. Safi Mohd. Mohmad Khan Yusufali Mehmud Khan Mansoor Ahmad Mohmadsareef s/o Mukhtarkhan share 1/4 caste Sherani, Sarfudeen Faruk Ajeej Majeed Husain s/o Kamrudeen 1/4 Jewankhan s/o Sarajukhan Lal Mohd. s/o Lodukhan 1/2 caste Sherani R/o Khatedar
						Total	4.2283	
		(5) Khatukhurd		983	Private	Barani 1	0.0024	Gulamfarid Khan s/o Hasam Khan caste Sherani R/o Sherani Abad Khatedar
				984	Private	Barani 1	0.0912	Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o Khatedar
				985	Private	Barani 1	0.0121	Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o

					Khatedar
986	Private	Barani 1	0.0011		Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o Khatedar
988	Private	Barani 1	0.0010		Lalmohamad s/o Aladeen Musalman R/o Sherani Aabad Dhani Athuni 1/2 Gulam Rashool Kamruddin Nabibagas Khajubagas s/o Raheembagas caste Sekh R/o Khatedar
989	Private	Barani 1	0.0364		Gopal Hanmanmal Jagdish Sohanlal Jugalkishore s/o Ramchandra caste Maheshwari R/o Khatedar
990	Private	Barani 1	0.0022		Enayatkhan s/o Deendarkhan caste Sherani R/o Sherani Aabad Dhani Chapda Khatedar
991	Private	Barani 1	0.0355		Rukmadevi w/o Mangeelal Jaat R/o Mandukara, R/o Sherani Aabad Khatedar
1854/991	Private	Barani 1	0.0244		Mohd. Ali s/o Sakoor caste Musalman Lohar R/o
1011	Private	Barani 1	0.0015		Ebraheemkhan Kamrudeen Ajikkhan Eshrayeelkhan s/o Jamaludeen Haleema w/o Jamaludeen caste Sherani R/o Sheraniabad Dhani Chapda Khatedar
1012	Private	Barani 1	0.0021		Devkaran Ramkishan s/o Likshman cast Khati R/o Khatedar
1028	Private	Barani 1	0.4536		Devkaran Ramkishan s/o Likshman cast Khati R/o Khatedar
1029	Private	Barani 1	0.2210		Ibraheemkhan 4/5 Kamrudeen s/o Jamaludeen caste Sherani R/o Sheraniabad Dhani Chapda Khatedar
1030	Private	Barani 1	0.2683		Enayatkhan s/o Deendarkhan caste Sherani R/o Sherani Aabad Dhani Chapda Khatedar
1031	Private	Barani 1	0.0896		Rukmadevi w/o Mangilal Jaat R/o Mandukara, R/o Sherani Aabad Khatedar
1855/1031	Private	Barani 1	0.0585		Gulshan w/o Makbool Ahmad R/o Sherani Aabad
1949/1031	Private	Barani 1	0.0266		Jetunbano w/o Jalalkhan caste Sherani R/o Sherani Aabad Khatedar
1032	Private	Barani 1	0.0240		Gopal Hanmanmal Jagdish Sohanlal Jugalkishore s/o Ramchandra caste Maheshwari R/o Khatedar
1033	Private	Barani 1	0.1994		Lalmohamad s/o Aladeen Musalman R/o Sherani Aabad Dhani Athuni 1/2 Gulam Rashool Kamruddin Nabeebagas Khajubagas s/o Raheembagas caste Sekh R/o Khatedar
1034	Private	Barani 1	0.2121		Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o Khatedar
1035	Private	Barani 1	0.1905		Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o Khatedar
1036	Private	Barani 1	0.1942		Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o Khatedar
1071	Private	Barani 1	0.0065		Anchidevi w/o Late. Gangaram Caste Jaat 1/2 Kheeyaram Jodharam Megharam Beeramaram Jhumarram s/o Gangaram Anchidevi W/o Gangaram 1/4 Megharam

				s/o Gangaram 1/4 caste Jaat R/o Khatedar
1073	Private	Barani 1	0.4131	Gulamfaridkhan s/o Hasamkhan Afsar Bano W/o Mohd. Safi caste Sherani R/o Sherani Abad Khatedar
1074	Private	Barani 1	0.0511	Gulamfareedkhan s/o Hasamkhan caste Sherani R/o Sherani Abad Khatedar
1819/1074	Private	Barani 1	0.6143	Mahaveerprasad s/o Lunkaran Soni R/o village
1075	Private	Barani 1	0.1117	Kaluram s/o Jadavmal Oswal Dhariwal Kotheyari R/o Khatedar
1076	Private	Barani 1	0.6469	Udaykanwr w/o Chhotusingh Raghveer singh premsingh s/o Chhotusingh caste Rajput R/o Khatedar
1140	Private	Barani 1	0.7032	Jagdeeshprashad Bhanwerlal s/o Ramuram Kishranram Nanaram s/o Bhanwerlal, Bhanerlal s/o Chhoturam caste Jaat 1/2 Bhanwerlal Chaganlal Lalaram Pappuram s/o Chotu Kani W/o Chhotu 1/2 Caste Jaat R/o Khatedar
1141	Private	Barani 1	0.7084	Jagdeeshprashad Bhanwerlal s/o Ramuram Kishranram Nanaram s/o Bhanwerlal, Bhanerlal s/o Chhoturam caste Jaat 1/2 Bhanwerlal Chaganlal Lalaram Pappuram s/o Chotu Kani W/o Chhotu 1/2 Caste Jaat R/o Khatedar, gram panchyat khatedar share 4/926
1181	Private	Barani 1	0.2764	Devaram Pemaram Parsaram harakranram Panchuram Thanaram Rajendrasingh s/o Nimbaram Kunnidevi w/o Nimbaram Dhannidevi w/o Harjeeram Jitendra Ashok s/o Harjeeram Manju Radha Rekha Vimla D/o Harjeeram Maniram Tejaram s/o Ramdeen Sugnadevi w/o Ramdeen Bugadevi Rameshwaridevi D/o Ramdeen caste Jaat R/o Khatedar
1182	Private	Barani 1	0.2921	Hariram Prabhuram Banwari s/o Ghashiram Mohini w/o Late. Ghashiram caste Jaat R/o Khatedar
1185	Private	Barani 1	0.8385	Hariram Prabhuram Banwari s/o Ghashiram Mohini w/o Late. Ghashiram caste Jaat R/o Khatedar
1193	Private	Barani 1	0.6036	Purnaram adopted s/o Sevaram caste Jaat R/o Khatedar
1888/1225	Private	Barani 1	0.8257	Sukharam Kaluram s/o Kanaram caste Jaat R/o Khatedar
1233	Private	Barani 1	0.0034	Devaram Pemaram Parsaram Harkranram Panchuram Thanaram Rajendrasingh s/o Nimbaram Kunnidevi w/o Nimbaram Dhannidevi w/o Harjeeram Jitendra Ashok s/o Harjeeram Manju Radha Rekha Vimla D/o Harjeeram Maneeram Tejaram s/o Ramdeen Sugnadevi w/o Ramdeen Bugadevi Rameshwaridevi D/o Ramdeen caste Jaat R/o Khatedar
1234	Private	Barani 1	0.9344	Hariram Prabhuram Banwari s/o Ghashiram Mohini w/o Late. Ghashiram caste Jaat R/o Khatedar
1237	Private	Barani 1	0.5952	Sukharam Kaluram s/o Kanaram caste Jaat R/o Khatedar
1238	Private	Barani Alif	0.0385	Surendrasingh Pratapsingh s/o Jorsingh Rajput 34 Bigha 4 Biswa Madanlal s/o Ramdeen caste Jaat part 55/804 R/o, Jainarayan s/o Rampal Bajaj Maheshwari, Rakeshkanwer w/o Shankarsingh caste Rajput R/o Deepnagar (Indokha) Teh. Makrana part 55/804 Khatedar.
1239	Private	Barani Alif	0.2103	Surendrasingh Pratapsingh s/o Jorsingh Rajput R/o Khatedar

				1240	Private	Barani Alif	0.4184	Premaram Hemaram s/o Ramnivash caste Jaat R/o Khatedar part 12.16 Bigha
				1897/1240	Private	Barani Alif	0.7495	Bajrangsingh s/o Ranjeetsingh caste Rajpoot R/o Khatedar part 12.16 Bigha
				1241	Private	Barani 1	0.3837	Sukharam Kaluram s/o Kanaram caste Jaat R/o Khatedar
				1958/1245	Private	Barani Alif	0.1747	Girdharisingh s/o Arjunsingh caste Rajput R/o Khatedar
				1246	Private	Barani Alif	0.1869	Mahaveerprasad s/o Lunkaran caste Sonar R/o village
				1262	Private	Barani Alif	0.4654	Devaram adopted s/o Bhuraram caste Jaat, Sarika D/o Ridhkaran Kudi caste Jaat R/o Nagaur
				1264	Private	Barani Alif	0.0264	Surjaram s/o Jetharam caste Jaat R/o Khatedar
				1268	Private	Barani Alif	0.1977	Jagdeeshprashad Bhanwerlal s/o Ramuram caste Jaat R/o village Seema w/o Sajit Dhariwal caste Jen Rakwa 1.00 Bigha R/o, Gani Mohd. s/o Alibaksh caste Musalman Sherani R/o Sherani Aabad 1 Bigha, Dariyabkanwer w/o Devisingh caste Rajput R/o Badabara 1 Bigha, Rughnathram s/o Tilokaram caste Jaat R/o Bichawa 1 Bigha Khatedar, Pusharam s/o Choutharam caste Jaat R/o Pidvara Tehsil Jayal Khatedar
				1662/1271	Private	Barani Alif	0.0255	Fatehkanwar w/o Girdharisingh caste Rajput R/o village
				1468	Private	Barani Alif	0.0619	Jagdeeshprasad Bhanwerlal s/o Ramuram Gumanaram s/o Sanwaram caste Jaat R/o Khatedar
				1469	Private	Barani Alif	0.9788	Girdharisingh Ashusingh s/o Arjunsingh caste Rajput R/o khatedar
				1509	Private	Barani 1	0.3842	Heera W/o Jagdish Bheevraj Radhakishan Ramakishan Omprakash Vijayraj Gourishankar s/o Jagdish Brahman Shantidevi w/o Omprakash caste Brahman R/o Khatedar
				1510	Private	Barani 1	0.0010	Heera W/o Jagdish Bheevraj Radhakishan Ramakishan Omprakash Vijayraj Gourishankar s/o Jagdish Brahman Shantidevi w/o Omprakash caste Brahman R/o Khatedar
				1656/1246	Private	Barani Alif	0.0766	Devaram 1/8 Pemaram 1/8 Parsharam 1/8 Harkarnram 1/8 Panchuram 1/8 Thanaram 1/8 Rajendrasingh 1/8 s/o Nimbaram Kunnidevi w/o Nimbaram 1/8 caste Jaat R/o Khatedar
				1658/1262	Private	Barani Alif	0.0561	Indian Oil Corporation Ltd. Jodhpur Jariye Manager (Sales), 117/2 PWD Colony Jodhpur
				1820/1264	Private	Barani Alif	0.0637	Kisturidevi w/o Chotharam caste Jaat R/o Pidiyaara Tehsil Jayal Khatedar
				1823/1264	Private	Barani Alif	0.0565	Pusharam s/o Chotharam caste Jaat R/o Pidiyaara Tehsil Jayal Khatedar
						Total	14.3284	
	3. Jayal	(1) Khatukalan		942	Private	Barani 2	2.0701	Gordhan s/o Kanaram, cast - Bhambi R/o village, Rakwa 12.10 bigha 2, Ranjit s/o Kanaram, cast - Bhambi, R/o village, rakwa 12.11 bigha, 3, Loduram s/o Kanaram, cast - Bhambi, R/o village Khatedar, rakwa 12.11 bigha
				1168	Private	Barani 2	0.0028	Mohan Ram s/o Pitha Ram, cast - Regar, R/o Khatedar
				1134	Private	Barani 2	0.1467	Rajak Khan s/o Mumtaj Khan, cast - Sherani Musalman, share - 1-18 bigha, R/o Phirozpura, Ijaj Mohammad s/o Nisarukho, cast - Musalman, R/o Bhiniyad Amin Ali s/o Lal Khan, cast - Musalman, R/o Barneel, share 3 bigha, Dhara Ram s/o Lichhmanram, cast - Jat, R/o Mithriya, teh Degana, Shabir Ahmad

					s/o Mohamad Husain, cast - Khatri, share - 3 bigha, Tejaram s/o Madhuram, cast - Gujar, share 2 bigha, Mohamad Husain s/o Mumtaj Khan, cast muslim share - 1-02 bigha, R/o firozpura khatedar, Bheraram s/o Swarup Ram, cast - Jat, share 0-11 bigha, R/o pava teh. Didwana Khatedar
1135	Private	Barani 2	0.2731		Ramanarayan s/o Tulachharam Jat, R/o Dhirajpura, Maina Devi w/o Chhoturam, Kailash, Narsingh s/o Chhoturam, Raju Nani d/o Chhoturam, Nani minor Baliya Mata Maina Devi, cast - Gujar, R/o Khatedar, Shantaram, Maderam, cast - Mali, R/o Chhoti Khatu Khatedar
1138	Private	Barani 2	0.3549		Purnram, Bhairuram Gujar, R/o Khatedar, Shankar Singh, Prem Singh Rajput, R/o Chhoti Khatu, Jitendra Singh s/o Pratap Singh, cast - Rajput, R/o Chhoti Khatu, Rafik Ahmad s/o Sadik Khan, cast - Sherani, R/o Banthdi, Hajara w/o Saraju Khan, cast – Sherani, R/o Sherani Abad, Mohamad Ali s/o Nure Khan, cast – Sherani, R/o Batti, Ramniwas s/o Chunaram Jat, R/o Kathauti, Rasida Begam w/o Fharukh Khan, Sher Muhammad s/o Fharukh Khan, R/o Sherani Abad, Jamir Ahamad s/o Ramjani, cast – Musalman Silawat, R/o Khatedar, Babu Khan s/o Phajru Khan, cast – Kayamkhani, R/o Phagali, Tehsil & Dist- Nagaur khatedar
1139	Private	G.M. Abadi	0.1858		Tilokaram s/o Padma Ram, Rakwa 0.16 bigha, cast – Jat, R/o Binchawa, Tehsil – Didwana, Shankar Ram s/o Nathu Ram, cast – Bisnoi, R/o Jetpurakalan, Teh – Degana, Rakawa 0.16 bigha Khatedar, Sarfudin s/o Kamaludin, cast – Muhamad Gahlot, Igyarasi w/o Sohan Lal, cast – Brahman, R/o Kathauti, Manju Devi w/o Ghanshyam, cast – Brahman, R/o Kathauti Khatedar
1142	Private	Barani 2	0.6283		Bhuraram s/o Jujharam, cast – Harijan, R/o Khatedar, Nirupa Mohamad w/o Nadim Akhtar, cast – Musalman silawat, Akhtar Husain s/o Jamir Ahamad, R/o Khatedar
1189	Private	Barani 2	0.0490		Amararam s/o Motiram, cast – Babari, R/o Khatedar
1190	Private	Barani 2	0.9894		Narbada Beba, Bhawardas, Naresh, Surjit s/o Bhawar Das, cast – Shad R/o Khatedar
1191	Private	Barani 2	0.0652		Narbada Beba, Bhawardas, Naresh, Surjit s/o Bhawar Das, cast – Shad R/o Khatedar
1192	Private	Barani 2	0.1166		Mohamad Aarif s/o Kalu Mohamad, cast – Lilgar Musalman, R/o Khatedar
1193	Private	Barani 2	0.8359		Sitaram s/o Birmaram, cast – Regar, R/o Khatedar, Harkaran s/o Birmaram, cast – Regar, R/o Khatedar
1194	Private	Barani 2	0.5709		Allanur, Abdulhamir, Shabir Ahmad, Julphakar Ali, Jakir Husain s/o Farid, cast – Silawat musalman, R/o Khatedar, Rakwa 2-05, Muinudin s/o Bilaludin, Jeibunisa w/o Bilabudin, Tufel Ahmad, Shabir Husain s/o Khalil Ahmad, Sufiya w/o Khalil Ahmad, Nasir Ahamad, Jamir Ahamad s/o Saradu, cast – Silawat musalman, R/o Khatedar
1195	Private	Barani 2	0.2948		Mohan Ram s/o Pitha Ram, cast - Regar, R/o Khatedar
1219	Private	Barani 2	0.5637		Amararam s/o Motiram, cast – Babari,

				R/o Khatedar
1507	Private	Barani 2	0.6849	Purana Das s/o Saraju Das, cast - Sad, R/o Khatedar
1551	Private	Barani 2	0.1818	Gajanand, Kamal, Pravin s/o Madan Lal, Manju Devi Bewa, Madan Lal, cast - Regar, R/o Khatedar, Mortgage Gajanand, Pravin, Manju, share - 3/4, share Jaipur Thar Gram Bank Branch, Khatukalan Murtheen
1552	Private	Barani 2	0.3009	Govind Lal, Muni Lal, Chhotu Lal s/o Raghuwar Das, Amari Devi w/o Raghuwar Das, cast - Sad, R/o Khatedar
1555	Private	Barani 2	0.0108	Gyanaram s/o Bhawar Lal, cast - Khatik, R/o Khatedar, share 1-00 bigha, Baudi w/o Gopal Ram, cast - Meghwal, R/o Chhotukhatu, Tehsil - Didwana Khatedar, share - 1-00 bigha, Bhawar Lal s/o Kisan Lal, cast - Meghwal, share 1-11 bigha, Sampat Ram s/o Jhumar Ram, cast - Dholi, R/o Khatedar, share 1-10 bigha, Fatmabano w/o Fayajakhan, cast - Sherani Musalman, R/o Sherani Abad, The - Didwana
1556	Private	Barani 2	0.0650	Safik Ahamad Khichi s/o Noor Mohamad Khichi, cast - Musalman, R/o Khatedar
1557	Private	Barani 2	0.3648	Salimbegam w/o Fakrudin, cast - Musalman silawat, Mohamad Salim s/o Mohamad, cast - Chipa Musalman, R/o Degana station, Tehsil - Degana Khatedar
1558	Private	Barani 2	0.3044	Sultan Khan s/o Lodukhan, cast - Sherani musalman, R/o Sherani Abad, Bajarudin s/o Jalal Khan, cast - Sherani musalman, R/o Banthdi, Din Mohamad s/o Lodukhan, cast - Sherani Musalman, R/o Sherani Abad, Tehsil - Didwana Khatedar
1560	Private	Barani 2	0.7902	Gajanand, Kamal, Pravin s/o Madan Lal, Manju Devi Beba, Madan Lal, cast - Regar, R/o Khatedar, Mortgage Gajanand, Pravin, Manju's share - 3/4, Jaipur Thar Gram Bank Branch Khatukalan
1561	Private	Barani 2	0.0059	Kanaram s/o Dharmaram, Pana Lal, Gajanand s/o Mohan Ram, Sohani w/o Late. Mohan Ram, Nemi Chand s/o Ramuram, Rami Beba, Banshi Ram, Mangi Lal, Parsa Ram, Rikhu Ram s/o Banshi Ram, Hadman, Papu, Indra Ram s/o Gangaram Ayachuki Beba, Gangaram, Shankar Lal, Hadman s/o Purnaram, Jangali Beba, Purna Ram, cast - Regar, R/o Khatedar
1568	Private	Barani 2	0.0066	Ratan Lal s/o Gulab Chand, cast - Brahman, share 1/2, Jumma urf Junja s/o Ganesh, Juma, Mithu Ram, Babu Lal s/o Mohan Ram, cast - Mehtar, R/o Khatedar, Ramu, Labu, Om s/o Arjun, Durgaram, Budharam, Tejaram, Ishar Papiyo s/o Popala, Purna Ram, Hemaram, Munnaram, Nenuram, Jay Chand, Jugal s/o Mula, cast- Harijan, share 1/2, R/o Khatedar
1571	Private	Barani 2	0.9713	Shishpal, Trachand, Kailash Ram, Ram Niwasi s/o Ghewar, Baludi Bewa Ghewar, Samptram, Bijaram, Tikuram, Dasrath s/o Kalu, Sita Beba, Kalu, Bijaram, Tikuram, Dashrath s/o Kalu minor, caretaker mother Sita Beba, Kalu, Kamla w/o Khumaram, Nirmal Kumar, Monu s/o Khuma Ram, Kiran, Saroj,

				Kanta, Pintu, Gyarasi d/o Khumaram, cast – Harijan R/o khatedar, Gomda S/o Suja cast Harijan R/o khatedar Paburam s/o Devaram, cast – Meghwal, R/o Naudoli Meditiya, Tehsil – Makrana, share 1.02 bigha Khatedar
1572	Private	Barani 2	0.2147	Mohamad Imran s/o Mohamad Kasam, cast – Musalman Rangrej, R/o 142, Ranrej Mohalla, ward no. 16 Didwana, Tehsil – Didwana Khatedar
1578	Private	Barani 2	0.8589	Abdul Hamid, Jahagir s/o Ramjani, Abdul Karim s/o Ali, cast – Musalman Silawat, R/o Khatedar
1579	Private	Barani 2	0.0658	Hamidudin, Sarafudin, Jiyaudin s/o Hajiamarudin, Rasida Begam, Hamida Begam Beba, Haji Amarudin, Abrar Ahamad, Asfak Ahamad, Nisar Ahamad, Jimal Ahamad, Asfar Ahamad s/o Ekbal Ahmad, Shakuran Late w/o Ekbal Ahamad, cast – Musalman shekh, R/o Khatedar, Haji Asaraf Ali, Gayasudin, Mohamad Asagar s/o Haji Jamaludeen, cast – Musalman Shekh, R/o Khatedar
1584	Private	Barani 2	0.6447	Ali Mohamad s/o Chand Khan, cast – Chopdar Musalman, R/o Sujangarh, Ghisu Khan s/o Safi Khan, cast – Lilgar Musalman, R/o Jhhili, Tehsil – Sujangarh, Dist – Churu
1585	Private	Barani 2	0.0317	Hamidudin, Sarafudin, Jiyaudin s/o Hajiamarudin, Rasida Begam, Hamida Begam Beba, Haji Amarudin, Abrar Ahamad, Asfak Ahamad, Nisar Ahamad, Jimal Ahamad, Asfar Ahamad s/o Ekbal Ahmad, Shakuran Late w/o Ekbal Ahamad, cast – Musalman shekh, R/o Khatedar, Haji Asaraf Ali, Gayasudin, Mohamad Asagar s/o Haji Jamaludeen, cast – Musalman Shekh, R/o Khatedar
1586	Private	Barani 2	0.3809	Abdul Majid s/o Safi Mohamad, cast – Lilgar Musalman, Efatkar Ahamad s/o Sabir Ahamad, cast – Silawat Musalman, R/o equal share Khatedar
1587	Private	Barani 2	0.3674	Gulabmani s/o Marhum Haji, Jamaludeen, cast – Musalman (Chauhan), R/o Khatedar
1588	Private	Barani 2	0.5245	Anisur Rahaman s/o Fejul Rahman, share 1/5, Saifur Rahaman s/o Fejul Rahman, share 1/20, Abdulajij, Khalilu Rahaman, Sufifur Rahaman s/o Hafijul Rahaman, share 1/4, Shaiyad Jahud Ali s/o Munshi Mohamad, Ebrahim, cast – Musalman (Shaiyad), R/o Khatu Kalan, Hal Mukan, Sujangarh, Tehsil – Sujangarh, Dist – Churu, Jahur Ali, Jamir Ali s/o Mohamad Ebrahim khursida, Parveen d/o mohhamd Ibarhim Aasiya Begam w/o Yakub Ali, Ramjan, Arif Estkar, Erfan, Sajid s/o Yakub Ali, Rajiya Sayaba, Memuda d/o Yakub Ali, share 1/2, cast – Musalman Saiyad, R/o Khatedar
1589	Private	Barani 2	0.1475	Hamimudin, Sarafudin, Jiyaudin s/o Haji Amarudin, Rasida Begam, Hamida Begam Beba, Haji Amarudin, Abrar Ahamad, Asfak Ahamad, Nisar Ahamad, Jimal Ahamad, Afsar Ahamad s/o Ekbal Ahamad, Shakuran w/o Late. Ekbal Ahamad, cast – Musalman Shekh, R/o Khatedar, Hazi Asaraf Ali, Gayasudin Mohamad, Asgar s/o Haji Jamaldin, cast – Musalman Shekh, R/o Khatedar
1590	Private	Barani 2	0.2834	Hamimudin, Sarafudin, Jiyaudin s/o Haji Amarudin, Rasida Begam, Hamida

				Begam Beba, Haji Amarudin, Abrar Ahamad, Asfak Ahamad, Nisar Ahamad, Jimal Ahamad, Afsar Ahamad s/o Ekbal Ahamad, Shakuran w/o Late. Ekbal Ahamad, cast – Musalman Shekh, R/o Khatedar, Hazi Asaraf Ali, Gayasudin Mohamad, Asgar s/o Haji Jamaldin, cast – Musalman Shekh, R/o Khatedar
1591	Private	Barani 2	0.2226	Bhawar Lal s/o Bhairu, cast – Khatik, R/o Khatedar
1592	Private	Barani 2	0.0453	Rajuram s/o Ghewaram, cast – Giwariya, R/o Chhotikhathu Khatedar, Dharmaram s/o Hema Ram, cast – Giwariya, R/o Chhotikhathu, Nortamal s/o Shrawan Ram, cast – Bawari, R/o Chaukidaro ki Thani Khatedar, Lalita w/o Nortamal, cast – Bawari, R/o Chaukidari ki Thani, Koniya, Tehsil – Didwana Khatedar, Rupa Ram s/o Tulcharam, cast – Meghwal, R/o Kodiya, Tehsil – Didwana Khatedar, Birbal s/o Madan Lal, cast – Bawari, R/o Chaukidaro ki Thani, Koniya, Tehsil – Didwana Khatedar, Madan Lal s/o Kishan Lal, cast – Bawari, R/o Chaukidaro ki Thani, Koniya, Tehsil – Didwana, Khatedar, Harji Ram s/o Jiwan Ram, cast – Meghwal, R/o Khudi, Tehsil – Didwana, Khatedar, Kaluram s/o Mangaram, cast – Sargara, R/o Chhotikhathu, Tehsil – Didwana, Khatedar, Dalaram s/o Banaram, cast – Meghwal, R/o Khudi, Tehsil – Didwana, Khatedar
1593	Private	Barani 2	0.1257	Nanuram s/o Bheruram, cast – Gujar, R/o Khatedar, Ramchandra s/o Kanaram, cast – Jat, R/o Khangar, Tehsil – Ladnu, Rakwa 0-10 Bigha Khatedar, Anni Devi w/o Tejaram, cast – Jat, share 0-10 Bigha, R/o Hirasani, Kamla Devi w/o Ramdeo, Sugana Devi w/o Deokaran, cast – Jat, R/o Kachras Khatedar, Surataram s/o Chimanaram, cast – Jat (Choyal), R/o Rajapura, Tehsil – Degana, Khatedar, Jalal Khan s/o Habib Khan, cast – Sherani Musalman, R/o Sherani Abadi, Tehsil – Didwana Khatedar, Mohamad Husain s/o Jalal Khan, cast – Sherani Musalman Abad, Tehsil – Khatedar
1617	Private	Barani 2	0.4541	Ramswaroop Chaudhary s/o Mahadev, cast – Jat, R/o Near - Regional College, Pushkar Road Kotada, Ajmer Khatedar, Mohamad Emran s/o Mohamad Kasam, cast – Musalman Rangrej, R/o 142 Rangrej Mohalla, ward no. 16, Didwana, Tehsil – Didwana Khatedar
1618	Private	Barani 2	0.0393	Laxman s/o Parsa, cast – Meghwal, R/o Kotada, Ajmer, Tehsil & Dist – Ajmer Khatedar
1619	Private	Barani 2	0.0485	Salim Begam w/o Fakrudin, cast – Musalman Silawat, R/o Mohamad Salim s/o Mohamad, cast – Chhipa Musalman, R/o Degana Station, Tehsil – Degana Khatedar
1620	Private	Barani 2	0.3829	Rayaj Ahamad, Khalil Ahamad s/o Jagir Ahamad minor caretaker of father Jamir Ahamad s/o Ramjani, cast – Musalman Khatri, R/o Khatedar
1622	Private	Barani 2	0.0511	Jamir Ahamad s/o Ramjan, cast – Musalman Silawat, R/o Khatedar, Jamir Ahamad s/o Muni, cast – Musalman Silawat, R/o Khatedar
1684	Private	Barani 2	0.2822	Kanaram s/o Narayanram, cast - Gujar,

					R/o Khatedar
					Hajariram s/o Kalu, Bhawar Lal, Chhoturam, Pusaram s/o Kanaram, Chandmal, Kaluram s/o Govindram, Kaluram minor caretaker mother Bau Devi w/o Govindram, Budharam s/o Asuram, Hajari Ram, Megharam, Setheram, Kaluram, Tejaram s/o Madhu, Bhawari w/o Late. Madhu, cast – Gujar, R/o Khatedar
					Kana s/o Narayan, share 1/2, Hajari s/o Baluram, cast – Gujar, R/o Khatedar
					Salamat Bano w/o Gani Khan Cast Muslim sherani R/o Village the Didwana share 1/2 bigha khatedar
					Kana s/o Narayan, share 1/2, Hajari s/o Baluram, cast – Gujar, R/o Khatedar
					Mohamad Husain s/o Mumtaz Khan, cast – Musalman, R/o Firozpura, Khatedar, Ejaj Mohamad s/o Nisarudin, cast – Musalman, R/o Bhiniyad, Khatedar, Shankar Lal s/o Jayram, cast – Jat, R/o dihpura Khatedar
					Total 17.1972
	(2) Ubasi				Teja Ram s/o Radha Kisan, cast – Jat, R/o Khatedar
					Nani Devi, Rudha Ram, Kailash s/o Rudha Ram, Dev Karan s/o Bhagirath, cast – Jat, R/o Khatedar
					Teja Ram s/o Mula Ram, cast – Jat, R/o Khatedar
					Pita Ram s/o Hema Ram, cast – Jat, R/o Khatedar, Mortgage Pita Ram s/o Hema Ram, A/c in SBI Branch, Chhotikhatu Murtheen
					Jay Ram s/o Narayan Ram, cast – Jat, R/o Khatedar
					Jora Ram s/o Dewa Ram, cast – Jat, R/o Khatedar
					Prema Ram s/o Ramniwas, Badri Ram, Kala Ram s/o Anna Ram, cast – Jat, R/o Khatedar, Mortgage part of Badri Ram, share 1/4, Bharti State Bank Branch, Chhotikhatu, Kala Ram s/o Anna Ram, share – SBI Bank Branch, Chhotikhatu, Ramniwas s/o Anna Ram, Share – SBI Baranch, Chhotikhatu
					Rekha Ram s/o Jawan Ram, Ramdin s/o Bheru Ram, cast – Jatt, R/o Khatedar
					Fateh Singh s/o Chiman Singh 1/2, Ratna Ram s/o Chotha Ram, cast – Jat, R/o Daboli Mithi, Tehsil - Degana, Rakawa 11.09 Bigha, Bhiv Singh, Bhur Singh, Narayan Singh, Samandar Singh, Samandar Singh, Ganga Singh s/o Madan Singh Rajput, share – 1/4, Chein Singh adopted s/o Ladu Singh, share – 1/4, cast – Rajput, R/o Khatedar
					Ramniwas, Badrirama, Hanuta Ram, Kala Ram s/o Anna Ram, cast – Jat, R/o Khatedar, Mortgage Badri Ram, share 1/4, Ramniwas, share – SBI Chhotikalan Khatu, Kala Ram, share – SBI Chhotikalan
					Bhera Ram, Jay Ram s/o Narayan Ram, cast – Jat, R/o Barasar Khatedar
					Pita Ram s/o Hema Ram, cast – Jat, R/o Khatedar, Mortgage Pita Ram s/o Hema Ram, A/c in SBI Branch, Chhotikhatu
					Teja Ram s/o Mula Ram, cast – Jat, R/o Khatedar
					Santoshi Devi, Godani w/o Manoj

							Kumar, Godani, R/o Sanju, Tehsil – Degana Khatedar, Santoshi Devi w/o Chhagu Lal Sharma, cast – Brahmin, R/o Sanju, Tehsil – Degana Khatedar	
			459	Private	Barani 2	0.3138	Rugh Nath s/o Chuna Ram, cast – Jat, R/o Khatedar, Mortgage J.NA.AA.GRA Bank Tarnau Murteen , Janaki Devi beva Kesa Ram, Surja Ram, Chanda Ram, Jagdish s/o Kesa Ram, Pusa Ram s/o Bhura Ram, Taru Ram s/o Shimbhu Ram, Mu. Achuki beva Shimbhu Ram, Nathu Ram s/o Chela Ram, Patasi Devi w/o Chela Ram, cast – Jat, R/o Khatedar. Mortgage Janaki, Suraja Ram, share – Bharatiy State Bank Branch Chhokikhathu, Taru Ram, Achuki, share Rahi Jaipur Thar GRA. Bank Branch, Ratau, Nathu Ram s/o Chela Ram, Patasi w/o Chela Ram, share – Jaipur Thar. Gra, Bank Branch Khatukalan Murtheen	
					Total	2.8810		
		(3) Berasar	131	Private	Barani 1	0.2077	Harkaran Ram, Dhana Ram s/o Girdhari, cast – Jat, R/o Ubasi, Khatedar, Mortgage SBBJ Branch Kasanau	
			132	Private	Barani 1	0.0055	Smt. Mohini Devi w/o Panna Lal, cast – Jat, R/o Ubasi Khatedar Mortgage SBI Branch, Chhotikhathu	
			489/133	Private	Barani 2	0.0304	Bhairu Ram s/o Ram Karan, cast – Jat, R/o Khatedar	
			134	Private	Barani 1	0.2701	Ravi Kumar s/o Rikhabchand, Dhariwal, cast – Mahajan, R/o Chhotikhathu, Tehsil – Didwana Khatedar	
			136	Private	Barani 1	0.0201	Ravi Kumar s/o Rikhabchand, Dhariwal, cast – Mahajan, R/o Chhotikhathu, Tehsil – Didwana Khatedar	
			137	Private	Barani 1	0.0125	Jitendra s/o Teja Ram, Kailash s/o Surajkaran, cast – Jat, R/o Kheirwa, Tehsil – Degana Khatedar	
			138	Private	Barani 1	0.0390	Mana Ram s/o Jora Ram, Radh Kishan s/o Jeta Ram, Deva Ram s/o Chandra Ram, Chhoti Devi w/o Chandra Ram, Manu Devi, Ganesh Ram, cast – Jat, R/o Khatedar, Jitender s/o Teja Ram, Kailash s/o Suraj Karan, cast – Jat, R/o Kheirawa, Tehsil – Degana Khatedar	
			147	Private	Barani 1	0.0034	Mahendra Singh urf Mehram, Ugama Ram s/o Kistur Ram, cast - Jat, R/o Ubasi Khatedar, Chandra Ram s/o Nanu Ram, cast - Jat, R/o Khatedar	
			148	Private	G.M. Bara	0.0011	Kistur Ram, Chandra Ram s/o Nanu Ram, cast - Jat, R/o Ubasi Khatedar	
			149	Private	Barani 1	0.0680	Jiwali Beba, Pema Ram, Ganga w/o Bhagirath Ram, Chanavi w/o Purna Ram, Chhoti Devi w/o Baldev Ram, Luna Ram, Basti Ram, Teja Ram s/o Mula Ram, Keila Devi, Mangu Devi d/o Mula Ram, Hunata Ram s/o Asa Ram, Hema Ram s/o Dhana Ram, cast – Jat, R/o Khatedar	
			150	Private	Barani 1	0.1337	Govind Das s/o Parsa Das, cast - Sad, R/o Ubasi Khatedar Mortgage SBI Branch Chhotikhathu	
			447	Private	Barani 1	0.0236	Govind Das s/o Parsa Das, cast - Sad, R/o Ubasi Khatedar Mortgage SBI Branch Chhotikhathu	
			464/447	Private	Barani 1	0.0078	Govind Das s/o Parsa Das, cast - Sad, R/o Ubasi Khatedar Mortgage SBI Branch Chhotikhathu	
					Total	0.8230		
		4. Degana	(1) Khivtana	9	Private	Barani 1	0.1447	Igyashiram s/o Ashuram caste Jaat R/o Sanju Khatedar
				659/50	Private	Barani 1	0.1811	Asharam, Kanaram, s/o Nanuram s/o

					Ramuram caste Jaat R/o Khatedar Rahan Durgaram Tarachandra s/o Ramram, Pancharam, Asharam s/o Nanuram's part Anchlik Gramin Bank Branch Sanju
51	Private	Barani 2 +	0.0476		Amersingh s/o Shersingh Manoharkanwar w/o Shersingh Sonukanwar D/o Shersingh caste Rajput R/o Khatedar, Rahan SBI Branch Choti Khaatu Murtheen
54	Private	Barani 2 +	0.8636		Ramdev s/o Ramuram caste Bhanbi R/o Khatedar Rahan S.Co.Bank Branch Degana
55	Private	Barani 2 +	0.2861		Bhanweroram Bastaram s/o Pokarram Bhagnudi w/o Pokarram Misharam, Bhagirath Harkaran s/o Shriram caste Lawar R/o Khatedar
57	Private	Barani 1	0.2602		Heeraram s/o Pancharam caste Jaat R/o Khatedar mortagage Jaipur Thar Gramin Bank Branch Sanju
68	Private	Barani 1 +	0.4204		Mohanaram Joruram s/o Tulcharam caste Jaat R/o Khatedar mortagage Jaipur Thar Gramin Bank Branch Sanju
78	Private	Barani 1 +	0.1461		Rajeshchand Bhandari s/o Shripalchand Bhandari Lalitchand Bhandari s/o Shripalchand Bhandari caste Jain (Mahajan) R/o Choti Khaatu Tehshil Deedwana Bhairuram s/o Ashuram caste Jaat R/o Sanju Khatedar
79	Private	Barani 1 +	0.3619		Khivsingh s/o Chelaram caste Jaat R/o Sanju Khatedar mortagage J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju Murtheen
85	Private	Barani 1	0.0050		Premsingh s/o Chouksingh caste Rajput R/o Sanju Khatedar Rahan J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju's Murtheen
86	Private	Barani 1	0.3765		Mangtaram s/o Nathmal Das 3/4 Hanumanprasad Dhanraj Ichrach w/o Hariprasad Vishal Puneet s/o Hariprasad Komal D/o Hariprasad Pugeki w/o Shobharam caste Sad R/o Sanju Khatedar
178	Private	Barani 1 +	0.7258		Ramdev s/o Kishnaram Hanuman s/o Heeraram Shayri w/o Heeraram caste Jaat R/o Khatedar Rahan Hadman part of land J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju's Murtheen
179	Private	Barani 1 -	0.4237		Jairam Bhairuram s/o Narayanram caste Jaat R/o Berashar Khatedar
182	Private	Barani 1	0.1310		Joraram s/o Narayanram caste Jaat R/o Khatedar Rahan S.B.I. Branch Chotikhaatu
293/84	Private	Barani 1	0.2170		Moturam s/o Nimbaram caste Bhanbi R/o Sanju part 1/2, Igyaarsheeram s/o Aasharam Jaat part 1/2 R/o Deh Khatedar
365/178	Private	Barani +	0.4131		Jagdish Kishnaram s/o Jeevanram Geki Devi w/o Late. Jeevanram caste Jaat R/o Deh Khatedar Rahan J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju's Murtheen
440/74	Private	Barani 1 +	0.0299		Radhadevi w/o Chenaram caste Jaat R/o Khatedar
56/3	Private	Barani 1	0.3859		Magaram s/o Narayanram caste Jaat R/o Khatedar
56/4	Private	Barani 1	0.0609		Heeraram s/o Pancharam caste Jaat R/o Khatedar
56/5	Private	Barani 1	0.2923		Kani Devi w/o Kishnaram Roopadevi D/o Kishnaram Mohni Devi w/o Kisturram Budharam Rajendra s/o Kisturram Suman Saroj D/o Kisturram caste Jaat R/o Khatedar
57/1	Private	Barani 1	0.2123		Kani Devi w/o Kishnaram Roopadevi D/o Kishnaram Mohni Devi w/o Kisturram Budharam Rajendra s/o

							Kisturram Suman Saroj D/o Kisturram caste Jaat R/o Khatedar
			57/2	Private	Barani 1	0.0245	Lalaram s/o Bhairuram caste Jaat (Bainda) R/o Deh Khatedar
			584/74	Private	Barani 1 +	0.0747	Salagram s/o Budharam caste Jaat R/o Khatedar
			627/295	Private	Barani 2 +	0.0840	Asharam Prabhuram Chhoturam s/o Ramkaran Kamla D/o Ramkaran caste Jaat R/o Khatedar Rahan C.B.I. Branch Degana
			628/295	Private	Barani 1 +	0.1196	Kishnaram s/o Sukhdevaram caste Jaat R/o Khatedar Rahan J.Na.Aa.Gra. Bank Sanju
			68/1	Private	Barani 1 +	0.0401	Narshiram s/o Heeraram caste Jaat R/o Khatedar
					Total	6.3279	
	(2) Saanju		283	Private	Barani 2 -	0.7014	Sujaram s/o Dugaram 3/4 ha. Bheraram s/o Nathuram caste Meghwanshi (Bhambi) R/o Peeploon Road Siwana District Badmer, Heeraram s/o Moolaram share 1/4 caste Meghwanshi R/o Khatedar Rahan Heeraram s/o Moolaram's part J.Th.Gra. Bank Branch Sanju
			284	Private	Barani 2 -	0.0513	Bheraram s/o Nathuram caste Meghwanshi (Bhambi) R/o Peeploon Road Tehsil Siwana District Badmer Heeraram s/o Moolaram caste Meghwanshi R/o Khatedar, Rahan Heeraram s/o Moolaram's share J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju
			285	Private	Barani 2 -	0.3609	Jagdev s/o Gopalsingh caste Rajput R/o Bagoli Tehsil Udaipur District Jhunjanu Khatedar, Chenaram Kaluram Omprakash Pappu Raju s/o Mangilal caste Saad R/o Khatedar Rahin Omprakash's share Nagaur Sahkari land development Bank Branch Degana
			291	Private	Barani 2 -	0.7467	Joraram s/o Bhomaram Mu. Mangidevi w/o Bhomaram caste Meghwal R/o Deh Khatedar Rahin Nagaur Sahkari land development Bank Branch Degana Murtheen, Bhanweridevi w/o Lunaram 1/2 Kamladevi w/o Channaram 1/2 caste Meghwal R/o, Birmaram s/o Sukhara, caste Meghwanshi R/o Saithanram s/o Chelaram caste Meghwal R/o Maatsukh Tehil Jayal PWD
			300	Private	Barani 1	0.9891	Ameraram s/o Joraram Bholidevi w/o late. Joraram caste Jaat R/o Rahan J.Th.Gra. Bank Branch Sanju, Premdevi w/o Hardinram caste Jaat R/o Khatedar Rahan J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju's Murtheen
			301	Private	Barani 1	0.0868	Papudevi w/o Chotmal caste Sunar R/o Madanlal Domodar Tulshiram Ghewerchand s/o Shrikishan Mu. Malidevi w/o Shrikishan, Mu. Papudevi w/o Chotmal caste Sunar 6 Bigha Papudevi w/o Chotmal caste Sunar 4 Bigha R/o Khatedar
			302	Private	Barani 1	0.0147	Pawankumar Dineshkumar s/o Bhagwatiprasad caste Brahman R/o Khatedar, Rahan J.Th.Gra. Bank Branch Sanju
			304	Private	Barani 1	0.4683	Premdevi w/o Hardeenram caste Jaat R/o Deh Khatedar, Ameraram s/o Joraram, Bholidevi w/o Joraram R/o Rahan J.I.G.B. Bank Branch Sanju
			305	Private	Barani 1	0.4402	Ratanlal s/o Ramuram caste Mali R/o Deh Rahan J.Th.Gra. Bank Branch Sanju, Shyamlal s/o Dularam R/o

					Gadhsurya Teh. Bilada District Jodhpur, Unkar Ram Baldevram s/o Shirda Ram, Mohan Ram s/o Puraram caste Jaat R/o Somrado ki Dhani Ravniyana Teh. Bilada District Jodhpur Khatedar
	307	Private	Barani 1	0.5767	Balwantsingh s/o Ugamsingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan J.Th.Gra. Bank Branch Sanju
	308	Private	Barani 1	0.4594	Mahendrasingh Ramsingh Shyamsingh s/o Hadmansingh Deepkanwer w/o Hadmansingh caste Rajput R/o village
	382	Private	Barani 2	0.9808	Jadav w/o Banshiram, Bhanwerlal, Seetaram s/o Banshiram, Jagdish s/o Chagnaram, Bhairam s/o Manglaram, Chandi w/o Manglaram caste Meghwal, Baya w/o Kaluram caste Nayak R/o, Hanuman s/o Bhaduda R/o Shyampura Teh. Medta caste Meghwal, Jeetaram s/o Rampal caste Regar R/o Idwa Tah. Degana Rahan Jadav w/o Banshiram, Bhanwerlal, Seetaram s/o Banshiram, Jagdish s/o Chagnaram, Bhairam s/o Manglaram, Chandi w/o Manglaram caste Meghwal R/o J.Th.Gra. Bank Sanju
	409	Private	Barani 2	0.6421	Hadman Nath s/o Devnath, Amritnath s/o Rugnath caste Nath R/o village
	410	Private	Barani 2	0.2530	Kishnaram s/o Bholaram caste Meghwal R/o Rahan J.Th.Gra. Bank Sanju
	452	Private	Barani 2	0.9211	Babladevi w/o Kanaram, Himmataram s/o Girdharilal caste Meghwal R/o village
	465	Private	Barani 2 -	1.0108	Bhanwerlal s/o Ranjeet, Andaram Imratram s/o Banaram Shivri w/o Banaram caste Babri R/o, Ramniwash s/o narayanram Meghwal R/o Kunaram s/o Narayanram caste Meghwal R/o Khatedar
	401/1	Private	Barani 2	0.2035	Shivdayal s/o Lakshinarayan caste Mahajan R/o village
	401/2	Private	Barani 2	0.4108	Pusharam urf Purshottam s/o Lakshminarayan caste Mahajan R/o village
			Total	9.3176	
(3) Chausaly	224/62	Private	Barani 2	0.0259	Premdevi w/o Madaram Meghwal R/o Khatedar
	123	Private	Barani 2 +	0.1440	Harjiram s/o Tejaram caste Bhambi R/o Khatedar, Khata Rahan S.B.I Branch Degana Murtheen
	128	Private	Barani 2	0.1735	Sukhdev Ramshukh Ramnivash Hadman s/o Motiram caste Bhambi R/o Khatedar Rahin Sukhdev's share J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju Murtheen, Rahan Ramsukh's share C.B.I. Branch Degana Murtheen
	129	Private	Barani 2 +	0.2197	Arjanram s/o Baldevram caste Bhambi R/o Khatedar R/o O.B.C. Bank Branch Degana
	130	Private	Barani 2	0.5337	Harlal s/o Pancharam caste Meghwal, Kailash s/o Chelaram Madhu d/o Chelaram Nathi w/o Chelaram Meghwal, Jeevanram s/o Gangaram Meghwal R/o Bamankhurd Rahan Harlal s/o Pancharam's share OBC Degana
	131	Private	Barani 2	0.0164	Prahladram Ganeshram Boduram s/o Umaram Habudevi D/o Umaram caste Bhambi R/o Khatedar
	137	Private	Barani 2 -	0.6221	Jawanaram, Chelaram, s/o Bhaguram, Jalaram s/o Bhagu Meghwal, Galkudevi w/o Chagnaram Meghwal R/o Ubashi Tahshil Jayal Rahan Jalaram s/o Bhagu's share OBC Degana

				138	Private	Barani 2	0.6283	Bidshi w/o Beeram, Vinod s/o Beeram Jashoda w/o Vinod Meghwal R/o Monuram s/o Moduram Ganwariya R/o Sanju, Madanram adopted S/o Manguram Meghwal Rahan OBC Degana
				139	Private	Barani 2	0.3697	Shravanram s/o Shawantaram, Tulcharam s/o Gheesharam Bhambi 1/2 Tulcharam s/o Gheesharam Shivram s/o Gheesharam 1/2 Bhambi R/o Sanju Khatedar, Rahan Shravanram s/o Shawantaram's share Sanju Khatedar, Shravanram s/o Shawantaram's share J.Na.Aa.Gra. Bank Branch Sanju's Murtheen
				141	Private	Barani 2 Barani 2 -	0.6081	Goduram s/o Jairam Sonki caste Meghwal R/o village Rahan OBC Degana Sonki w/o Shobharam, Suresh s/o Shobharam Chodudi D/o Shobharam caste Meghwal R/o Rahan OBC Degana Murtheen
				166	Private	Barani 2 +	0.1589	Hadmandash s/o Ashudash caste Shad R/o Khatedar
				174	Private	Barani 2 +	0.6076	Tulcharam Bhairuram s/o Jeevanram caste Jaat R/o Khatedar
				175	Private	Barani 2 +	0.1490	Motiram s/o Bheruram caste Jaat R/o Khatedar Rahan Motiram's share J.Th.Gra. Bank Branch Sanju
				189/2	Private	Barani 2	0.1949	Ramnivash Hariram s/o Bhairuram caste Kumhar R/o Khatedar Rahan Ramnivash's share OBC Branch Degana Murtheen
				190	Private	Barani 2	0.6004	Narayanram s/o Choutharam caste Jaat R/o Davolimeethi Khatedar
				195	Private	Barani 2	0.0023	Arjunsingh s/o Vijayrajsingh caste Rajput R/o Khatedar
				196	Private	Barani 2	0.1571	Sawayee Mohansingh Hukamsingh Manoharsingh s/o Magansingh caste Rajput R/o Khatedar
						Total	5.2115	
		(4) Bamnakhurd		183/63	Private	Barani 2 -	0.0822	Sujaram s/o Mahram caste Jaat R/o Khatedar
				185/64	Private	Barani 2 -	0.7805	Chandrakala D/o Devaram Dropadi w/o Harkanram caste Jaat R/o Khatedar
				187/65	Private	Barani 2 -	0.4200	Bhawarlal Govindlal Rameshwarlal Shravanlal s/o Shankardash Birjadevi Bhawarlal Govindlale Rameshwar Lal Shravanlal s/o Shankardash Birjadevi w/o Shankardash Mishudash s/o Ramshurbdash Beeddichand s/o Gangadas caste R/o Khatedar
				193/67	Private	Barani 2 -	0.1945	Sujaram s/o Mahram caste Jaat R/o Khatedar
				215/63	Private	Barani 2 -	0.2048	Nathuram s/o Fatehsingh Topkanwer w/o Fatehsingh Mansingh Shivsingh s/o Bhawarsingh Anopkanwer w/o Bhanwarsingh Kesharkanwer D/o Bhanwarsingh Uchchkanwer w/o Ganpatsingh Bhairusingh s/o Ganpatsingh Rewantsingh Motisingh Vijaysingh Hanumansingh Madansingh s/o Lakhsingh caste Rajput R/o Khatedar
						Total	1.6819	
		(5) Bamnakan		28	Private	Barani 1 +	0.2125	Magudi w/o Jeevanram Ramdin s/o Jeevanram caste Gurjar R/o Khatedar Rahan J.Th.Gra.Bank Sanju Murtheen
				45	Private	Barani 2 -	1.7761	Bhanweri Dhapudi Bholki Chotudi Maludi s/o Boduram Pusharam s/o Chunaram Luhar R/o Khatedar
				62	Private	Barani 2 +	0.1915	Durgasingh Teekamsingh s/o Lalsingh Mohankanwer w/o Lalsingh R/o village Narendrasingh Anandsingh s/o

				Bannarsingh caste Rajput R/o village Premsingh s/o Bhanwersingh caste Rajput R/o village
63	Private	Barani 2 +	0.0832	Rukmani w/o Shivraj Ramnivash Karnaram Kishnam Babulal Rekharam s/o Shivraj Joraram s/o Natharam Bhanwerlal s/o Loduram Nimbaram Girdhari Mangaram Kisturram Lalaram s/o Jawanaram Jyanadevi w/o Shimbburam Ganpatram Dharmaram s/o Shimbburam Mainadevi D/o Shimbburam caste Jaat R/o village Bhowerlal s/o Loduram caste Jaat R/o Gunsali, Joraram's share Rahan OBC Branch Degana
65	Private	Barani 2 +	0.4371	Shravansingh Bhawanisingh s/o Narpatsingh Mangejkanwer w/o Narpatsingh Premsingh Bakhtawarsingh s/o Bhanwersingh Durgasingh Teekamsingh s/o Lalsingh Mohankanwer w/o Lalsingh Narendrasingh Anandsingh s/o Bannarsingh caste Rajput R/o Khatedar Rahan Shrivansingh Bhawanisingh Mangejkanwer's share OBC Branch Degana Murtheen
66	Private	Barani 2 +	0.6660	Rukmani w/o Shivraj Ramnivash Karnaram Kishnam Babulal Rekharam s/o Shivraj Joraram s/o Natharam Bhanwerlal s/o Loduram Nimbaram Girdhari Mangaram Kisturram Lalaram s/o Jawanaram Jyanadevi w/o Shimbburam Ganpatram Dharmaram s/o Shimbburam Mainadevi D/o Shimbburam caste Jaat R/o village Bhowerlal s/o Loduram caste Jaat R/o Gunsali, Joraram's share Rahan OBC Branch Degana
67	Private	Chahi 3	0.1910	Kansingh s/o Pabudansingh Rajput R/o village Rahan OBC Branch Degana
68	Private	Barani 2	0.0250	Tilokram Durgaram s/o Manguram Genadevi w/o Manguram Premadevi Sonidevi Roopadevi Munnidevi D/o Manguram Sugnam s/o Surjaram Baluram Premaram s/o Hanutaram Narayannidevi w/o Hanutaram Santudevi D/o Hanutaram Sagram s/o Aasharam caste Jaat R/o village
98	Private	Barani 2 -	0.3399	Naharsingh Adopted S/o Ramsingh caste Rajput R/o village, Hariram s/o Dhannaram caste Jaat R/o Khatedar
101	Private	Barani 2	0.0475	Smt. Kamalkanwer w/o Kheevsingh caste Rajput R/o Pal District Jodhpur Hal Nivashi Bamnakalan Khatedar
103	Private	Barani 2	0.2874	Parsharam s/o Purkharam caste Khaati R/o Khatedar
104	Private	Barani 2 -	0.6306	Chandraram s/o Mahram caste Jaat R/o village
106	Private	Barani 2 -	0.1037	Chandraram s/o Mahram caste Jaat R/o village
107	Private	Barani 2	0.0229	Nathuram s/o Manguram caste Bhambi R/o Khatedar
		Total	5.0143	
(6) Gundisar				Hemadashu s/o Sevadash Shad 1/4 Ramddin, Tejaram, Choutharam, Jeevanram, s/o Kumbhala caste Nayak 1/4 Kishnam Punaram s/o Umaram Kanidevi w/o late. Umaram, 1/8 Chandra s/o Amra 1/8 Jawaana s/o Dharu 1/8 Gheesha s/o Bhairu 1/8 caste Bhambi R/o Chandni Khatedar Rahan Hemadash s/o Sevadash's share OBC Branch Degana
28	Private	Chahi 3	0.1111	

				173	Private	Barani 2	0.1867	Mowanaram, Sawantaram s/o Kaluram Bhambi R/o Bayna Khatedar
				199	Private	Barani 2	0.3043	Kaluram, Birmaram Kisturram Choturam Genaram s/o Balaram Fefadevi w/o Balaram Keshudi w/o Gheesharam caste Jaat R/o Khatedar, Ramuram s/o Kisturram Shayari Devi W/o Kusturram caste Jaat R/o Habchar Khatedar
				207	Private	Barani 2	0.0215	Harisingh s/o Samdarsingh caste Rajput R/o Chandni Khatedar
				228	Private	Barani 2	0.0634	Biharidan Umardan s/o Bishandas caste Charan R/o Khatedar, Prabhudan Prahladdan s/o Mangdan, Raviraj Sekhdan s/o Umardan caste Charan R/o Khatedar
				250	Private	Barani 2	0.0096	Manglaram adopted S/o Jairam caste Bhambi R/o Khatedar, Manguram s/o Budharam caste Bhambi R/o Khatedar, Shobharam Jaichand Papuram s/o Umaram Panchidevi w/o late. Umaram caste Bhambi R/o Khatedar, Pancharam s/o Budharam caste Bhambi R/o Khatedar Rahan Pancharam's share Ja.Na.Aa.Gra. Bank Branch Degana, Shobharam Jaichand s/o Umaram Panchidevi w/o Late. Umaram's share land Ja.Thi.Gra. Bank Branch Degana's Murtheen, Manglaram adopted S/o Jairam's share land SBBJ Branch Degana Murtheen
				328	Private	Barani 2	0.1174	Beejaram s/o Ganeshram Bhambi R/o village Mu. Bajudi W/o Harkaram Kishnaram Chelaram Badriram s/o Harkaram caste Bhambi R/o Deh, Beejaram s/o Ganeshram's share Ja.Na.Aa.Gra. Bank Branch Degana Murtheen
				329	Private	Barani 2	0.1145	Devaram Motiram Hariram Chelaram s/o Mahram minor care taker Chotudi w/o Mahram caste Jaat R/o village
						Total	0.9285	
		(7) Langod		222	Private	Barani 1 / Abadi	0.2903	Moolsingh s/o Bhanwersingh caste Rajput R/o Deh Khatedar
				275	Private	Barani 1 / Abadi	0.0449	Tinkuram s/o Harlalram R/o Bheeyankala, Hemaram s/o Khetaram caste Meghwal R/o Bheeyankala, Ramnivash s/o Khetaram R/o Bheeyankala Khatedar
				289	Private	Barani 1 / Abadi	0.3871	Gopal Ladda s/o Sohanlal Ladda caste Mahajan R/o Gachchipura Teh. Makrana, Bhanweridevi w/o Pancharam caste jaat R/o Gordichacha, Harsha Choudhary D/o Lalaram Kulriya caste Jaat R/o Deh Suneeta Choudhary w/o Sanjeetprakash caste Jaat R/o Paliyash, Anopkanwer w/o Ramsingh Jaat R/o Gordichacha, Kiran Lakhara w/o Dharmendrakumar caste Lakhara Khatedar Sarjudevi w/o Ugmaram Jaat R/o Kitalsar
						Total	0.7222	
		(8) Goredichancha		2	Private	Barani 1 / Abadi / G.M. Sadak	0.6679	Purkha Ram s/o Dhanna Ram, Jaga Ram, Ram Lal, Kailash s/o Purkha Ram, Baju Devi w/o Purkha Ram, caste – Meghwal, R/o Khatedar, Tulasi Ram s/o Pusa Ram, caste – Jat (Godara), R/o Tamdoli, Khatedar, 3200 sq.ft., Purkha Ram s/o Dhana Ram, caste- Meghwal 8125.60 sq.ft., R/o Khatedar, Sampati Devi w/o Ramkishore, caste-Khatik, R/o Jhagdwas, Khatedar, Radhakishan s/o Rughnath, caste- Jat, Mahavir Sharma s/o Ramnarayan, caste-Brahman, R/o

					Khatedar.
			Total	0.6679	
(9) Rewant	305	Private	Barani 2	0.1263	Amar Singh s/o Chand Singh, caste – Rajput, R/o Khatedar, Mortgage OBC Branch, Degana
			Total	0.1263	
(10) Tamdoli	207	Private	Barani 2	0.1326	Kishore Norat F/o Kishnaram Santosh Rekha Doughters Kishnaram Sumitra W/o Kishnaram 4/5 Caste Raigar Sa. Deh Khatedar, Sanjaysagar F/o Hariram Geetadevi W/o Hariram 1/5 Caste Raigar Sa. Deh
	208	Private	Barani 1	0.1002	Ramkishan S/o Nainuram Caste Brahman Sa. Deh
	220	Private	Barani 2	0.0222	Babulal ,Rupchand, Satyanarayan , Lalchand F/o Mishrilal Caste Brahman Sa. Deh Khatedar
	227	Private	Barani 2	0.0284	Kumbhuram S/o Kaluram Caste Megwal Sa. Deh Khatedar
	228	Private	Barani 2 / G.M. Residential	0.3780	Amraram Badrilal F/o Harjiram Jimnadevi W/o Harjiram Caste Megwal Sa. Deh Bhavari W/o Rampal Caste Khati Sa. Gordichacha Rameshwari W/o Ramnivas Caste Jaat Sa. Jhagarvas Shantidevi W/o Bhawarlal, Bhawarlal S/o Ramprasad Tapariya Mahajan Sa. Gordichacha khatedar Madhudevi W/o Prakashchand Karva Caste Mahajan Sa. Gordichacha Vandnadevi W/o Purushotam Karva Caste Mahajan Sa. Gordichacha Khatedar
	231	Private	Barani 2	0.0166	Ramnivas Dineshkumar S/o Shivanarayan Sharma Nivasi Gordichacha Khatedar
	233	Private	Barani 2	0.0252	Smt. Kamladevi W/o Purkharam Caste Megwal Sa. Deh Khatedar
	238	Private	Barani 2	1.4528	Bhawarlal Ramkaran Ruparam Deburam Babulal Hiralal Pappuram s/o Sukhla Caste Harijan Sa. Deh Munni W/o Khiyaram Dinesh Sunil Ravi s/o Khiyaram Harijan Sa. Deh Bhawaridevi W/o Ruparam Caste Megwal Sa. Charanavas Khatedar Khiyaram S/o Narayanram Megwal Sa. Deh
	239	Private	Barani 2	0.4430	Rajuram S/o Kanaram Caste Megwal Sa. Ravliyavas Khatedar, Kailash S/o Mangalaram Caste Megwal Sa. Gordichacha Khatedar Ugaram Punaram S/o Jaitharam Rukma W/o Jaitharam Caste Megwal Sa. Deh Khatedar
	277	Private	Barani 2	0.9290	Smt. Ghaivaridevi W/o Jaitharam Smt. Meera W/o Gopiram Smt. Kaiser W/o Harjiram Smt. Madhudevi W/o Aaduram Caste Megwal Sa. Deh Khatedar, Bhawaridevi W/o Narsaram, Purkharam, Umaram, Shyamlal S/o Mugnaram caste Megwal Sa. Deh Khatedar
	347	Private	Barani 1	0.4395	Rajendra S/o Bhaguram Pancha s/o Pusaram Banshiram S/o Kanaram Bhawari W/o Late Kanaram Jaat Sa. Deh Khatedar
	349	Private	Barani 1	0.8428	Sugna Devi, Choutidevi D/o Gangaram S/o Pusaram Hariram Bhanshiram s/o Kanaram Bhawari W/o Kanaram Rajendra S/o Bhaguram Caste Jaat Khatedar
	494/212	Private	Barani 2	0.1148	Hanuman Satyanarayan S/o Madanlal Caste Dhobi Sa. Degana Khasra no. 494/212 Part 3-10 Beega, Seema W/o Laxmankumar Caste Dhobi Sa. Jhagarvas Khasra no. 571/494 Part 1-15 Beega

					Total	4.9253	
(11) Himmatnagar	228	Private	Barani 1 ++	0.5871	Poonaram S/o Khivram Jaat Niwasi Jalsunanak Khatedar		
	252	Private	Barani 1 ++	0.4548	Sayarram Mohanram S/o Isharram Emarti Beba of Isharram Caste Bhambi Sa. Deh Mortgage O.B.C. Bank Branch Degana, Jhumarram S/o Narayanram Caste Nayak Sa. Bamnakala Khatedar		
	257	Private	Barani 1 ++	0.5561	Shankarlal S/o Ramlal Caste Brahman Sa. Deh Khatedar		
				Total	1.5980		
(12) Tilanes	27	Private	Barani 1	0.0820	Ratansingh Narpatsingh S/o Girvarsingh Rajput Sa. Deh Khatedar		
	41	Private	Barani 1	0.1414	Sukharam S/o Mishrilal Caste Khati Sa. Deh Khatedar		
	42	Private	Barani 1	0.1490	Bhawarsingh S/o Shersingh Dariyavkanwar W/o Rugnathsingh Mahendrasingh Indersingh S/o Rugnathsingh Sadakanwar Shimlakanwar Munnikanwar Kamodkanwar Jyotikanwar D/o Ragunathsingh Caste Rajput, Kansingh Mangusingh Ladusingh S/o Bhimsingh Omkanwar W/o Girdharisingh Caste Rajput Mortgage Rugnathsingh and Mangusingh Part O.B.C. Degana		
	46	Private	Barani 1	0.2972	Bhawarsingh S/o Shersingh Dariyavkanwar W/o Rugnathsingh Mahendrasingh Indersingh S/o Rugnathsingh Sadakanwar Shimlakanwar Munnikanwar Kamodkanwar Jyotikanwar D/o Ragunathsingh Caste Rajput, Kansingh Mangusingh Ladusingh S/o Bhimsingh Omkanwar W/o Girdharisingh Caste Rajput Mortgage Rugnathsingh and Mangusingh Part O.B.C. Degana		
	48	Private	Barani 1	0.1071	Dariyavkanwar W/o Rugnathsingh Mahendrasingh Indersingh S/o Rugnathsingh Sadakanwar Shimlakanwar Munnikanwar Kamodkanwar Jyotikanwar D/o Rugnathsingh Kansingh S/o Bhimsingh Caste Rajput Sa. Deh Govindsingh S/o Kaiksingh Rajput, Gopalsingh S/o Chaturbhujsingh, Janaksingh S/o Anandsingh Caste Rajput Sa. Himmatnagar, Neetusingh S/o Shivsingh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar		
	157	Private	Barani 1	0.2924	Rampal Goud Harlal Sa. Deh Khatedar Mortgage J. tha. Aa. Gramin Bank Degna		
	158	Private	Barani 1	0.4581	Ramnivas S/o Peetharam Chuka W/o Peetharam Caste Jaat Sa. Deh Mortgage O.B.C. Degna		
	159	Private	Barani 1	0.6978	Meera W/o Late Sukhram Jaat Sa. Deh Narayansingh S/o Chhoug singh Rawan Rajput Sa. Deh, Goradevi W/o Deeparam Hemaram Sureshram S/o Deeparam Caste Jaat Sa. Deh Gainaram Ramragunath Rajuram Nandaram S/o Jayaram Jadavali W/o Jayaram Caste Jaat Sa. Deh, Bhanwarram S/o Dhularam Caste Jaat Sa. Deh		
	162	Private	Barani 1 +	0.3350	Dakhudevi W/o Ramakishan Jaat Sa. Deh Khatedar		
	164	Private	Barani 1	0.1009	Ghasiram Lixmanram Parsaram S/o Kesharam Caste Jaat Sa. Deh Mortgage Parsaram ki Bhumi O.B.C. Branch Degana		
	165	Private	Barani 1 +	0.1579	Shankarsingh S/o Girvarsingh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar		

				166	Private	Barani 1 +	0.0161	Ramnivas S/o Peetharam Chuka W/o Late Peetharam Meera W/o Late Sukharam Caste Jaat Sa Deh
				167	Private	Barani 1 +	0.3434	Haburam Babulal S/o Shankarram Mu. Pema widow of Shankarram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				168	Private	Barani 1 +	0.0089	Megharam S/o Manglaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				169	Private	Barani 1 +	0.3076	Megharam S/o Manglaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				170	Private	Barani 1 +	0.1346	Rajeshkumar S/o Madanmohan Shakuntla W/o Late Madanmohan Anilkumar S/o Ramjeevan Mu. Sarjudevi widow of Ramjeevan Ramavtar Dindayal Brijmohan S/o Gangavishan Caste Brahman Sa. Deh Khatedar
				174	Private	Gair Mukin Nadi	0.0793	Omkanwar W/o Girdharisingh Bhawarsingh S/o Shersingh Sa. Deh
				175	Private	Gair Mukin Nadi	0.0120	Omkanwar W/o Girdharisingh Bhawarsingh S/o Shersingh Sa. Deh
				338	Private	Barani 1 +	0.3414	Ramkishan S/o Mularam Jaat Sa. Deh
				339	Private	Barani 1 +	0.0086	Bhawarsingh Ganeshsingh Bahadursingh Dilipsingh S/o Narsingh Sa. Deh
				343	Private	Barani 1 +	0.3268	Ramnivas S/o Peetharam Jaat Sa. Deh
				344	Private	Barani 1 +	0.8948	Modulal S/o Jagdishprasad Caste Braham Sa. Deh Mortgage J. Na. A. Bramin Bank Idwa
				345	Private	Barani 1 +	0.1489	Bhawarsingh Ganeshsingh Bahadursingh Dilipsingh S/o Narsingh Sa. Deh
				346	Private	Barani 1 +	0.2594	Jabarsingh S/o Girdharisingh, Rajput Sa. Deh
				347	Private	Barani 1 +	0.1769	Ramsingh S/o Bhawarsingh, Bhawarsingh s/o Girvarsingh Rajput Sa. Deh
				361	Private	Barani 1	0.2311	Bastiram S/o Dhanaram Brahman sa. Deh
				368	Private	Barani 1	0.2454	Puraram Khemaram Satyanarayan S/o Motiram Caste Kumhar Sa. Deh Nemichand Sukharam Shivram Ramnivas S/o Hiraram Caste Kumhar sa. Deh Khatedar
				375	Private	Barani 1	0.1366	Babudeen S/o Jahurkha Jhumri W/o Late Jahurkha Pirudin Sattar Mohammad Surajdin Mustaak S/o Mangukha Ghisudi W/o Late Mangukha Caste Teli Puraram S/o Motiram Caste Kumhar Sa. Deh
				377	Private	Barani 1	0.5278	Hariram S/o Rampal Caste Jaat Sa. Deh
				378	Private	Barani 1	0.1707	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
				379	Private	Barani 1	0.0124	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
				380	Private	Barani 1	0.3818	Haburam Babulal S/o Shankarram Mu. Pema W/o Shankarram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				387	Private	Barani 1	0.1484	Ramlal Khiyaram Jawanaram S/o Tulchharam Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				388	Private	Barani 1	0.2472	Khiyaram, Jawanaram Ramlal S/o Tulchharam Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				389	Private	Barani 1	0.4501	Devaram Peetharam S/o Jalaram Sa. Deh Khatedar
				390	Private	Barani 1	0.3407	Jayaram Nainuram Gopalram Ramchander S/o Ridaram Nojadevi W/o Late Ridaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				400	Private	Barani 1	0.0583	Jayaram Nainuram Gopalram Ramchander S/o Ridaram Nojadevi W/o Late Ridaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				402	Private	Barani 1	0.6638	Devilal S/o Kanaram, Banshiram S/o Sukharam, Kanaram S/o Ramdev Caste

							Jaat Sa. Deh Khatedar
			403	Private	Barani 1	0.4773	Devilal S/o Kanaram, Kanaram S/o Ramdev, Dhapudevi W/o Megraj Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
			419	Private	Barani 1	0.0405	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
			439	Private	Barani 1	0.0043	Dhapudevi W/o Megaraj Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
			440	Private	Barani 1	0.1916	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
			441	Private	Barani 1	0.1387	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
			442	Private	Barani 1	0.1349	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
			443	Private	Barani 1	0.1286	Ramnivas 1/2 Naimaram 1/2 S/o Kanaram Caste Jaat Sa Deh Mortgage Ramnivas Ka Part O.B.C. Degna
			439/1	Private	Barani 1	0.0494	Ramnivas S/o Deeparam Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
					Total	10.6574	
		(13) Idwa	78	Private	Barani 1	0.4201	Shivkaran Ghasiram Gainaram S/o Haburam Gulabi W/o Choutharam Shivilal S/o Choutharam Bhambi Sa. Deh Rakba 1.19 Beegha, Jhumarkhi W/o Pancharam Caste Bhambi Sa. Deh Rakba 2 Beegha Hadman S/o Hajari Phaiphli Sharda D/o Jeevanram Rakba 3.19 Baldevram Hariram S/o Bhaguram Dhularam Devaram Narayan S/o Lala Caste Bhambi Sa. Deh Rakba 7.18 Beegha
			80	Private	Barani 1	0.3368	Jadavali W/o Late Bhawruram Nathidevi Baoudi Tulchaye D/o Bhavuram Caste Jaat Sa. Deh
			83	Private	Barani 1	0.3803	Subhashchander S/o Bhanwarlal Caste Brahman Sa. Deh
			84	Private	Barani 1	0.3408	Bhavru S/o Bhairuram Caste Daroga Sa. Deh
			86	Private	Barani 1	0.0140	Hanumansingh S/o Devisingh Caste Rajput Sa. Deh
			88	Private	Barani 1	0.1528	Raghuvirsingh S/o Sursingh Caste Rajput Sa. Deh
			89	Private	Barani 1	0.0857	Dhanna S/o Peera Caste Bhambi Kamlidevi W/o Babulal Caste Megwal Sa. Deh
			90	Private	Barani Alif	0.2113	Kamlidevi W/o Babulal Caste Megwal Sa. Deh
			91	Private	Barani Alif	0.3687	Mahendra Khoja S/o Dayalram Caste Jaat Sa. Bavarla Khatedar
			92	Private	Barani 1	0.5998	Tijudi Jojai Ramakishan Caste Jaat Sa. Deh complete Khata Mortgage J.N.A. Gramin Bank Branch Idwa
			201	Private	Barani 1	0.5517	Amrakha Habukha S/o Jamankha alies Jamkiya Caste Lawar Sa. Deh
			202	Private	Barani 1	0.3947	Bhagchand Banvarilal S/o Ganpatlal Shakuntladevi Bhagwatidevi Sushila D/o Late Ganpatlal Manbharidevi w/o Late Ganpatlal Caste Tak Sa. Deh
			221	Private	Barani 1	0.6750	Shivpratap Singh Rajendra Singh Mahendra Singh Karnipratap Singh S/o Gordhan Singh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar Shivpratap Ki Bhumi O.B.C. Bank Degna Mortgage
			222	Private	Barani 1	0.0355	Rekhakanwar W/o Omprakash Caste Rawan Rajput
			225	Private	Barani 1	0.3014	Nathi W/o Rama Tarachand Dhud Singh Chhotu Singh S/o Rama Caste Daroga Sa. Deh

				226	Private	Barani 1	0.4340	Nathi W/o Rama Tarachand Ghur Singh Chhotu Singh S/o Rama Caste Daroga Sa. Deh
				227	Private	Barani 1	0.0609	Shivpratap Singh Rajendra Singh Mahendra Singh Karnipratap Singh S/o Gordhan Singh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar Shivpratap Ki Bhumi O.B.C. Bank Degna Mortgage
				237	Private	Barani 1	0.1277	Chandiya S/o Sawariya Caste Dholi Sa. Deh Ayodhyadevi W/o Late Bhawarlal Satyanarayan Devilal Dayanand S/o Bhawarlal Caste Dholi Sa. Deh Khatedar, Kailash Mahendra Anand Sankhdev Ramavtar S/o Mithiya, Sajnidevi W/o Rajudevi Noratdevi Saroj D/o Late Mithiya Caste Dholi Sa. Deh Khatedar
				238	Private	Barani 1	0.3623	Ayodhyadevi W/o Late Bhavriya Dayalram Satyanarayan Devilal S/o Bhawriya Caste Dhole Sa. Deh Khatedar
				242	Private	Barani 1	1.0848	Shivpratap Singh Rajendra Singh Mahendra Singh Karnipratap Singh S/o Gordhan Singh Uchhabkanwar Chudavat W/o Gordhan Singh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar, Mortgage Shivpratap Singh Ka Part O.B.C. Bank Denga Murtheen, Mortgage Karnipratap Singh Mahendra Singh and Rajendra Singh Ka Part Mortgage J. N. A. Gramin Bank Branch Idwa
				243	Private	Barani 1	0.6234	Arjunram Bhikaram S/o Sharvanram Rakba 11 Beegha 15 Bishva Suresh S/o Haryan minor care taker Hargayan S/o Ambalal Caste Dholi 3 Beegha 5 Bishwa Sa. Deh Khatedar
				265	Private	Barani 1	0.0946	Rekhraj Rajendra Prasad Pukhraj S/o Ganeshlal Shivratan Nathmal S/o Deepchand Caste Brahman Sa. Deh. Kachrumal S/o Tejkan Brahman Sa. Deh Khatedar
				266	Private	Barani 1	0.6784	Paburam Hathiram Bachnaram S/o Bholaram Caste Gujjar Sa. Deh Khatedar, Mortgage J. N. A. Bramin Bank Idwa Murthin
				267	Private	Barani 1	0.0122	Ganesh S/o Parsaram Caste Daroga Sa. Deh Khatedar
				288	Private	Barani 2	0.0026	Man Singh Karan Singh Surendra Singh Dharmendra Singh S/o Rawat Singh Rajkanwar W/o Shankar Singh Caste Rajput Sa. Deh
				300	Private	Barani 1	0.0609	Hathiram S/o Bholaram Caste Gujjar Sa. Deh
				301	Private	Barani 1	0.0336	Hathiram S/o Bholaram Caste Gujjar Sa. Deh
				302	Private	Barani 1	1.1958	Mainadevi W/o Dhanshyamlal Pukhraj S/o Motilal Caste Brahman, Ramkanwar S/o Motilal Narayan Press S/o Annatram Ramlal S/o Pannalal Manakchand S/o Dolaram 4/5, Inderchand Ramkanwar Caste Sewak 1/5
				307	Private	Barani 1	0.2482	Jagdishprasad S/o Motilal Caste Brahman Sa. Deh
				310	Private	Barani 1	0.0020	Anna S/o Shivratan Nainuram Gopallal S/o Narayan Baldev S/o Gangaram Bajranglal S/o Gorishankar Sohanlal S/o Nudar Mangilal S/o Ramvilas Savayeram S/o Rugnath Surajmal S/o Gheesu Panna S/o Amrita Caste Sevag Sa. Deh Khatedar
				311	Private	Barani 1	0.5445	Anna S/o Shivratan Nainuram Gopallal S/o Narayan Baldev S/o Gangaram Bajranglal S/o Gorishankar

				Sohanlal S/o Nudar Mangilal S/o Ramvilas Savayeram S/o Rugnath Surajmal S/o Gheesu Panna S/o Amrita Caste Sevag Sa. Deh Khatedar
312	Private	Barani 1	0.3514	Ratansingh S/o Bhawarsingh Bhawarkanwar W/o Bhawarsingh Chandkanwar Hansakanwar Nandukanwar D/o Bhawarsingh Datarsingh S/o Devisingh Caste Rajput Sa. Deh
313	Private	Barani 1	0.4266	Mukutkanwar W/o Bhawarsingh Karansingh Dolatsingh Dalipsingh S/o Bhawarsingh Sadakanwar Uchhabkanwar Samajkanwar Dhapukanwar Santoshkanwar D/o Bhawarsingh Caste Rajput, Umedsingh Goud Chimansingh 1/2, Ratansingh S/o Shersingh Ladkanwar W/o Late Shersingh Dipendrasingh S/o Jaswantsingh Karankanwar W/o Late Jaswantsingh Caste Rajput Sa. Deh Bachan S/o Gangasingh Harisingh Laxmansingh S/o Gumansingh Ratansingh S/o Mulsingh Dhunsingh S/o Ramsingh Maktulkanwar beba of Ramsingh Sawaiyesingh Narayansingh S/o Pabudansingh 1/4, Chandarsingh S/o Bijrajsingh Caste Rajput Bhawarsingh Mahavirsingh Girdharisingh S/o Mohansingh Mu. Kalyankanwar W/o Mohansingh Pratapsingh S/o Khivsingh Sugansingh S/o Godnanarayansingh Bhagwatsingh Mahendrasingh S/o Khangasingh, Shalendrasingh Dhirendrasingh S/o Bajransingh Mohankanwar W/o Late Bajransingh Narpatsingh Sugansingh, Surjan Singh Chand Singh S/o Girwar Singh Maan Singh, Karn Singh Surendra Singh, Dharmendra Singh S/o Rawat Singh, Raj Kanwar beba Shankar Singh, Maan Singh, Karan Singh, Dharmendra Singh, Surendra Singh S/o Rawat Singh, Mangejkanwar D/o Rawatsingh and Rajkanwar W/o Late Shankarsingh Caste Rajput Bhawarsingh Datarsingh S/o Devisingh Anopkanwar widow Devisingh Nathusingh Choutusingh S/o Fataisingh Mangusingh Surendrasingh Sharvansingh Raghuvirsingh S/o Sawatsingh Caste Rajput Sa. Deh Premkanwar W/o Bhawarsingh Vikramasingh Virendrasingh S/o Late Bhawarsingh Vinodkanwar Niteshkanwar Neelamkanwar D/o Late Bhawarsingh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar
320	Private	Barani 1	0.0525	Umedkanwar W/o Pappusingh Umedkanwar W/o Puransingh Caste Rajput Budhran S/o Milapchand Caste Saivak Sa. Deh Milap S/o Hanut Caste Saiwak Sa. Deh Dhramram S/o Bhawarran Caste Jaat Sa. Modriya Surajmal S/o Ghesulal Caste Saiwak Sa. Deh Khatedar Mortgage Umedkanwar Ke Part ki Bhumi O.B.C. Branch Degna Ke Murthin
321	Private	Barani 1	0.5317	Datarsingh S/o Devisingh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar
322	Private	Barani 1	1.2488	Shiyaram S/o Gainaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar, Mortgage J.Th. Gramin Bank Branch Idwa Murthin
324	Private	Barani 2	0.5006	Bhuraram S/o Javuram Caste Jaat Sa.

					Deh Bhuraram S/o Javruram Ke Khate Ke Bhumi Mortgage J.Th. Gramin Bank Branch Idwa
339	Private	Barani 2	0.0070	Bhawari W/o Himmataram Gopalram S/o Himmataram minor care taker mother Mu. Bhawari W/o Himmatram Caste Jaat Sa. Modriya Khatedar	
340	Private	Barani 2	0.1686	Rughnathram Dayalram Caste Jaat Sa. Palishiya Khatedar Mortgage Rughnath ki Bhumi Mortgage S.B.I. Merta City	
342	Private	Barani 2	0.5229	Shivpratap Singh Rajendra Singh Mahendra Singh Karnipratap Singh S/o Gordhan Singh, Uchabkanwar Chudavat widow of Gordhan Singh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar, Mortgage Rajendra Singh, Karnipratap Singh Mahendra Singh Ka Part Mortgage J.N.A. Gramin Bank Idwa	
354	Private	Barani 2	0.0727	Tulcharam S/o Narayanram Jaat Sa. Paliyas, Naimaram S/o Ramdayal Caste Jaat Sa. Deh Khatedar	
355	Private	Barani 2	0.0929	Chhaganram S/o Andaram Caste Megwal Nivasi Kitalsar Tehsil Degana Khatedar	
356	Private	Barani 2	0.5437	Biramram S/o Panchuram Caste Bavari Sa. Paliyas Ummedkanwar W/o Pappusingh Caste Rajput Sa. Deh, Smt. Bhawarkanwar W/o Dharampalsingh Caste Rajput Sa. Deh Durgadevi W/o Ramlal caste Brahman Sa. Deh Bhawarlal S/o Ugaram Caste Rayeka Sa. Dhigsara Tehsil Khivasar Khatedar, Smt. Ummedkanwar W/o Pappusingh Caste Rajput Sa. Deh Khatedar, Ratankanwar W/o Sumankishore Singh Caste Rajput Sa. Deh Kirankanwar W/o Fatehisingh, Anchankanwar W/o Late Raghuvir Singh Deepsingh Sohansingh S/o Raghuvirsingh Caste Rajput 1/3 Ramchander S/o Ghashiram Caste Jaat 1177/11631 Sa. Paliyas Ramchander S/o Ghashiram Caste Jaat Sa. Paliyas 2100/11631, Sugnadevi W/o Panchram Caste Bavari Sa. Paliyas 600/11631 Mu. Birjudi W/o Pemaram Ramlal Kailash Chenaram S/o Pemaram Mu. Chukadevi widow of Mishu Ambalal Rajuram Lixmanram Baburam S/o Mishu 1/3 Caste Bavari Sa. Paliyas Khatedar, Ratankanwar V Kirankanwar Ka Part J. N. A. Gramin Bank Branch Idwa Ke Mortgage Ramchander S/o Ghisaram Ka Part O.B.C. Branch Paldikala ke Mortgage	
528	Private	Barani 1	1.6812	Ramchander S/o Chimnaram Caste Jaat Sa. Deh Rakba 13 Beegha Ghasiram S/o Ramnath Mu. Dhapu widow of Ramchander Caste Brahman Sa. Deh Dhapu W/o Ramchander Ka Part J. N. A Gramin Bank Branch Idwa Ke Mortgage Ramchander S/o Chimnaram Ka Part J. Tha. Gramin Branch Idwa Ke Mortgage	
529	Private	Barani 1	0.7714	Egyarsidevi W/o Late Sugnaram Ramnivas S/o Sugnaram Ramnivas, Ramjiram S/o Sugna Ram Caste Jaat, Bhuraram Khajuram S/o Nenaram, Nenaram S/o Shivajiram Seemadevi D/o Shivajiram Caste Jaat Ne. Edwa, Shankaram S/o Kunaram Rukma W/o Late Punaram Caste Jaat Sa. Deh	
533	Private	Barani 1	0.1001	Nathuram S/o Lalaram Jivanidevi W/o Late Chotairam Caste Khati Sa. Deh Khatedar Complete Khata J.N.A. Gramin Bank Branch Idwa ke Mortgage	

				567	Private	Barani 1	0.1641	Ramsukh S/o Chimna Caste Jaat Sa Ramsari Khatedar
				569	Private	Barani 1	0.2732	Ugraram S/o Misaram Caste Jaat Sa. Deh Complete Khata J.Th. Gramin Bank Branch Idwa ke Mortgage
				575	Private	Barani 1	0.6964	Gudar S/o Khiya 1/2 Caste Raigar, Omprakash Babulal Kailash Mahavir S/o Chhouturam Shantidevi W/o Late Chouturam Bhavari Pappudevi Sushila Manju Sunita D/o Chhouturam 1/2 Caste Sargara Sa. Deh Mortgage J.N.A. Gramin Bank Idwa
				578	Private	Barani 1	1.2718	Sonki W/o Budharam Caste Bhambi Sa. Deh Hadmanram S/o Gogaram Caste Bhambi Sa. Tilanes Sonki ka part Mortgage J.N.A. Gramin Bank Idwa
				579	Private	Barani 1	0.9394	Jiyaram S/o Shivalal Caste Jaat Sa. Deh
				598	Private	Barani 1	0.0483	Dhanna S/o Mularam Caste Raigar Sa. Alniyavas
				607	Private	Barani 1	0.1415	Hadman Bagaram S/o Motaram Caste Nayat Sa. Deh Gair Khatedar
				608	Private	Barani 1	0.0487	Nenuram S/o Khivda Caste Raigar Sa. Deh
				612	Private	Barani 1	0.0510	Ramsukh Pemaram Ramdev S/o Nathuram Caste Jaat Omadevi W/o Rameshwarlal Caste Jaat (Tadi) Khiyaram S/o Tulcharam Caste Jaat (Khatkad) Sa. Tilanesh Khatedar
				613	Private	Barani 1	0.1788	Ramsukh Pemaram Ramdev S/o Nathuram Caste Jaat Omadevi W/o Rameshwarlal Caste Jaat (Tadi) Khiyaram S/o Tulcharam Caste Jaat (Khatkad) Sa. Tilanesh Khatedar
				615	Private	Barani 1	0.0762	Javanaram S/o Tulcharam Caste Jaat Sa. Deh 13 Beegha 15 Bishva, Ramlal S/o Tulcharam Caste Jaat Area 3 Bigha 5 BiswaR/o Tilanes Khatedar
				1151/525	Private	Barani 1	0.1542	Amrakha S/o Pancharam Kamladevi Sanjudevi D/o Pancharam Ghaivari W/o Pancharam Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				1153/529	Private	Barani 1	0.7392	Boduram Goud Shobharam Caste Jaat Sa. Deh Khatedar Complete Khata J.Th. Gramin Bank Branch Idwa Ke Mortgage
				1154/529	Private	Barani 1	0.1027	Nankishore S/o Chimmaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar, Complete Khata J.N.A. Gramin Bank Branch Idwa Ke Mortgage
				1189/570	Private	Barani 1	0.3262	Amraram S/o Hiraram Caste Raigar Sa. Deh Khatedar
				951/304	Private	Barani 1	0.9358	Amraram S/o Ghisaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar, Complete Khata J.N.A. Gramin Bank Branch Idwa Ke Mortgage
				952/304	Private	Barani 1	0.3595	Gainudi W/o Modaram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar, Complete J.N.A. Gramin Bank Branch Idwa Ke Mortgage
				953/304	Private	Barani 1	0.0675	Rampal Badri S/o Haburam Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				962/312	Private	Barani 1	0.4744	Maan Singh Karan Singh Surendra Singh Dharmendra Singh S/o Rawat Singh Rajkanwar W/o Shankar Singh Caste Rajput Sa. Deh
				964/321	Private	Barani 1	0.7457	Harjiram S/o Hukmaram, Rukmaye W/o Pokarram Bhawari Devi W/o Chhotuaram Caste Jaat Sa. Modriya Khatedar, Bhawaram Mewaram Rudharam S/o Birmaram Mu. Kailki widow of Birmaram Gopalram S/o Himmatram Mu. Bhawari W/o Himmatram Caste Jaat Sa Modriya Khatedar
				965/324	Private	Barani 2	0.1416	Banshilal S/o Mularma Caste Khat Sa. Paliyas Khatedar

				980/340	Private	Barani 2	0.1740	Nathulal S/o Chunnilal Caste Brahman Sa. Deh Khatedar
				981/340	Private	Barani 2	0.0084	Mansiram Rugnath S/o Dayalram, Mansiram Rugnath S/o Dayalram Caste Jaat, Tulcharam S/o Narayanram Caste Jaat Sa. Paliyas Khatedar
				993/354	Private	Barani 2	0.0377	Mansiram Rugnath S/o Dayalram, Mansiram Rugnath S/o Dayalram Caste Jaat, Tulcharam S/o Narayanram Caste Jaat Sa. Paliyas Khatedar
						Total	25.6631	
	(14) Paliyas			23	Private	Barani 1	0.3824	Bhagirath S/o Mularam 1/2 Bhavuram S/o Arjunram 1/2 Jaat Sa. Deh Khatedar
				26	Private	Barani 1	0.0197	Harisingh Ummedsingh Fatahsingh Lalsingh S/o Badansingh Naini widow of Badansingh Magaisingh S/o Bhursingh Rajput Sa. Deh Khatedar
				27	Private	Barani 2	0.5946	Ghisaram S/o Tejaram Pusaram s/o Paburam Bhuram s/o Ramdin Jaat Sa. Deh Khatedar Bhuraram Ka Part Mortgage O.B.C. Paldikala Murthin
				28	Private	Barani 2	0.1476	Gumankanwar W/o Rudsingh Caste Sa. Deh Khatedar
				90	Private	Barani 1	0.0120	Tilok Mohana S/o Arjun 1/2 Sa. Kushalpura Tehsil Raipur Pali, Meghram S/o Jogaram 1/2 Rayeka Sa. Riyabadi Khatedar
				91	Private	Barani 1	0.1127	Bhuraram S/o Shukharam Mu. Gangadevi W/o Sukharam Caste Rayeka Sa. Deh Khatedar
				92	Private	Barani 1	0.2318	Bhopal S/o Lachcha Rayeka Sa. Deh Khatedar
				93	Private	Barani 1	0.1080	Bhopal S/o Lachcha Rayeka Sa. Deh Khatedar
				95	Private	Barani 2	0.3116	Jaikishan S/o Jujara Rayeka Sa. Deh Khatedar, Radhadevi W/o Narayanram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
				96	Private	Barani 1 - / Barani 2	0.3230	Jaikishan S/o Jujara Rayeka Sa. Deh Khatedar, Babulal S/o Bhawarlal Caste Jaat Sa. Deh Shardadevi W/o Babulal Caste Jaat Sa. Deh Savargiri S/o Motigiri Caste Gosaye Sa. Deh Chhotupuri S/o Mohanpuri Caste Gosaye Sa. Deh Khatedar
				98	Private	Barani 1	0.2605	Bhopal S/o Lachcha Rayeka Sa. Deh Khatedar
				103	Private	Barani 2	0.3383	Mangu S/o Pema Rayeka Sa. Deh Khatedar Mortgage - O.B.C. Bank Branch Paldikala Murthin
				107	Private	Barani 1	0.8182	Dhanna Sukha Savaye, Bhagu Naima S/o Prabhu Gopalsingh S/o Banshiram Nathusingh Shivsingh S/o Gulab Mu. Rami W/o Gulab, Mangalram Modaram S/o Ramchander Caste Daroga, Nathidevi W/o Gopalram, Gopalram S/o Mohanram Caste Jaat Mangusingh Narsingh Tulcharam S/o Ganpat Caste Daroga Sa. Deh Khatedar Nathidevi V Gopalram Ke Part ki Bhumi Mortgage N.S.Bhu.V. Bank Branch Degana
				186	Private	Barani 1	0.9460	Ramji Lichaman S/o Choutha Mu. Rupa W/o Choutha Geetadevi W/o Bhiyaram 5 Beegha Choutharam S/o Harsukhram Parmadevi W/o Ramlal Ramlal S/o Manglaram Bhawari Ratan D/o Manglaram 12-10 Beegha Nathuram Babulal S/o Gogaram 6 Beegha 1/2 Hiraram s/o Harsukhjaat 1/4 Bhagulal S/o Sriram Jaat 1/4 Sa. Deh Khatedar, Ramji Lichaman and Rupa ka Part O.B.C. Branch Paldikala
				187	Private	Barani 1	0.3521	Ramji Lichaman S/o Choutha Mu. Rupa

				widow of Choutha 1/2 Hiramam S/o Harsukh Jaat 1/4 Bhaguram S/o Sriram Jaat 1/4 Sa. Deh Khatedar Mortgage Ramji Lachman Rupa Ka Part Mortgage O.B.C. Branch Paldikala
188	Private	Barani 1	0.6130	Ramji Lichaman S/o Choutha Mu. Rupa widow of Choutha 1/2 Hiramam S/o Harsukh Jaat 1/4 Bhaguram S/o Sriram Jaat 1/4 Sa. Deh Khatedar Mortgage Ramji Lachman Rupa Ka Part Mortgage O.B.C. Branch Paldikala
224	Private	Barani 1	0.0366	Shivlal S/o Dhanaram Jaat Sa. Keriya Rava Khatedar
225	Private	Barani 1	0.0075	Aaduram S/o Padmaram Megwal 1/4 Nathuram S/o Alsuram Maglaram Sukhdev Chhoturam S/o Dharma Ram Mu. Chandan ki widow of Dharmaram Arjunram S/o Punaram 3/9 Caste Bhambi Sa. Deh Khatedar
226	Private	Barani 1	0.1312	Bhairuram S/o Pusaram Bhambi Sa. Deh Khatedar
233	Private	Barani 1	0.1574	Mangaram Dalaram Ramlal Tulcha Shivkaran S/o Dayaram Jaat Sa. Deh Khatedar, Mortgage Ramlal and Shivkaran Ka Part O.B.C. V Tulcharam Ka Part Mortgage J.N.A. Gramin Bank Idwa Ke Murthin
234	Private	Barani 1	0.0253	Shankarlal S/o Rampal Jaat Sa. Deh Khatedar
240	Private	Barani 1	0.0019	Pratapram Punaram S/o Ramrakh Jaat Sa Deh Khatedar Misaram S/o Pratapram Jaat Sa. Deh Pratapram ka Part Mortgage O.B.C. Bank Paldikala Punaram S/o Ramrakh ka Part Mortgage J.Th. Gra. Bank Branch Idwa ke Murthin
245	Private	Barani 1	0.1659	Todaram S/o Chunaram Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
246	Private	Barani 1	0.4188	Motaram S/o Chunaram Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
247	Private	Barani 1	0.1899	Motaram S/o Chunaram Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
250	Private	Barani 1	0.1990	Hadman S/o Shyamaram Mu. Tulchaye W/o Shyama Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
251	Private	Barani 1	0.0840	Hadman S/o Shyamaram Mu. Tulchaye W/o Shyama Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
254/3	Private	Barani 1	0.0262	Shyam S/o Chuna Caste Bhambi Sa. Deh Khatedar
191/1	Private	Barani 1	0.3011	Choutharam S/o Harsukhram Caste Jaat Sa. Deh Khatedar
246/2	Private	Barani 1	0.4214	Todaram S/o Chunaram Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
247/2	Private	Barani 1	0.0266	Todaram S/o Chunaram Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
248/2	Private	Barani 1	0.0005	Todaram S/o Chunaram Caste Bhambi Sa. Dhamniya Khatedar
26/1	Private	Barani 1	0.2714	Sugyansingh, Dhansingh S/o Bhairusingh Ladkanwar W/o Bhairusingh Shyamsingh Badansingh S/o Shersing 1/4 B.H.B. Mangejsingh Sawayesingh S/o Bhursingh 1/4 Rachandersingh Gulabsingh s/o Sonsingh, Premkanwar W/o Kalyansingh, Prithvisingh Ranjitsingh minor care taker Mata Premkanwar W/o Kalyansingh Vimlakanwar widow of Javarsingh Virendersingh Surendersingh Narendersingh S/o Javarsingh minor care taker Mata Vimlakanwar widow of Javarsingh Rajkanwar widow of Mohansingh 1/4 Omsingh S/o

							Chitarsingh, Datarsingh Bhawanisingh Girdharisingh S/o Devisingh Motisingh Gyansingh S/o Pabudansingh 1/4 Rajput Sa. Deh Khatedar
			90/1	Private	Barani 1	0.1880	Megaram S/o Jogaram Rayeka Sa. Riyabadi Khatedar
					Total	8.2242	
	5. Merta	(1) Dhamniya	506	Private	Barani 1	0.1342	Sita Ram s/o Kana Ram, Ghwari Devi w/o Kana Ram, share 1/3, Panna Ram s/o Jala Ram, share 1/3, Manguram s/o Jala Ram, share 1/3, cast Nayak, R/o Khatedar
			520	Private	Barani 1	0.1877	Sita Ram s/o Kana Ram, Ghwari Devi w/o Kana Ram, share 1/3, Panna Ram s/o Jala Ram, share 1/3, Manguram s/o Jala Ram, share 1/3, cast Nayak, R/o Khatedar
			521	Private	Barani 1	0.3640	Raju Devi w/o Bidu Ram, 2/3, Jogi s/o Bhima, 1/3, caste Jat, R/o Khatedar, Rahan Raju Devi's share SBBJ Branch Riya Badi
			522	Private	G.M.	0.2500	Raju Devi w/o Bidu Ram, 2/3, Jogi s/o Bhima, 1/3, caste Jat, R/o Khatedar, Rahan Raju Devi's share SBBJ Branch Riya Badi
			524	Private	Barani 1	0.0753	Sita Ram s/o Kana Ram, Ghwari Devi w/o Kana Ram, share 1/3, Panna Ram s/o Jala Ram, share 1/3, Mangura Ram s/o Jala Ram, share 1/3, cast Nayak, R/o Khatedar
			525	Private	Barani 1	0.1084	Raju Devi w/o Bidu Ram, 2/3, Jogi s/o Bhima, 1/3, caste Jat, R/o Khatedar, Rahan Raju Devi's share SBBJ Branch Riya Badi
					Total	1.1195	
		(2) Arniyala	165	Private	G.M	0.4012	Ganga Ram s/o Har Lal, caste – Jat, share 0.17, Ramniwas s/o Narayan Ram, caste – Jat, share – 0.15, Indra s/o Jamal, caste – Teli, share – 0.08, Yogeshwar s/o Baksharam, caste – Jat (Dideil), share 0.06, Asharam s/o Hansaram, caste – Jat, share – 0.08, Alanur s/o Indra, caste – Teli, share 0.08, Bopha Ram, Sangram Ram s/o Rampal, caste – Bawari, share 0.89, Basti Ram, Jagdish, Nema Ram, Gajraj, Shyama, Chena Ram s/o Rupa Ram, Kelaki w/o Late. Rupa Ram, caste - Dholi, share 1.62, Ramniwas s/o Narayan Ram, caste – Jat, share 0.15, Bhawara Ram s/o Mugana Ram, caste – Jat, share – 3.53, Ridha Ram s/o Mugana Ram, caste – Jat, share 3.54, Chhote Ram, Ramniwas s/o Nimba Ram, Soni w/o Late Nimba Ram, share 3.54, Gram Panchayat Arniyala, share 2.42, Shokin s/o Beli Khan, caste – Teli, share 0.08, Chutara Ram s/o Hansa Rama, caste – Jat, share – 0.08, Shaukin Mohamad, Babu Hakim, Safi Mohamad, Kherun s/o Late. Belikhan, caste – Teli, share 0.08, Bhawar Lal s/o Daya Ram, Radha w/o Late. Daya Ram, caste – Brahman, share 0.10, Mula Ram s/o Hansa Ram, caste – Jat, share 0.08, Panna Lal s/o Ram Lal, caste – Brahman, share – 0.08, Pabu Ram s/o Hansa Ram, caste – Jat, share – 0.08, Puna Ram, Ghagadu Ram, Hira Ram s/o Mohan Lal, caste – Nai, share 0.14, Yogeshwar s/o Baksa Ram, caste – Jat, share 0.07, Bala Ram s/o Hansa Ram, caste – Jat, share 0.03, Gyaneshwar s/o Baksa Ram, – 0.06, Bhawar Lal s/o

							Daya Ram, caste – Brahman, share 0.20, Misukhan Adopted Hazari Khan, caste – Teli, share 0.08, Janaki w/o Misa Ram, Pabu Ram, Rupa Ram, Shri Ram s/o Misa Ram, caste – Bawari, share 0.08, Shivkaran, Prabhu Ram, Ramsukh s/o Mula Ram, Sugnai w/o Late. Mula Ram, caste – Khati, share 0.07, Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank, Padukalan, Mula Lachha s/o Hansa, caste – Jat, share 0.06, Sabukhan, Bholu Khan, Ali Mohammad s/o Rahman Khan, Hasmat Bano w/o Late. Rahman Khan, caste – Teli, share 0.08, Ramniwas s/o Gangaram, caste – Jat, share 0.16, Rupa Ram s/o Misa Ram, caste – Bawari, share 0.05, Lalchand s/o Rampal, caste – Sunar, share – 0.08, Sunil s/o Shivji Ram minor caretaker mother Radha w/o Late. Shivjiram, caste – Jat, share 0.04, Gyaneshwar s/o Baksaram, caste – Jat, share – 0.07, Husain Khan s/o Jamal Khan, caste – Teli, share 0.08, R/o Khatedar Alawa Jot, nonagricultural paytan 9.72,
			169	Private	G.M. Lata/ Bada	0.2350	Alawa Jot, Nakkbil Kast Lata 1.64, Kashi Ram, Satyanarayan, Balmukund s/o Binjraj, caste – Brahman, share 0.20, Kanaram s/o Mathura Lal, caste – Brahman, share 0.07, Chhotu Khan s/o Jor Khan, caste – Sipahi, share – 0.03, Dhannaram, Shanti Lal s/o Surajkaran, caste – Nai, share – 0.08, Nihal Khan s/o Fateh Khan, caste – Sipahi, share – 0.02, Bhim Singh s/o Prabhu Ram, caste – Jat, share 0.04, Mangi Lal s/o Mathura Lal, caste – Brahman, share – 0.08, Ramkumar s/o Mangi Lal, caste – Brahman, share – 0.09, Ramchandra s/o Bhawar Lal, caste – Brahman, share 0.04, Rampal s/o Modaram, caste – Bawari, share – 0.04, Rajendara Kumar s/o Bhim Singh, caste – Jat, share – 0.08, Shakur Khan s/o Jor Khan, caste – Sipahi, Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Padukalan, share 0.03, Shivratan s/o Mangi Lal, caste – Brahman, share 0.08, Har Lal s/o Pira Ram, caste – Jat, share 0.03
			287	Private	Barani 1	0.3851	Dama Ram s/o Bhawara Ram, caste - Jat, R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Riyabandi
			288	Private	Barani 1	0.0015	Babu Devi, Tulasi Ram, Shivji Ram, Budha Ram s/o Ganesh Ram, caste - Jat, R/o Khatedar, Rahan share of Tulasi Ram, Budha Ram, Shivji Ram, SBI Branch Medta City
			289	Private	Brani 2	0.0966	Balu Ram s/o Nenu Ram, caste - Jangid Brahman, R/o Khatedar
			290	Private	Barani 2	0.1890	Nathu Ram s/o Bhagirath, caste - Jangid, R/o Khatedar
			292	Private	Barani 2	0.1181	Omprakash s/o Khiwraj, Smt. Sita w/o Late. Khiwraj, caste - Jat, R/o Khatedar, Rahan SBI Branch, Medta City
			293	Private	Barani 2	0.2577	Asha Ram s/o Hansa Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
			294	Private	Barani 2	0.0857	Bheiru Ram s/o Sukhdev, caste - Jat, R/o, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Padukalan
			300	Private	Barani 1	0.2661	Kashi Ram, Champa Lal s/o Uma Ram, caste - Jangid Brahman, R/o Rahan Gramin Anchalik Bank Branch Padu Kalan

				301	Private	Barani 1	0.1822	Bheiru Ram s/o Sukhdev, caste - Jat, R/o, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Padukalan
				302	Private	Barani 1	0.1238	Hulasi w/o Balu Ram, Tulasi Ram s/o Balu Ram, caste - Jangid Barahman, R/o Khatedar, Rahan SBI Branch Medta City
				304	Private	Barani 1	0.0373	Kashi Ram, Champa Lal s/o Uma Ram, caste - Jangid Brahman, R/o Gramin Anchalik Bank Branch Padu Kalan
				306	Private	Barani 1	0.0200	Bheiru Ram s/o Sukhdev, caste - Jat, R/o Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Padukalan
				307	Private	Barani 1	0.0981	Hulasi w/o Balu Ram, Tulasi Ram s/o Balu Ram, caste - Jangid Barahman, R/o Khatedar, Rahan SBI Branch Medta City
				308	Private	Barani 2	0.1013	Pema Ram, Satyanarayan, Ganesh, caste - Jagid Brahman, R/o Khatedar
				310	Private	Barani 2	0.0693	Asha Ram s/o Hansa Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
				312	Private	Barani 1	0.0163	Banshi Ram s/o Puna Ram, Gendudi w/o Late Puna Ram, caste - Kumhar, share 0.81, Rameshwari w/o Ram Lal, Kamala Devi w/o Ram Niwas, caste - Jat, share 0.74, R/o Khatedar, Rahan Kamala Devi, share UCO Bank Branch Medta City.
				313	Private	G.M. Aangaur/ Bada	0.0251	Tulasi Ram s/o Rupa Ram, Nema Devi w/o Rupa Ram, caste - Jat, share 0.08, Rahan Nagaur Bhumi Vikas Bank Branch Degana, Tulasi Ram s/o Rupa Ram, Nema Devi w/o Late. Rupa Ram, Tulasi Ram, Satyanarayan s/o Birama Ram, Mata Ghewari w/o Late. Birma Ram, Laxminarayan s/o Shivrinarayan, Mata Ramali w/o Late. Shivrinarayan, caste - Jat, share 0.08. R/o village Alawa Jot, Nakabil Kasht Angor 1.19,
				314	Private	Barani 1	0.0706	Dama Ram s/o Bhawara Ram, caste - Jat (Didel) R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Riyabandi
				526	Private	G.M./Barani 1	0.2217	Alwa Jot Kabil Kast 2.88. Kheeyaram s/o Kamalaram caste Jaat 0.04 ha. Ramji Shivji Puraram Ratna s/o Kistur caste Luhar 0.05 ha. Banshilal adopted son Mangilal caste Jaat 0.06 ha. Allanur s/o Indra caste Teli 0.01 ha. Keshudi w/o Prabhuram caste Jaat 0.05 ha. Omprakash s/o Kheevraj Seeta w/o Late. Kheenvraj Bheekharam s/o Khetaram caste Jaat 0.06 ha. Bhanwerlal adopted son Chogaram caste Meghwal 0.04 ha. Shoukin Mohd. Babu Hakeem Safi Mohd. Kherun s/o Late. Beleekhan caste Teli 0.02 ha. Shoukin Mhd. Babu Hakeem Safi Mohd. Kherun s/o late. Beleekhan caste Teli 0.02 ha. Lali w/o Khajuddin Teli 0.02 ha. Joraram s/o Dhularam caste Regar 0.05 ha. Dayalram Omprakash s/o Shankar Panki w/o late. Shankar caste Regar 0.04 ha. Dharma Bhagu Khaju s/o Shividhan caste Meghwal 0.12 ha. Pitharam s/o Sujaram caste Kumhar 0.05 ha. Prabhuram s/o Ramkaran caste Jaat 0.05 ha. Shivjeeram s/o Paburam caste Jaat 0.06 ha. Bagsharam s/o Ghesharam caste Jaat 0.05 ha. Bofaram s/o Likshman caste Kumhar 0.02 ha. Bheekharam s/o Dhannaram caste Regar 0.05 ha. Arjunram Shivjeeram Choutharam s/o Bheenyaram s/o Kanaram caste Regar

					0.04 ha. Bhanweraram s/o Ramjeeram caste Jaat R/o 0.07 ha. Mangilal Modiram s/o Dhannaram caste Jaat 0.06 ha. Manguram s/o Shankarram caste Jaat 0.03 ha. Heera s/o Jugla caste Meghwal 0.04 ha. Kaluram Padmaram Chainaram s/o Manglaram Shayri w/o Manglaram caste Meghwal 0.04 ha. Hardeen Anda Mohan s/o Urja Ramjee Shivjee Puraram Ratnaram s/o Kistur caste Lawar 0.03 ha. Rehman Khan s/o Jamal Khan caste Teli 0.04 ha. Hukmaram s/o Paburam caste Jaat 0.02 ha. Nathuram s/o Dhannaram caste Jaat 0.04 ha. Purkharam s/o Kanaram caste Luhar 0.05 ha. Baldevram s/o Bhairuram caste Kumhar 0.04 ha. Bheruram caste Luhar 0.06 ha. Hushain Khan s/o Jamal Khan caste Teli 0.02 ha. R/o village
671	Private	Barani 1	0.2487		Ramkishore s/o Ramdev, Janaki w/o Late. Ramdev, caste - Jat (Beda) R/o, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Padukalan
672	Private	Barani 1	0.2627		Nathi Devi w/o Late. Amara Ram, Mohini Devi d/o Amara Ram, caste - Jat (Beda) R/o Khatedar
673	Private	Barani 1	0.1728		Bheiru Ram Lakha Ram s/o Sohan Lal, Bheiru Ram, Lakha Ram, Samu Sawari s/o Sohan Lal, Prema Devi w/o Late. Sohan Lal, Tulchhai w/o Dhanna Ram, Nathu Ram s/o Dhanna Ram, Meisudi w/o Late. Prabhu Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
675	Private	Barani 1	0.1989		Dala Ram, Ratan Ram, Tulasi Ram, Sukla s/o Chandra Ram, Sayari w/o Late. Chandra Ram, Bopha Ram s/o Bhagu Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
676	Private	Barani 1	0.1199		Sugana Ram s/o Puna Ram, caste - Jat, R/o Rahan Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Padukalan
682	Private	Barani 1	0.1968		Devkishan s/o Badarmal, caste - Panwar (Darji), R/o Medta
683	Private	Barani 1	0.2396		Devkishan s/o Badarmal, caste - Panwar (Darji), R/o Medta
687	Private	Barani 1	0.0833		Ram Kuwar, Kailash s/o Hukkaram, share 0.49, Ramniwas s/o Pabu Ram, share 0.49, Shivji Ram s/o Pabu Ram, share 0.48, caste - Jat, R/o Khatedar, Rahan Ramniwas, Shivji Ram s/o Paburam, SBI Branch Medta City
688	Private	Barani 1	0.0307		Champa Devi w/o Shivji Ram, caste - Jat, Chaindas s/o Bhawar Lal, caste - Mali, R/o Bawadi Chainpura, Tehsil - Jodhpur, Dist - Jodhpur
691	Private	Barani 1	0.0250		Bheiru Ram Lakha Ram s/o Sohan Lal, Bheiru Ram, Lakha Ram, Samu Sawari s/o Sohan Lal, Prema Devi w/o Late. Sohan Lal, Tulchhai w/o Dhanna Ram, Nathu Ram s/o Dhanna Ram, Meisudi w/o Late. Prabhu Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
692	Private	Barani 1	0.0183		Nathi Devi w/o Late. Amara Ram, Mohini Devi D/o Amara Ram, caste - Jat (Beda) R/o Khatedar
171/744	Private	Barani 1	0.3507		Ram Lal, Dama Ram Baldev Ram s/o Bhawara Ram, Ridha Ram s/o Megha Ram, Tulasi Ram, Shivji Ram, Budha Ram s/o Ganesh Ram, Shivdan s/o Bhola Nathu s/o caste – Jat, share 6.62, Mula Ram s/o Bhagu Ram, share 1.21, Ram Lal, Ramniwas, Baldev Ram s/o Gokul Ram, share 0.04, caste – Jat,

					Mugana s/o Madho, caste – Jat, share – 0.04, (Ram Lal, Dama Ram, Baldev, Champa Lal s/o Asha Ram, caste – Asha Ram, caste – Khati, share 0.16, Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch, Padu Kalan, Ram Niwas s/o Hira Lal, caste-Brahman, share – 0.08, Har Lal s/o Pira Ram, caste – Jat (Beda) (Tulasi Ram, Budha Ram, Ghanshyam s/o Kashi Ram, caste – Khati, share 0.01, Ram Lal, Ram Niwas, Baldev Ram s/o Gokul Ram, share 0.16, caste – Jat, Bheiru Ram s/o Sukhdev, caste – Jat, share – 0.09, Sita Devi w/o Tulasi Ram, caste – Jat, share 0.16, Rahan share of Mula Ram, Jaipur, Nagaur Anchalik Gramin Bank, Branch Padu Kalan
	305/760	Private	Barani 1	0.0752	Kashi Ram s/o Uma Ram, caste - Jangid Brahman, R/o Rahan Gramin Anchlik Bank Branch Padukalan
	294 / 758	Private	G.M. Sarak	0.0200	Bheiru s/o Sukhdev, caste - Jat, R/o Rahan Jaipur Thar Gramin Bank Branch Padu
			Total	5.0444	
(3) Lampolai	997	Private	Barani 2	0.2587	Alka Devi w/o Omprakash, caste - Brahman, Sita Devi w/o Puna Ram, caste - Kumhar, Sita Devi w/o Radhakrishan, caste -- Meghwal, R/o Khatedar
	999	Private	Barani 4	0.2991	Rameshwar Lal, Amar Chand s/o Ram Gopal, caste - Brahman, Chidi Devi w/o Dharmram cast Meghwal, R/o Khatedar
	1003	Private	Barani 4	0.0010	Jugal Kishore s/o Chaturbhuj, Ram Prasad s/o Shivnarayan, Jagdish Prasad Khole, Chunni Lal, Ram Kanya D/o Shivnarayan w/o Devi Lal, caste - Brahman, R/o Khatedar, Babu Lal, Kana Ram s/o Ganesh Lal, Prabhunaryan s/o Chhagana Ram, caste - Meghwal, R/o Khatedar, Mangala Ram s/o Narayan, Hazari Ratana, Sohan, Arjun s/o Ramdin, caste - Lauhar, Bhiya Ram s/o Bhola Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
	1005	Private	Barani 4	0.0848	Puna Ram s/o Bhola Ram, caste - Jat, Balu Ram s/o Ganesh Ram, caste - Meghwal, Mangala Ram s/o Narayan Ram, Hajari, Ratna, Sohan, Arjun s/o Ramdin, caste - Lauhar, Bhiya Ram, Bhola Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
	1007	Private	Barani 2	0.2742	Rajendra Kumar s/o Kedarmal, caste - Brahman, R/o Khatedar
	1008	Private	Barani 2	0.2000	Moti Lal s/o Mohan Lal, caste - Darji, R/o Khatedar
	1011	Private	Barani 2	0.0018	Goraki, Rasal Devi w/o Narayan Ram, Sushil, Omprakash, Raju Ram s/o Narayan Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
	1024	Private	G.M. Bera	0.0035	Kashi Ram s/o Bijraj, caste - Brahman, R/o Arniyala
	1025	Private	Barani 2	0.0790	Kashi Ram s/o Bijraj, caste - Brahman, R/o Arniyala
	1025/1	Private	Barani 2	0.0463	Bhawari Devi w/o Mangi Lal, caste - Saad, R/o Khatedar
	1028	Private	Barani 2	0.0889	Santosh w/o Govind Lal, caste - Brahman, R/o Arniyala
	1029	Private	Barani 2	0.2686	Shri Narayan, Radheshyam, Gulab Chand s/o Bhura, Murlidhar s/o Ramsahaye, Mohan Lal s/o Ramdev, caste - Hariyana Brahman, Jhutha Ram s/o Pura Ram, caste - Mali, R/o Nidad, Tehsil - Amer, Dist - Jaipur, Santosh w/o Gobind Ram, caste - Brahman, R/o Khatedar
	1030	Private	Barani 2	0.0679	Smt. Gvarsi w/o Chetan, Luna Ram s/o

				Chetan, caste - Regar, R/o Khatedar
1032	Private	Barani 2	0.1171	Omprakash s/o Khiwraj, caste - Jat, R/o Arniyala
1033	Private	Barani 2	0.1687	Kashi Ram s/o Bijraj, caste - Brahman, R/o Arniyala
1034	Private	Barani 2	0.1172	Shri Narayan, Radheshyam, Gulab Chand s/o Bhura, Murlidhar s/o Ramsahaye, Mohan Lal s/o Ramdev, caste - Hariyana Brahman, Jhutha Ram s/o Pura Ram, caste - Mali, R/o Nidad, Tehsil - Amer, Dist - Jaipur
1036	Private	Barani 2	0.0666	Kashi Ram s/o Bijraj, caste - Brahman, R/o Arniyala
1037	Private	Barani 2	0.1147	Smt. Gyarsi w/o Chetan, Prakash s/o Chetan, caste - Regar, R/o Khatedar
1038	Private	Barani 2	0.0225	Shri Narayan, Radheshyam, Gulab Chand s/o Bhura, Muralidhar s/o Ramsahay, Mohan Lal s/o Ramdeo, caste - Hariyana Brahman, Jhutha Ram s/o Pura Ram, caste - Mali, R/o Nidad, Tehsil - Amer, Dist - Jaipur
1039	Private	Barani 2	0.2377	Shri Narayan, Radheshyam, Gulab Chand s/o Bhura, Murlidhar s/o Ramsahaye, Mohan Lal s/o Ramdev, caste - Hariyana Brahman, Jhutha Ram s/o Pura Ram, caste - Mali, R/o Nidad, Tehsil - Amer, Dist - Jaipur, Santosh w/o Gobind Ram, caste - Brahman, R/o Khatedar
1044	Private	G.M. Bera	0.0013	Shri Narayan, Radheshyam, Gulab Chand s/o Bhura, Murlidhar s/o Ramsahaye, Mohan Lal s/o Ramdev, caste - Hariyana Brahman, Jhutha Ram s/o Pura Ram, caste - Mali, R/o Nidad, Tehsil - Amer, Dist - Jaipur
1045	Private	Barani 2	0.1151	Shri Narayan, Radheshyam, Gulab Chand s/o Bhura, Murlidhar s/o Ramsahaye, Mohan Lal s/o Ramdev, caste - Hariyana Brahman, Jhutha Ram s/o Pura Ram, caste - Mali, R/o Nidad, Tehsil - Amer, Dist - Jaipur
1046	Private	Barani 2	0.0757	Moti Lal s/o Mohan Lal, caste - Darji, R/o Khatedar
1047	Private	Barani 2	0.0152	Nimba Ram, Girdhari Ram s/o Puna Ram, caste - Jat, Bhimraj s/o Puna Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
1048	Private	Barani 2	0.0365	Nimba Ram, Girdhari Ram s/o Puna Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
1050	Private	Barani 3	0.0406	Rameshwar Lal, Amar Chand s/o Ram Gopal, caste - Brahman, R/o Khatedar
1053	Private	Barani 4	0.2508	Rameshwar Lal, Amar Chand s/o Ram Gopal, caste - Brahman, R/o Khatedar
1054	Private	Barani 4	0.2065	Ramswarup s/o Pancharam, Shivdayal, Sushil s/o Multan Ram, Keshar Devi w/o Multan Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
1055	Private	Barani 4	0.0746	Ramswarup s/o Pancharam, Shivdayal, Sushil s/o Multan Ram, Keshar Devi w/o Multan Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
1028/1781	Private	G.M. Rasta	0.0162	Bhagirath s/o Dayal Ram, caste - Jat, R/o Kheda, Kishanpura
1028/1780	Private	Barani 2	0.1821	Santosh w/o Govind Ram, caste - Brahman, R/o Arniyala
1049/1786	Private	Barani 2	0.0335	Bhimraj s/o Puna Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
1049/1788	Private	Barani 2	0.0188	Gopaldas, Pukhraj, Kishan Lal s/o Muldas, Bidami w/o Muldas, caste - Saad, R/o Khatedar
997/1794	Private	Barani 2	0.1732	Khivraj s/o Bhawana Ram, caste - Jat, R/o Khatedar
		Total	3.7585	

(4) Dangawas	1665	Private	Barani Soyam	0.0050	Mula Ram, Pancha Ram, Chhota Ram s/o Baksha Ram, Tijani w/o Late. Baksharam, caste - Jat (Jajeda), R/o Khatedar
	1666	Private	Barani Soyam	0.1188	Rampal, Toda Ram s/o Ghisa Ram, Ramkaran s/o Ramchandra, Tiji Devi d/o Ramchandra, Shanti Devi w/o Late Chota Ram, Sukh Ram, Sitaram s/o Chota Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
	1667	Private	Barani Soyam	0.2915	Chandra Ram s/o Pema Ram, caste - Regar, R/o Khatedar
	1668	Private	Barani Soyam	0.0030	Chandra Ram s/o Pema Ram, caste - Regar, R/o Khatedar
	1678	Private	Barani Soyam	0.0800	Anirudh s/o Laxminarayan, caste - Mahajan (Jeithaliya), R/o Khatedar
	1679	Private	Barani Soyam	0.0117	from Rupam Town to Pvt. Ltd Jaipur Rupam Enclave, Plant no. 15, Amba Badi Sikar Road, Jaipur through Director Raghuvir Singh s/o Rup Singh Shekhawat, caste - Rajput, R/o Jaipur, Babu Lal s/o Mangi Lal, caste - Khatik (Dayama), R/o Medta City
	1682	Private	Barani Soyam	0.1031	Narbada Devi w/o Ganpat Lal, caste - Brahman, R/o Khatedar
	1684	Private	Barani Soyam	0.2723	Rameshwari w/o Harsaram, caste - Jat, R/o Khatedar
	1688	Private	Barani Soyam	0.1210	Bhabhut Ram s/o Bhawar Lal, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
	1690	Private	Barani Soyam	0.0960	Sanjay Kumar Sarwarte s/o Kana Ram, caste - Mahatar, Medta Road
	1691	Private	Barani Soyam	0.0349	Bhawar Lal s/o Jiwandas, Diwakar, Ranchhod Das s/o Bheirumal, caste - Pushkarana Brahman (Joshi) Bhawar Lal, Diwakar s/o Jiwand Das, caste - Vaishnav, R/o Medta
	1694	Private	Barani Soyam	0.0933	Bhawar Lal s/o Jiwandas, Diwakar, Ranchhod Das s/o Bheirumal, caste - Pushkarana Brahman (Joshi) Bhawar Lal, Diwakar s/o Jiwand Das, caste - Vaishnav, R/o Medta
	1695	Private	Barani Soyam	0.0896	Bhawar Lal s/o Jiwandas, Diwakar, Ranchhod Das s/o Bheirumal, caste - Pushkarana Brahman (Joshi) Bhawar Lal, Diwakar s/o Jiwand Das, caste - Vaishnav, R/o Medta
	1696	Private	Barani Soyam	0.0400	Ramdev s/o Shiv Lal, caste - Jat (Khada), R/o Khatedar
	1697	Private	Barani Soyam	0.0881	Ramdev s/o Shiv Lal, caste - Jat (Khada), R/o Khatedar
	1708	Private	Chahi 1	0.0616	Jora Ram s/o Hira Ram, caste - Jat (Danga), R/o Khatedar
	1709	Private	Chahi 1	0.0278	Sawal Ram s/o Chandra Ram, Dakhudi w/o Chandra Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o, Rahan Nagaur Sehkari Bhumi Vikas Bank, Branch Degana
	1710	Private	Chahi 1	0.1377	Sawal Ram s/o Chandra Ram, Dakhudi w/o Chandra Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o, Rahan Nagaur Sehkari Bhumi Vikas Bank, Branch Degana
	1711	Private	Chahi 1	0.0934	Sawal Ram s/o Chandra Ram, Dakhudi w/o Chandra Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o, Rahan Nagaur Sehkari Bhumi Vikas Bank, Branch Degana
	1712	Private	Chahi 1	0.0239	Harsa Ram s/o Bijaram, caste - Jat (Kamadiya), R/o Khatedar
	1713	Private	Chahi 1	0.1490	Harsa Ram s/o Bijaram, caste - Jat (Kamadiya), R/o Khatedar
	1716	Private	Chahi 1	0.0123	Parma Devi w/o Ramjiwan, caste - Jat (Kamediy), R/o Khatedar
	3247/3245	Private	Chahi 1	0.0313	Ramavatar s/o Haraji Ram, caste - Jat (Bhambu), R/o Lamba Jatan

			3245/1716	Private	Chahi 1	0.0243	Mangi Lal s/o Mukana Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
			1717	Private	Chahi 1	0.0075	Parma Devi w/o Ramjiwan, caste - Jat (Kamediay), R/o Khatedar
			1718	Private	Barani Soyam	0.0159	Parma Devi w/o Ramjiwan, caste - Jat (Kamediay), R/o Khatedar
			3246/1718	Private	Barani Soyam	0.0240	Chandudi Devi w/o Ram Nivas, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
			1720	Private	Barani Soyam	0.0605	Rameshwari w/o Pukhraj, caste - Jat (Dholiya), R/o Khatedar, Prachi Singh d/o Bhagirath, caste - Jat, R/o Paliyas
			1723	Private	Barani Soyam	0.0482	Sandhya w/o Sidhraj, caste - Oswal (Mehta), R/o Medta
			2039	Private	Chahi 1	0.6988	Ramkaran s/o Ramchandra, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
			2041	Private	Chahi 1	0.0453	Shankar Ram, Prabhu Ram s/o Lal Ram, caste - Jat (Danga), R/o Khatedar
			2045	Private	Chahi 1	0.4296	Gordhan Ram, Duga Ram s/o Prabhu Ram, Shanti Devi w/o Jhumar Ram, caste - Jat (Danga), R/o Khatedar
			2046	Private	Chahi 1	0.4532	Jhumar Ram, Amara Ram s/o Shankar Lal, Kelaki Devi w/o Shankar Lal, Prema Ram s/o Ram Nath, Goga Devi w/o Ram Nath, caste - Jat (Danga), R/o Khatedar
			2248	Private	Chahi 2	0.4489	Parsa Ram s/o Bapha Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Rahan SBBJ Branch, Medta City
			2274	Private	Chahi 1	0.3304	Shrinivas s/o Ramnivas, Suman w/o Ramnivas, Punam w/o Ramnivas, caste - Jast (Kamediya), R/o Khatedar
			2277	Private	Barani Soyam	0.0777	Bhawar Lal s/o Bhabut Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
			2278	Private	Barani Soyam	0.0809	Shivkaran s/o Lala Ram, caste - Jat (Kamediay), R/o Khatedar
			2279	Private	Barani Soyam	0.3884	Shivkaran s/o Lala Ram, caste - Jat (Kamediay), R/o Khatedar
			2280	Private	Barani Soyam	0.2802	Chetanram s/o Jassa Ram, Jaiprakash s/o Rampal, caste - Jat (Kamadiya), R/o Khatedar
			2283	Private	Barani Soyam	0.0794	Chetanram s/o Jassa Ram, Jaiprakash s/o Rampal, caste - Jat (Kamadiya), R/o Khatedar
			2316	Private	Chahi 1	0.3930	Omprakash s/o Shohan Lal, Singari w/o Late. Sohan Lal Jat (Kamadiya) R/o Khatedar
			2319	Private	Chahi 1	0.0398	Omprakash s/o Subhkaran, caste - Jat (Galeta), R/o Khatedar
			2320	Private	Chahi 1	0.4249	Mangu Ram s/o Bhura Ram, caste - Jat (Kamadiya), R/o Rahan SBBJ Branch Medta
			2327	Private	Chahi 1	0.5397	Mangu Ram s/o Bhura Ram, caste - Jat (Kamadiya), R/o Rahan SBBJ Branch Medta
			2330	Private	Chahi 1	0.2016	Ramniwas s/o Mangi Lal, caste - Jat (Kamediya), R/o Rahan SBBJ Branch Medta
			2331	Private	Chahi 1	0.0078	Ramniwas s/o Mangi Lal, caste - Jat (Kamediya), Mangu Ram s/o Bhura Ram, caste - Jat (Kamediya), Jimnai w/o Prithviraj, Sanjay, Yashpal s/o Prithviraj, Lalita d/o Prithviraj, cast - Jat (Galeta), R/o Khatedar, Rahan Mangu Ram, share - Nagaur Sehkari Bhumi Vikas Bank, Branch, Degana, Ramniwas, share - SBBJ Branch Medta
			2332	Private	Chahi 1	0.4297	Ramniwas s/o Mangi Lal, caste - Jat (Kamediya), Mangu Ram s/o Bhura Ram, caste - Jat (Kamediya), Jimnai w/o Prithviraj, Sanjay, Yashpal s/o Prithviraj, Lalita d/o Prithviraj, cast - Jat (Galeta), R/o Khatedar, Rahan Mangu Ram, share - Nagaur Sehkari Bhumi Vikas Bank,

				Branch, Degana, Ramniwas, share - SBBJ Branch Medta
2333	Private	Chahi 1	0.1481	Mangu Ram s/o Bhura Ram, caste - Jat (Kamadiya), Jimnai w/o Prithviraj, Sanjay, Yashpal s/o Prithviraj, Lalita d/o Prithviraj, caste - Jat (Galeta), R/o Khatedar
2334	Private	Chahi 1	0.0390	Mangu Ram s/o Bhura Ram, caste - Jat (Kamadiya), Jimnai w/o Prithviraj, Sanjay, Yashpal s/o Prithviraj, Lalita d/o Prithviraj, caste - Jat (Galeta), R/o Khatedar
2337	Private	Chahi 1	0.1273	Ramniwas s/o Mangi Lal, caste - Jat (Kamadiya), R/o Rahan SBBJ Branch Medta
2422	Private	Chahi 2	1.0835	Mohanpuri s/o Shankarpuri caste Gushayee R/o village 9.60 ha. Seeta Devi D/o Mohanpuri Harlalpuri Deenapuri Shivdhanpuri Dashrathpuri s/o Bhalapuri Shobha Susheela D/o Bhalapuri Neeru Devi w/o late. Bhalapuri caste Gushayee R/o village 2.02 ha. Harlalpuri Deenapuri Shivdhanpuri Dashrathpuri s/o late Bhalapuri Shobha Susheela D/o Late Bhalapuri Neerudevi w/o Late. Bhalapuri caste Gushayee R/o Harlalpuri Deenapuri Shivdhanpuri Dasrathpuri s/o late Bhalapuri Shobha Shushila D/o late Bhalapuri, Rahan Neeru Devi w/o Late Bhalapuri's part R/o UCO Bank Branch Medta City
2428	Private	Chahi 1	0.0763	Pukhraj s/o Rambaksh, caste - Jat - (Kamadiya), R/o Khatedar
2431	Private	Chahi 1	1.0971	Patasi w/o Late. Moti Ram, Pakka Ram s/o Moti Ram, Sita Devi w/o Late Sugana Ram, Manish, Ravindra s/o Sugana Ram, caste - Jat (Tada), R/o Khatedar
2461	Private	Chahi 1	0.1222	Harsukh, Mansukh, Sumant, Ram Kumar s/o Nema Ram, Ram Kanya w/o Nema Ram, caste - Jat (Dholiya), Rahan UCO Bank Medta City, R/o Khatedar
2462	Private	Chahi 1	0.2048	Chana Ram s/o Bhawra Ram, caste - Jat (Dholiya), R/o Khatedar
2463	Private	Chahi 1	0.2662	Prema Ram s/o Bhawara Ram, cast - Jat (Dholiya), R/o Khatedar
2464	Private	Chahi 1	0.2773	Harsukh, Mansukh, Sumant, Ram Kumar s/o Nema Ram, Ram Kanya w/o Nema Ram, caste - Jat (Dholiya), Rahan UCO Bank Medta City, R/o Khatedar
2466	Private	Chahi 1	0.2890	Dugra Ram s/o Bhawara Ram, cast - Jat (Dholiya), R/o Khatedar
2469	Private	Chahi 1	0.0026	Rampal, Dunga Ram s/o Ghisa Ram, caste - Jat (Jajeda), R/o Khatedar, Rahan Dunga Ram, Rampal, share UCO Bank Branch Medta City
2477	Private	Chahi 2	0.4995	Sunita w/o Ramdev, Priyanka d/o Late Ramdev, Rajvir, Ranvir s/o Late Ramdev, Mata Sunita w/o Late Ramedev, caste - Jat (Tada), R/o Khatedar
2476	Private	Chahi 1	0.7785	Jaiprakash, Omprakash s/o Shivkaran, caste - Jat (Tada), Rahan Jaiprakash, Omprakash, Bank of Baroda Branch Medta, R/o Khatedar
2481	Private	Chahi 2	0.0064	Jaiprakash, Omprakash s/o Shivkaran, caste - Jat (Tada), Rahan Jaiprakash, Omprakash, Bank of Baroda Branch Medta, R/o Khatedar
2506	Private	Chahi Soyam	0.5546	Sohan Lal s/o Rambaksh, caste - Jat (Kamadiya), R/o Rahan SBBJ Bank Branch, Medta City,

				2507	Private	Gair Mumkin Tubewell	0.0047	Sohan Lal s/o Rambaksh, caste - Jat (Kamediya), R/o Rahan SBBJ Bank Branch, Medta City
				2511	Private	Barani Soyam	0.1865	Mugana Ram, Raju Ram, Bhikh Ram, Banshi Ram s/o Late Hema Ram, Chukali w/o Late. Hema Ram, R/o Khatedar
				2512	Private	Chahi Soyam	0.1990	Sohan Lal s/o Rambaksh, caste - Jat (Kamediya), R/o Rahan SBBJ Bank Branch, Medta City,
				2531	Private	Chahi 2/ Barani 2	0.4759	Bhiya Ram s/o Hari Ram, caste - Jat (Kamediya), Sukh Ram s/o Chandra Ram, caste- Jat (Dholiya), Arjun Ram s/o Hari Ram, cast - Jat (Kamediya), Bhikha Ram s/o Hari Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar, Rahan Bhiya Ram s/o Hari Ram, share UCO Bank, Medta City
				2532	Private	Chahi 2/ Barani 2	0.0386	Bhiya Ram s/o Hari Ram, caste - Jat (Kamediya), Sukh Ram s/o Chandra Ram, caste- Jat (Dholiya), Arjun Ram s/o Hari Ram, cast - Jat (Kamediya), Bhikha Ram s/o Hari Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar, Rahan Bhiya Ram s/o Hari Ram, share UCO Bank, Medta City
				2533	Private	Chahi 2/ Barani 2	0.4277	Bhiya Ram s/o Hari Ram, caste - Jat (Kamediya), Sukh Ram s/o Chandra Ram, caste- Jat (Dholiya), Arjun Ram s/o Hari Ram, cast - Jat (Kamediya), Bhikha Ram s/o Hari Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar, Rahan Bhiya Ram s/o Hari Ram, share UCO Bank, Medta City
				2534	Private	Chahi 1	0.3026	Ramniwas Adopted s/o Narayan Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar Rahan SBI Branch Medta
				2535	Private	Chahi 1	1.0988	Ramnarayan s/o Budharam, caste - Jat (Jajeda)
				2540	Private	Chahi 1	0.0053	Ramniwas Adopted s/o Narayan Ram, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar Rahan SBI Branch Medta
				2279 / 2925	Private	Barani Soyam	0.0020	Chetanram s/o Jassa Ram, Jaiprakash s/o Rampal, caste - Jat (Kamadiya), R/o Khatedar
				1676/3023	Private	Barani Soyam	0.0652	Ramkaran s/o Ramchandra, caste - Jat (Kamediya), R/o Khatedar
				1695/2934	Private	Barani Soyam	0.1000	Bhawar Lal s/o Jiwandas, Diwakar, Ranchhod Das s/o Bheirumal, caste - Pushkarana Brahman (Joshi) Bhawar Lal, Diwakar s/o Jivan Das, caste - Vaishnav, R/o Medta
				1723/3019	Private	Barani Soyam	0.0035	Munni Begam, Parihar w/o Majid Khan, Prihar, caste - Muslim, R/o 27/9 Old Rajendra Nagar, New Delhi
						Total	15.9973	
		(5) Merta		3833	Private	Chahi Soyam	0.0255	Doli Banam Temple, Shri Charbhuj, R/o Khatedar
				3834	Private	Chahi Soyam	0.0300	Doli Banam Temple, Shri Charbhuj, R/o Khatedar
				3835	Private	Chahi Soyam	0.3695	Chuka Devi w/o Shankar Lal s/o Prema Ram, caste - Mali, share 0.84, Mohd. Hanif s/o Mohd. Safiraja, caste - Muslim (Bandukiya Luhar), share 0.58, R/o Khatedar
				4241	Private	Chahi Soyam	0.1248	Usha Devi w/o Bhawar Lal, caste - Vaishnav, R/o Katyasani
				4242	Private	Chahi Soyam	0.2855	Manju Devi w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Premwati w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi, R/o Kuchera, Kailash Chand s/o Banshi Lal, caste - Ghanchi (Borana),

				R/o Khatedar, Chanchal Devi w/o Hansraj Bhati, caste - Ghanchi (Borana)
4243	Private	Chahi Soyam/ Barani Soyam	1.0969	Manju Devi w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Premwati w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi, R/o Kuchera, Kailash Chand s/o Banshi Lal, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Chanchal Devi w/o Hansraj Bhati, caste - Ghanchi (Borana) R/o Bhagat ki Kothi Jodhpur, Neni Devi W/o Bansilal cast Ganchi (Borana) R/o
4244	Private	Gair Mumkin	0.0132	Doli Banam Temple , Shri Charbhuj, R/o Khatedar
4246	Private	Barani Soyam	0.6295	Manju Devi w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Premwati w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi, R/o Kuchera, Kailash Chand s/o Banshi Lal, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Chanchal Devi w/o Hansraj Bhati, caste - Ghanchi (Borana)
4247	Private	Barani Soyam	0.7819	Manju Devi w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Premwati w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi, R/o Kuchera, Kailash Chand s/o Banshi Lal, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Chanchal Devi w/o Hansraj Bhati, caste - Ghanchi (Borana)
4260	Private	Chahi Soyam	0.0361	Hukami Chand, Girdhari Lal s/o Shankar Lal, caste - Sewag, R/o Khatedar
4262	Private	Chahi Soyam/ Barani Soyam	0.7073	Lila Devi urf Lalu w/o Girdhari Lal, caste - Sewag, R/o Khatedar
4277	Private	Barani Soyam	0.2842	Surendra s/o Ramkaran, Bali s/o Ramkaran s/o Dhannaram, Gopal Singh s/o Indra Raj, Bali s/o Indra Raj s/o Dhanna Ram, caste - Jat (Jajeda), R/o Dangawas
4278	Private	Chahi Soyam	0.7821	Bheruram s/o Khenraj 1.62 ha. Shankarram s/o Khenraj 1.62 ha. Bhairuram Shankarram s/o Khenraj 0.07 ha. caste Jaat R/o Dangawash Koshalya Devi w/o Chandrasekhar Munni w/o Ramnarayan caste Brahman 3.31 ha. R/o Bheruram s/o Khenraj 3.19 ha. Shankarlal s/o Khenraj 1.69 ha. Bheruram Shankarlal s/o Khenraj 0.09 ha. caste Jaat R/o Dangavash, Rahan Shankarlal part R/o UCO Bank Medta city
4279	Private	Barani Soyam	0.4957	Budharam s/o Sawal Ram, caste - Regar, R/o Khatedar
4592	Private	Chahi Soyam	0.6415	Ramkawari w/o Ramkaran, caste - Jat (Jajeda), R/o Dangawas, Ramavatar s/o Ukaram, Rukmai w/o Ukaram, caste - Khati, R/o Dangawas
4595	Private	Chahi Soyam	0.3973	Dhanna Ram s/o Doda Ram, caste - Jat, R/o Dangawas UCO Bank Branch Medta
4560	Private	Chahi Soyam	0.0197	Rampal, Gewa Ram, Bhabhut Ram, Madan Lal s/o Hajari Ram, caste - Jat, R/o Dangawas
4561	Private	Chahi Soyam	0.4611	Sita Ram urf Viru s/o Basti Ram, caste - Dhanka, R/o Khatedar
4562	Private	Chahi Soyam	0.7245	Bheru Ram, Tara Chand, Bhawar Lal s/o Asharam, Sohan Lal, Hadman, Khiwraj s/o Shyam Lal, Biraju Devi w/o Shyam Lal, caste - Regar, R/o Khatedar
4563	Private	Chahi Soyam	0.0390	Doli Banam Temple, Shri Badwasan Mata Ji R/o
4580	Private	Barani Soyam	0.0533	Megaram s/o Chautha Ram, caste - Mali, R/o Rahan SBBJ Branch Medta City
4581	Private	Barani	0.6780	Megaram s/o Chautha Ram, caste - Mali,

					Soyam		R/o Rahan SBBJ Branch Medta City
			4583	Private	Chahi Soyam	0.7455	Mukta Jain w/o Sagarmal, Hira Jain w/o Shanti Lal, caste - Oshwal, R/o Khatedar, Rahan SBBJ Branch Medta City
			4589	Private	Chahi 2	0.1914	Sandip Kumar s/o Suresh Chand, caste - Oshwal, R/o Chennai
			4588	Private	Chahi 2	0.3456	Jemala w/o Mustak Sya, R/o Khatedar
			4241/5239	Private	Chahi Soyam	0.1894	Mohd. Hanif s/o Safiraja, caste- Muslim (Bandukiya) Luhar, R/o Khatedar
			4243/5160	Private	Chahi Soyam	0.2133	Manju Devi w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Premawati w/o Kailash Chand, caste - Ghanchi, R/o Kuchera, Kailash Chand s/o Banshi Lal, caste - Ghanchi (Borana), R/o Khatedar, Chanchal Devi w/o Hansraj Bhati, caste - Ghanchi (Borana)
			4589/5261	Private	Chahi 2	0.1008	Jamela w/o Mustak Sya R/o Khatedar
					Total	10.4625	
					Grand Total	218.3235	

[F. No. NHAI/BOT-II/1012/01/2007-LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.